



वनाकाय ॥ ७७

अनुक्रमणिका.

गाथा

संगच्छाचरणनां श्री महादीरस्वामी प्रते नमस्कार.	१
वेनयनुं स्वरूप.	६
वेनयविशे लौकीक द्रष्टांत.	७
पुरुमहाराजनुंमहातम्य.	८
भाचारजना गुण.	११
विं उपर श्री चंदनवाळाजीनो द्रष्टांत.	१३
गोनयनुं स्वरूप.	१४
गोमिनेविशे पुरुपनुं प्रधानपणुं.	१६
गोसात्म चाखे धर्म.	२०
गोण रहीत वेशनुं अग्रमाणपणुं.	२१
गोपाने कराने शुभाशुभ कर्मनो वंघ.	२४
दुल्भ जोधो पुरुपनां लक्षण.	२८
दुख दुखनुं स्वरूप.	३०
गारे कर्म बीदनुं लक्षण.	३१
गजयत्तभीधी नीपन पतां दुःख.	३२
गुरु महाराजनो शीप्य प्रते उपदेश.	३३
गुनिमारग तथा परीगृहनुं स्वरूप.	५१
गिंदीखेपज्ञीनो द्रष्टांत.	५४
गिनाने विशे गजमुकुमालनो द्रष्टांत.	५५
गितने विशे धैर्यपणा उपर श्रीधुल्भद्रजीनो द्रष्टांत.	५६

स्त्रीना संसर्गपी यता दुरगुणो.

गुणंत पुरुगोना अनुरागनुं फळ.

पीठ माहापीठनुं द्रष्टांत.

अनर्णवाद बोलनार पुरुपनी गती.

गुरुने उदवेगनुं स्थानक.

वाढतर उर तामळीतामनो द्रष्टांत.

शालीभद्र तथा भेतारस मुनीनो द्रष्टांत.

गुरुना वचननुं बहु मान्यपणुं.

धर्माधारजनी मेवा तथा सूत्र अनुसारे भाषानुं बोलवुं.

धर्म करी-कराव्यो तथा अनुमोदना करवा गांडयो एवो  
रव्या उतम फळपते आपेले ते उपर द्रष्टांत.

बाणना महीत धर्मनुं अंगीकार करवुं.

एक स्थानकेक्यारेरहेवुं ते उपर संगमनामाआचारजनोद्रष्टांत

एव माधुनां लक्षण.

समनानुं फळ.

व्याशुची महीत भोगनुं भोगवुं.

दमदनुं नीरगुणपणुं.

मुनीमाहारजनी आचरणा.

संसारनां कुटुंबी लोकधी उत्पन्न पनां दुःख.

मुनीश्रे.नुं नीगळंवनानुं.

मेवदुनारनो द्रष्टांत.

सतंशतानुं दुःख.

माधु मुनीराजनो विनय.

पूर्व संचीत पुन्यनुं नाश धनुं.	१७०
हलु कर्मिं जीवनुं लक्षण.	१७२
चेलाती पुत्रनो द्रष्टांत.	१७४
परजीवने पीडा न करवी ते उपर मरुदेवी मातानो द्रष्टांत.	१७९
प्रत्येकबुधनो स्वरूप.	१८०
ससक भसक नामे वे भाइनो द्रष्टांत.	१८२
इंद्रीओने वश करवापी आ लोक तथापरलोकनुं सुधरवुं.	१८६
संसारी सुखनुं स्वप्न तुल्यपणुं.	१८९
मंगु नामा आचारजनो द्रष्टांत.	१९३
जीनराजना धर्मनुं अंगीकार करवुं ते.	१९४
संतोष धारण करवाना मुल हेतु.	१९८
मोह कर्मनुं माहात्म्य.	२०५
जीवीतनुं चंचळपणुं.	२०८
पांच इंद्रीओना वीपयना वीपाक.	२१०
प्रतीश्रोत धर्मनुं पामवुं तथा मोक्षनुं कारण.	२१७
ज्ञान दर्शन तथा चारीत्रनुं स्वरूप.	२१८
मनुष्यपणानुं सार्थक.	२२०
कर्मनी वृद्धिनुं तथा कर्मनी हानीनुं कारण.	२२८
श्रावकना गुण वीशो.	२३०
धकवर्तो राजा पोतानी रोधी छोडवा समर्थ धाय पण चारी- त्रपी पडेलो एवो बे साधु ते पोतानुं सीयिलपणुं त्याग नथी करी शकतो ते वीशो.	२५५
दासीप्रभ राजानो द्रष्टांत.	२५६

मोक्षना त्रण मारग

संसारना त्रण मारग.

द्रव्यालिंगीनुं लक्षण.

साधुनुं लक्षण.

संवेगपक्षपणानुं दुर्लभपणुं.

शुध प्ररूपकपणानो गुण.

आत्मार्थि पुरुष लाभ स्वराजातनो वीचार करे.

संवेगपक्षीनी जतनानुं प्रमाणपणुं.

भारे कर्मोपणानो स्वरूप.

आ उपदेशमाला गुणीजनने हीतकारीछे.

वीराम्यनी वार्ता सर्वेन सारी नथी लागती ते वीशे.

आ उपदेशमाला भणवानो गुण.

आ उपदेशमालाना कर्ता पुरुषनुं नाम आ गाथामां गति  
रति सुचव्युंछे ते कहेछे.

हीनराजना वचननुं महात्म्य.

आ उपदेशमाला जोग्य पुरुषने आपती.

आ उपदेशमालानुं महात्म्य.

का उपदेशमाला भणवार्थी शुं गुण नीत्यन धायछे ते.

आ उपदेशमालानी गायानी संख्या.

आ उपदेशमाला प्रने आशीश.

आ संयमां ते ओरुं अधीकुं कहणुं होय ते वीशे कर्ता  
रश स्वभावना सुना कहेछे ते.

# उपदेशमाला.

बालावबोध.

श्रीगुरुभ्योनमः

नमिज्जणधजिणवरिदे ॥ इंदनोरिदाघिए १ तिलोअगु

रु २ ॥ उवएसमालभमिणमो ५ ॥ बुच्छानि ६ गुरुवरसेणं ६ ॥ २ ॥

अर्ये ॥ १ ॥ इंद्र एटलें देवताओना इंद्र जे तेंमणे ॥ नरेंद्र

एटलें नरना इंद्र एटलें चक्रवर्त्यादिक जे तेंमणे अरचित

एटले पूजेला एहवा ॥ २ ॥ त्रण लोकना गुरू एटलें त्रण

लोकना जीवोनें हितकारि उपदेशना दातार एहवा

॥ ३ ॥ जिनवरेंद्र प्रतें जिन एटलें अवधिज्ञानि मन पर्य-

वज्ञानि तेंमनि मध्ये वर एटलें श्रेष्ठ एटले सामान्य

केवलि तेंमनि मध्ये इंद्र समान एटलें तीर्थकर प्रते ॥ ४ ॥

नमस्कार करिने ॥ ५ ॥ अने गुरूना उपदेशे करिने एटलें

तीर्थकर गणधरना उपदेशे करिने पण पोतानि बुद्धिए

करिने नहि ॥ ६ ॥ आ उपदेशमाला प्रतें एटलें उपदे-

शानि श्रेणि प्रते ॥ ७ ॥ इंद्र धर्मदासगाणि क्षमा श्रमण एवे

नामे ॥ ८ ॥ कहिण. आ प्रथम गाथाए करिने मंगला-

चरण जणाव्युं छे अने वळी स्वच्छंदपणुं टाळ्युं छे ॥ ९ ॥

जगचूडामणिभूर्डे ॥ उसभो २ वीरो ३ तिलो ४ असिरति

ठडे ५ ॥ एगो ६ लोगाइचो ५ ॥ एगो ७ चखवू ९ तिहुअणस्स ५ ॥ २

अर्थ. ॥ १ ॥ जगतनि मध्ये चूडामणितुल्य एटले मुग  
सदश एहवा ॥ २ ॥ श्रीरुपभदेवस्वामि ॥ ३ ॥ त्रण लोक  
मस्तकनें विशें तिलक समांन एहवा ॥ ४ ॥ श्रीवीरस्वां  
एटले जेंम तिलकें करिनें मूख शोचेछे तेंम वीरस्वामि  
करिनें जगत शोभेछें ॥ ५ ॥ ए वे तीर्थकरनि मध्ये ए  
श्री रुपभदेवा ॥ ६ ॥ लोकनि मध्ये सूर्य समांन जांण  
केंमजे समस्त मारगना देखाडनारा छे ए कारण म  
॥ ७ ॥ एकअन्य श्री वीरस्वामि ॥ ८ ॥ त्रिण भुवनना एट  
त्रिण भुवनना रेहेनार लोकोने ॥ ९ ॥ नेत्र तुल्य जांण  
केंमजे नव्य प्राणियोने ज्ञानरूप नेत्रना दातारछे  
कारण माटे ॥ २ ॥

संवच्छर १ मुसभजिणो ५ ॥ च्छम्मासे २ वदुमाणाजिणचंदो ३

॥ इय ४ विहरिया ५ निरसणा ५ ॥ जइज्जए ९ उवमाणेणं ८ ॥ ३

अर्थ. ॥ १ ॥ रुपभजिन एटले श्री प्रथम तीर्थकरां  
संवत्सर सुद्धि एटले एक वरप सुद्धि ॥ ३ ॥ वर्धमानजि  
चंद्र एटले सामान्य केवलिननि मध्ये चंद्रमा सम  
एहवा वर्धमानस्वांमि चोवीसमातीर्थकर सर्व गुणें करि  
श्रेष्ठे ए कारण माटे चंद्रमानु उपमान दिधुंछे ॥ ४ ॥

नास सुद्धि ॥५॥ ए प्रकारे ए वे तीर्थकर ॥६॥ भोजन  
रहित एटले द्रव्य थकी आहार रहित अने भाव  
थकी मुर्छा रहीत एटले तप सहित ॥७॥ विचरचा  
॥८॥ भगवतना दृष्टांते करिने ॥९॥ हे शिष्य तप  
कर्माने विशेष उद्यम करय ए भाव ॥६॥

जहना तिलोयनाहो ॥ विरहइ बहुहाइ अचरिचज

पत्त ॥ इयतीयंतकराई ॥ एत्त स्वमा ॥ स्वचाहूण ॥ १॥ १॥

अर्थ ॥ १ ॥ जो ॥ २ ॥ प्रथमा ॥ ३ ॥ अण लोकना नाथ एटले

त्रिण भुवनना स्वानि ॥ ४ ॥ नीच जन सर्वधि एटले दुष्ट

जनना करेला एहवा ॥ ५ ॥ जीवितना अंत करनारा एटले

जीवितना नाश करनारा एहवा ॥ ६ ॥ यणा एहवा उपसर्ग

ते प्रतो ॥ ७ ॥ विशेषे करिने सहन करेछे एटले भगवत

जे तेमणे संगनादि देवताना करेला उपसर्ग क्षमाये

करिने सहन करचा ॥ ८ ॥ तो ए प्रकारे ॥ ९ ॥ आ ॥ १ ॥

क्षमा ॥ १ ॥ सर्व साधुअने करवा जोग्यछे एटले भग

वतनु अनुष्ठान हृदयने विशेषे स्थापन करिने सर्वसाधुओं

ए पण नीच लोकोनुं करेलुं ताडनादिक सहन करवुं

एभाव ॥ १॥

नचइ बरइ चालेउं ॥ नइइ नडा चइमानादिनचंदो ॥



उपसर्गसहस्रेहिविंशतिमिरु<sup>१०</sup> बहा<sup>१</sup> वायुगुंजाहिं<sup>९</sup> ॥५॥

अर्थ ॥१॥ मोक्षने विशेष करिछे मतिते जेणे एटले स  
कर्म रहित थवाने तत्पर थयेला एहवा ॥२॥ ज्ञान  
गुणे करिने मोहोटा एहवा ॥३॥ वर्द्धमान जिन चंद्र  
वीरस्वांमि ॥४॥ उपसर्गोता सहश्रे करिने पण  
हज्जारो उपसर्गाये करिने पण ॥५॥ ध्यान थकी  
पुरुष जे तेंणे पण चलाववानें ॥६॥ नहि ॥७॥ स  
थइये एटले कोइ पुरुष पण वीरस्वांमि प्रते उ  
करवे करिने पण ध्यान थकी चलावि शकें नहि  
जेमा ॥८॥ वायुना गुंजारवजे तेमणे ॥९॥ मेरु पर्व  
ते न चलावि सकिये एटले जेंम शब्दे करिने स  
वायुना समूह मेरु पर्वत प्रते न चलावि सके तें  
रस्वांमी प्रते कोइ चलावि शके नहि तेहनि पठम  
साधुश्रोएपण ॥१०॥ एहवो उपसर्ग  
सत्रे पण ॥११॥ नहि ए उपदे

॥१०॥

॥११॥

उपदेशमाला.

एहवा॥३॥अने सम्यक् प्रकारे पांम्योछे श्रुत ज्ञाननो  
पार ते जेणे एटले सर्व शास्त्रना पारगामि एटले श्रुत  
केवली एहवा॥४॥ प्रथम गणधर एटले श्री गौतम  
स्वांमी एहवे नामे मुख्य गणधारी॥५॥ ते एटले पूर्वे  
पूछेलो पछी नगवंते कहेलो एहवो॥६॥जे अर्थ ते प्रते  
॥७॥ जाणतो सतो पण ८॥विस्मितछे हृदय ते जेहनुं  
एटले सांभलवानी उतावले करिने विकस्वर थयां छे  
लोचन ते जेहनां एहवो सतो॥९॥सर्व अर्थ प्रते॥१०॥  
सांभलेछे.गौतम स्वांमीनिपठम बीजाये पण विनये क-  
रिने पुछवुं अने विनये करिने सांभलवुं ए उपदेश ॥६॥

॥ विनय विज्ञे लौकिक दृष्टांत. ॥

नं आणावेइ राया ॥पगइ उं तं धस्तिरेण इच्छंति ॥

इयत्गुरुजनमुहभणियं ॥ कयंजालिउडेहिं सोयवं ॥७॥

अर्थ.॥१॥ राजा॥२॥ जे कार्य प्रते॥३॥आज्ञा करे  
छे एटले बतावेछे॥४॥ते राजाना अनुधर एटले सेवक  
जोक ॥५॥ ते कार्य प्रते ॥६॥ मस्तके करिने ॥७॥  
करवाने इच्छेछे एटले हाथ जोडिने ते कारज प्रते प्र  
माण करेछे॥८॥ए प्रकारे एटले राजाना दृष्टांतें करिने  
॥९॥गुरुजनना मुखें कहेलुं एटले गुरु महाराजे बतावेलुं

एहवुं जे कार्ज ते प्रते ॥१०॥ करयोछे श्रंजलि पुटे  
जेमणे एटले हाथ जोडिने आगल उभा रहिने ॥११॥  
विनय सहित सांभलवुं. केमके धर्मने विशे विनयर्त  
मुख्यता छे ए कारणमाटे विनय करवो ते श्रेय छे ॥१॥

बह<sup>१</sup>सुरगणाण<sup>२</sup>इंदो<sup>३</sup>॥ गहगणतारागणाण<sup>४</sup>ब्रह<sup>५</sup>चंदो<sup>६</sup>॥ त्र  
ह<sup>७</sup>य<sup>८</sup>पयाण<sup>९</sup>नरिंदो<sup>१०</sup>॥ गणस्सवि<sup>११</sup>गुरु<sup>१२</sup>तहा<sup>१३</sup>गंदो<sup>१४</sup>॥ ८

अर्थ ॥१॥ जेम ॥२॥ देवताओना समूहनि मध्ये ॥३॥  
इंद्र श्रेष्ठछे ॥४॥ अने जेम ॥५॥ ग्रह एटले मंगलादिक  
ठ्यासी ग्रह । गण एटले अग्निच्यादिक नक्षत्र ॥ ता  
एटलें कोटा कोटि संख्य तारा तेमनो गण एटले समू  
तेनि मध्ये ॥६॥ चंद्रमा श्रेष्ठछे एटले सर्व ज्योतिर्पा  
मध्ये चंद्रमा अतिशय मोहटोछे ॥७॥ बलि ॥८॥ जे  
॥९॥ प्रजानि मध्ये एटले रहियतनि मध्ये ॥१०॥ रा  
श्रेष्ठछे एटलें मोहटो छे ॥११॥ तेंमा ॥१२॥ गच्छनि मध  
पण एटलें सम्यगज्ञानादिगुण सहित साधुना समूदा  
नि मध्ये पण ॥१३॥ आणंदना उपजावनार एटले सम्  
क्त्वादि गुणना पमाडनार एहवा ॥१४॥ गुरु श्रेष्ठछे ॥ ८

बालुत्ति<sup>१</sup>महिपालो<sup>२</sup>॥ न<sup>३</sup>पया<sup>४</sup>परिभवइ<sup>५</sup>एस<sup>६</sup>गुरु<sup>७</sup>उवमा<sup>८</sup>॥  
नं<sup>९</sup>वा<sup>१०</sup>पुरउंकाउं<sup>११</sup>॥ विहरंति<sup>१२</sup>मुणी<sup>१३</sup>तहा<sup>१४</sup>सोवि<sup>१५</sup>॥ ९

अर्थ ॥१॥ प्रजा एटले नगरना रेहेनार लोका॥२॥  
 नि राजा एटले पृथविपाला॥३॥ बालकछे ए प्रका-  
 नि बुद्धियेकरिने ॥४॥ ना॥५॥ पराभव करे एटले ती-  
 स्कार करे नहि बालक एहवो पण राजा प्रजा लोकने  
 मानवा जोग्य होय॥६॥ आ॥७॥ आचारजने विशेषे॥८॥  
 पना देवि एटले अवस्तार्ये करिने तथा चारित्र परजा  
 करिने नांहाना पणज्ञान गुणे करिने मोटा एहवा जेहे  
 रुते राजानि पठन मानवा जोग्यछे॥९॥ तालि॥१०॥ जे  
 तितार्य प्रते॥११॥ मुनि जे ते॥१२॥ अग्रेसर करिने एटले  
 पुरुषे अंगिकार करिने॥१३॥ विचरेछे॥१४॥ तेनज ए  
 टले गुरुनि पठन॥१५॥ तेपुरुष पणमानवा जोग्यछे॥१६॥

पडित्तो तेदस्ती ॥ १ ॥ नृगणह पागतो महुरवशे ॥

मेभीने पडित्तो ॥ १ ॥ उरुत्तरो व आदरिडे ॥ १२ ॥

अर्थ ॥१॥ प्रतिरूप एटले तीर्थकर गणधरादिकने  
 रूप एहवा॥२॥ तेनस्वी एटले देदिप्यमान एहवा॥३॥  
 नृग एटले वर्तमान कालने विशेषे प्रथान एटले अन्य  
 लोकनि अपेनाये करिने उल्लट एहवुं आगम एटले  
 मुनछे जेहेने एटले वर्तमान कालने विशेषे वर्तनुं जे आ-  
 नि तेना पारगानि एहवा ॥४॥ नधुरछे वास्य ते जे

## उपदेशमाला.

८

हनुं एटले सुंदर वधनना बोलनार एहवा ॥५॥गंज  
 एटले श्रतुच्छ एटले विजा लोकोए नथि जाण्युं हव  
 ते जेहनुं एहवा ॥६॥ धीरजवंत एटले संतोपवंत एट  
 स्थिर चित्त वाला एहवा ॥७॥ बलि ॥८॥ उपदेश दे  
 ने तत्पर एटले सत्य वचनोये करिने नव्य प्राणियं  
 मारगने विशे प्रवर्तावनार एहवा ॥९॥ आचारज हे  
 एटले पंचाचार पालवाने विशे तथा पलाववाने वि  
 तत्पर होय ॥१०॥

### ॥ आचारजना गुण ॥

अपरिसावी<sup>१</sup> सोमो<sup>२</sup> ॥ संगहसीलो<sup>३</sup> अभिगहमइ<sup>४</sup> य<sup>५</sup>

॥ अविक्थनो<sup>६</sup> अचबलो<sup>७</sup> ॥ पसंतहियडंगुरु<sup>८</sup> होइ<sup>९</sup> ॥ ११

अर्थ. ॥१॥ अप्रतिस्त्रावी एटले ठिद्र रहित पथ्यर

जाजननि पठम बीजा पुरुपोये कहेलुं पोतानुं गुप्तं तेर

पांणिते नस्रवे एटले परनिछानि वात बीजानि आ

ल न कहे ॥२॥ सोम्य एटले प्रथम देखवे करिने

आनंद उपजावनारा एहवा ॥३॥ शिष्यादिकने छ

वस्र पात्र पुस्तकादिकनो संग्रह करनारा एहवा ॥४॥

बलि ॥ ५ ॥ अजिग्रह करवानिछे मति ते जेहां

एटले द्रव्य क्षेत्रकालने जावे करिने अजिग्रह करन

हवा॥६॥ अने बहु न बोले अथवा पोतानि प्रसंशा करे  
 हि एहवा॥७॥ अने अचपल एटले चंचल परिणामरहित  
 हवा॥८॥ अने वली प्रशांत छे हृदय ते जे हनुं एटले क्रोधा  
 कें करिने रहित छे चित्त ते जे हनुं एटले शांत मूरति एहवा  
 ने गुरुना गुणे करिने सहित एहवा गुरु॥९॥ होय. ए  
 गरण माटे एहवा जे गुरु ते विशेषे करिने मानवा  
 गेव जाणवा. ए उपदेश ॥११॥

कइयावि<sup>१</sup> जिणवरिंदा<sup>१</sup> ॥ पत्ता<sup>१</sup> अयरामरं<sup>१</sup> पहं<sup>३</sup> दाउं<sup>२</sup> ॥

आयरि एहिं<sup>१</sup> पवयणं<sup>८</sup> ॥ धारिज्जइ<sup>१</sup> संपयं<sup>९</sup> सयलं<sup>१०</sup> ॥ १२ ॥

अर्थ. ॥१॥ जिनवरेंद्र एटले तीर्थकर जिनशासननि म  
 र्नादाना करनारा एहवा॥२॥ कोइ कालने विशेषे पण॥३॥  
 मार्ग एटले सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र रूप मोक्ष मा  
 र्ग प्रते॥४॥ भव्य प्राणियोने आपिने एटले पमाडिने॥५॥  
 अजरामरप्रते एटले मोक्षप्रते ॥६॥ पांम्या॥७॥ त्यार  
 पछि एटले तीर्थकरना मोक्ष गया पछि आचारज जे ते  
 मणे॥८॥ प्रवचन एटले चतुरविध संघ अथवा द्वादशां  
 गिरूप॥९॥ आ कालने विशेषे॥१०॥ समस्त प्रकारे॥११॥  
 धारण करि एछीए एटले हमणां आ कालने विशेषे तीर्थ  
 करनो विरह थये सते समस्त शासन आचारजोवे करिने

चालेछे एटले तीर्थकरनो अजाव सते आचारज  
 घलावेछे ए जाव ॥१२॥

अणुगमई<sup>१</sup> भगवई<sup>२</sup> ॥ रायसु<sup>३</sup> अज्जा<sup>४</sup> सहस्सविदेहि<sup>५</sup> ॥ तह  
 वि<sup>६</sup> न<sup>७</sup> करेइ<sup>८</sup> माणं<sup>९</sup> ॥ परियच्छई<sup>१०</sup> तं<sup>११</sup> तहा<sup>१२</sup> पुणं<sup>१३</sup> ॥ रे  
 अर्थ<sup>१४</sup> ॥ १ ॥ राजानि पुत्रि एटले दधिव न राजानि वे  
 एहवि ॥ २ ॥ आर्या एटले साध्वी चंदन वाला नामे  
 सहस्रचंदे करिने एटले हजारो गमे लोकना  
 करिने ॥ ४ ॥ अनुसरेलि एटले परिवरेलि एहवि ॥  
 पूज्य एटले पूजवालायक अने सौजाग्यादि गुणवा  
 एहवि सति ६ ॥ तोये पण ते साध्वि चंदनवाला जे ते  
 मानप्रते एटले अहंकार अजिमान प्रते ॥ ८ ॥ १ ॥  
 एटले आहवि पूजनिक थइने पण गर्व नथि करति ते  
 आश्चर्यछे ते स्युं जाणिने अहंकार नथि करति ते कहेछे  
 ॥ १ ॥ ते पूजनिकपणाना माहात्म्य प्रते ॥ १ ॥  
 ॥ १२ ॥ निश्चे ॥ १३ ॥ जाणेछे एटले जे आ पूजनिकप  
 छे ते ज्ञान दर्शन चारित्रादि गुणोनुं माहात्म्यछे पण  
 माहरु माहात्म्य नथि. ए प्रकारे जाणेछे ते माटे अहं  
 कार नथि करति तेहनि पठम बीजि साध्विओए तय  
 आविकाओए अहंकार न करवो ए उपदेश ॥ १३ ॥

॥ विनयनो स्वरूप. ॥

दिनादिलिख्यस्त्वं दुमगस्त्वं ॥ अभिमुहा ३ अञ्ज चंदणा ५ अञ्जा ६

॥ ने ७ च्छद्र ८ आसणगहणं ९ ॥ सो १ विण्डं १ ० सव्व अञ्जाणं ११ ॥ १४ ॥

अर्थो १ ॥ एक दिवसनो दिक्षित एटले तेज दिवसे

प्रवर्जित धएलो एहवो ॥ २ ॥ द्रुमक एटले जिधु एटले

जिखारि, गीतार्थनि पासे साधुनो वेप लेइने पोतानि

समिपे आव्यो तेहना विनयने अर्थो ३ ॥ सन्मुख आवि

एहवि ॥ ४ ॥ डाहि एहवि चंदना एटले चंदनवाला नामे

॥ ५ ॥ साध्वी ॥ ६ ॥ आसन ग्रहण करवा प्रते पण ॥ ७ ॥

न ॥ ८ ॥ इच्छे एटले जिहां सुधि साधु पोताना सन्मुख

उत्ता रह्या तिहां सुधि आसन छेटे मुकीने उजि रहि

पण वेठी नहि ॥ ९ ॥ ते ॥ १० ॥ विनया ११ ॥ सर्व साध्वी

योने जाणवो एटले सर्व साध्वीयोयें चंदनवालानि पठेंम

साधु मुनिराजनो विनय करवो. ए उपदेश ॥ १४ ॥

वरिसस्यदिलिख्ययाए १ अञ्जाए ३ अञ्जदिलिख्यउंताहु ३

अनिगनचंदननमंठपण ४ ॥ विनएण ५ सो सुज्जो ११ ॥ १५ ॥

अर्थो १ ॥ सोवरसननि दिक्षा वालि एटले जेने दिक्षा

लिधा पछि सो वरस धएलां एहवी ॥ २ ॥ साध्वी जे

तेषिए ३ ॥ जे राजनो दिक्षित साधु एटले एक दिवसनो



दिकित जे साधु॥४॥ अभिगम एटले सामुं जवुं-वंद  
 एटले द्वादशवृत्तवंदन करवुं-नमंसण एटले अंतरप्री  
 ए करिने नमस्कार करवो ते पूर्वोक्तरूप ॥५॥ विन  
 करिने एटले आसनादि आपवे करिने एटले आचार  
 नें तुल्य भक्ति करवे करिने ॥६॥ ते मुनि॥७॥ पूज  
 जोग्यछे एटले एक दिवसनो प्रवर्जित एहवोय पा  
 मुनि, साध्विओने पूजनिक जाणवो. ए जाव ॥१५॥

धर्मो<sup>१</sup>पुरिसपभूवो<sup>२</sup>॥पुरिसवरदेसिउ<sup>३</sup>पुरिसजिओ<sup>४</sup>॥

लोए<sup>५</sup>वि<sup>६</sup>पहू<sup>७</sup>पुरिसो<sup>८</sup>किं<sup>९</sup>पुण<sup>१०</sup>लोगुत्तमे<sup>११</sup>धर्मो<sup>१२</sup>॥१६॥

अर्थ॥१॥धर्म एटले दुरगतिमां पडता जीवने रा  
 एहवो जे धर्म ॥ २ ॥ पुरुपथकि उत्पन्न थएलो  
 हवो॥३॥पुरुप एटले गणधर तेमनि मध्ये वर एट  
 थेष्ट एटले तीर्थकर तेमणे देखाडेलो एटले कहेलो  
 हवो॥४॥पुरुपछे जेष्ट एटले उत्तम ते जेहने विशे  
 टले श्रुत चारित्र रूप धर्मनो पालनार पुरुपज प्रां  
 होय॥५॥ अने लोकने विशे॥६॥पण॥७॥पुरुपा॥८॥प्र  
 एटले स्वांमी होय पण छि स्वांमि न होय॥९॥तेथ  
 लोकने विशे उत्तम एहवो॥१०॥धर्म तेहने विशे॥११  
 वली॥१२॥स्युं केहवुं एटले जो लोकने विशे पण पुरु

चांमिछे तारें लोकने विशे श्रेष्ठ एहवा धर्मने विशे वलि  
युं केहवुंतेम धर्मने विशेतो विशेपे करिने पुरुपज श्रेष्ठ  
श्रेष्ठ.केमके पुरुपविना धर्म चाली शके नहि.ए जावा १६।

संवाहणस्स ३२त्तो ५॥ ताइया १ वाणारसीयनयारिए २॥

कन्नासहस्स ५ महियं ५॥ आसी ५ किर ५ रूपवंतीणं ६॥ १७॥

तहवि १ य २ सा ३ धरायसिरी ५॥ उल्लटंती ३ न ५ ताइया ५ वा

हिं ५॥ उयरट्टिएण ५ इक्केण १०॥ ताइया १२ अंगवीरेण ११॥ १८॥

अर्थ ॥ १॥ ते कालने विशे ॥ २॥ वाणारसी नगरिने  
विशे ॥ ३॥ संवाहननांमे ॥ ४॥ राजा तेहने ॥ ५॥ रूपनि  
शोभाए करिने अधिक एहवि ॥ ६॥ रूपवंती एटले सोना  
ग्यपणाए करिने सहित एहवि ॥ ७॥ कन्याओनुं सहस्र  
एटले घणि रूपवंति अने सोनाग्यवंति एहवि हजार  
कन्याओ ॥ ८॥ हती ॥ ९॥ एहविरिते सांजली एछीए १७॥

अर्थ ॥ १॥ तोयें पण ॥ २॥ वलि ॥ ३॥ नाश पांमति एटले  
बीजा राजाए लुंटा मांडेलि एहवि ॥ ४॥ ते ॥ ५॥ राज्यनी  
लक्ष्मी ॥ ६॥ ते कन्याओए ॥ ७॥ न ॥ ८॥ राखी एटले  
हजार कन्याओ पण राज्यनि संपदा प्रते न राखी श  
कि ॥ ९॥ अने गरजनें विशेरहेलो एहवो ॥ १०॥ एक ॥ ११॥  
अंगवीरजनांमा पूत्र जे तेणे १२॥ राखी ए कारण मटि

लोकने विशेष पण पुरुषज प्रधानछे. आ वे गाथानो जे  
संबंध जाणवो ॥१८॥

महिलाण मुग्रहयाण वि॥१॥ मद्राउं इह समस्तघरसारो॥  
रापुरिमोहिं निमज्जई ८॥ जणे वि१ पुरिसो १२ नहिं ११ नधि ११

अर्थ. ॥१॥ आ लोकने विशेष पण ॥२॥ अतिशें घणि  
हवि ॥३॥ पण ॥४॥ स्त्रीयो तेमनि ॥५॥ मध्येथो ए  
तेमने देखते ॥६॥ समस्त घरनु सार एटले सर्व द्रव्य  
समूह ॥७॥ राजाना पुरुषोयें एटलें राजाना सेवको ए  
लेइ जई एछी ए एटले अपूत्रीयानु धन राजा लेछे  
लोकने विशेष ॥१०॥ पण ॥११॥ जे घरने विशेष एटलें  
हने घरा ॥१२॥ पुरुष ॥१३॥ नथि तेहना घरनु समस्त  
राजा लेइ जायछे. ए कारण माटे पुरुषनुं ज प्रधान पण  
तेमज धर्मने विशेष पुरुषनुं ज अग्रेसर पणुछे. ए चाव ॥१४॥  
॥ आत्म साखे धर्म करयो ते कहेछे ॥

किं इह भवतु माणाहिं ॥ वर मणमस्त्रियं मुकयं

॥ इह भवतु माणाहिं ॥ मत्रचंद्रो यद्विदंता ॥ २० ॥

अर्थ. ॥१॥ हे आत्मन् बीजा लोकोने घणुं जणावें  
रिने एटले आज में तप करयोछे ए प्रकारे बीजा लं  
नि आगत कहेवे करिने ॥२॥ स्युं होय आपितु कांइ फल

थाय ए कारण माटे॥३॥हे आत्मन् पोतानि साखे  
 ॥जे सुकृत करयुं ते॥५॥श्रेष्ठे एटले रुडुंछे॥६॥आ  
 रथने विशे॥७॥अरत चक्रवर्तिनुं॥८॥ अने वलि॥९॥  
 सन्न चंद्र राजरूपिनु॥१०॥दृष्टांत जाणवुं एटले जेंम  
 रत राजाए तथा प्रसन्न चंद्र राजरूपिये पोतानि सा  
 आत्म धरम प्रगट करिने मोक्ष पांम्या तेंम बीजा  
 व्य प्राणिओए पण लोक संज्ञा मुकिने पोतानि साखे  
 आत्म धरम प्रगट करवाने विशे उद्यम करवो केमके  
 आत्मधरम प्रगट थया विना सर्व व्यर्थछे. ए जाव॥२०

वेसो विअप्पमाणो॥असंजमपहेसु वडमाणस्स॥

किं परिवत्तियवेसं॥विसंनं॥मारइ॥खज्जंतं॥२१॥

अर्थ॥१॥असंजममारगने विशे एटलेछकाय जीवना  
 प्रारंभादिकने विशे॥२॥वर्ततो एहवो जें साधु तेहनो  
 ॥३॥वेप जेते॥४॥ पण एटले रजोहरणादि रूपलिंग  
 नेते पण॥५॥अप्रमाणछे एटले गुणविना एकला वेपे  
 करिने आत्मानि शुद्धि न थाय; इहां दृष्टांत कहेछे॥६॥  
 फेरव्योछे वेप ते जेणे एटले एक वेप मूकिने बीजो वेप  
 नेणे ग्रहण करयोछे एहवा पुरुष प्रते॥७॥खावामांडेलुं  
 हवुं॥८॥ विप एटले काल कुटादिक जेहेर॥९॥ स्युं

॥१०॥त ॥११॥मारे, अपितु मारेज ते प्रकारे मलि  
चित्तरूपविषे असंजमनेविशे वर्ततो जे पुरुष तेहने  
रेछे एटले च्यार गतिमां जमावेछे ॥११॥

तारे इहां कोड कहेशे जे एक जावनि शुद्धिज  
करवीवेपे करिने शुं कामछे तेहने आगलि  
गाथाए करि गुरु उत्तर कहेछे.

धर्म' रक्ताड' वेमो' ॥ संकट' वेमण' दिखिखड' मि' अहं'

॥ उमगेण' पडंनं' रक्ताड' ॥ राया' बणपड' ॥ १२

अर्थ ॥१॥ वेप जेते एटले ज्ञानादिक गुणे करिने स  
त वेप जेते ॥२॥ धर्मप्रते एटले चारित्ररूप धर्मप्रते ॥  
रक्षाकरेछे ॥३॥ अने वेपे करिने ॥४॥ गंका पामेछे एट  
पाप करतां लज्या पामेछे ॥५॥ हुं ॥ ॥६॥ दिक्षितछुं ।  
ले मुनिना वेपनो धरनारछुं ए कारण माटे मने  
करवुं न घटे एम विचारेछे ॥७॥ आउपर द्रष्टांत, ॥  
॥८॥ उन्मारगने विज्ञे ॥९॥ पडतो एहयो जे ॥१०॥  
देस एटले देसने विज्ञे रहेलो एहयो लोकनो स  
ने प्रते ॥११॥ गजा ॥१२॥ रक्षा करेछे एटले निवारण का  
नेन उनमारगमां पडतो एहयो जे साधु तेहने वेप वा  
एटले कोड बग्न कर्मना उदये करिने ज्ञानादिक गु

इत साधुनुं चित्त असंजनादिकने विशेष प्रवर्तन क-  
 .तो तेवा साधुने स्थीर करवानुं निमित्त वेश थाय  
 एटले रजोहरण मुखवस्त्रीकारुप वेश देखीने चित्त  
 णे आवेछे. ए नाटे गुण सहीत पुरुशानो वेश गु-  
 णरीछे अने गुण रहीत पुरुशानो वेश विटंबना रूप  
 ए भाव ॥२२॥

प्राज्ञापदः अथा ॥ नहद्विर्द्विः अपलाखिखडः धम्मो ॥

प्राज्ञकरेद्विः तं तह ॥ नह ॥ अपनुहवहं रहेद्विः ॥ २२ ॥

त्ये ॥१॥ आत्मा जे तो ॥२॥ यथास्थित एटले आ आ-  
 शुभ परिणाम वाजोछे अथवा अशुभ परिणाम वा-  
 छे ए प्रकारे ॥३॥ आत्मा प्रते ॥४॥ जाणोछे एटले आ  
 हरो आत्मा शुभछे वा अधवा अशुभछे ए प्रकारे पो  
 ना आत्मा प्रते पोते जाणोछे केनजे बीजाना चित्तने  
 जोजांणि सके नाहे ए कारण नाटे ॥५॥ जे कारण नाटे  
 आत्मा तादिक एटले पोतानि नाखे ॥६॥ जे धर्मछे ए  
 ते जे धर्म करवो ते प्रमाखे ॥७॥ ते कारण नाटे हे  
 त्मन् ॥८॥ ते एटले सत् अनुष्ठानादिक प्रते ॥९॥ ते  
 कारो ॥१०॥ करत्या ॥११॥ जे प्रकारे ॥१२॥ आत्माने सुखनु  
 रनार एहवुं ॥१३॥ थाय एटले जे क्रिया अनुष्ठान आ

त्माने परभवने विशेसुखकारि थाय;तेज अनुष्ठान ५  
तुं करय. ए भाव ॥२३॥

ज्ञं१ जं१ समयं१ जीवो१ ॥ आवसद् ८ जेण१ जेण१ भावेण१ ॥ सो१  
तम्मि१ ० तम्मि१ १ समये१ २ ॥ सुहासुहं१ १ बंधए१ १ कम्मं१ ५ ॥ २४  
अर्थ ॥ १ ॥ जीव एटले आ आत्मा जे ते ॥ २ ॥ जे ३ जे ॥  
समयने विशे ॥ ५ ॥ जे ॥ ६ ॥ जे ॥ ७ ॥ भावे करिने एटले जे  
वा जेहवा प्रणामे करिने ॥ ८ ॥ वत्तेछे एटले आसक्त थ  
छे ॥ ९ ॥ ते आत्मा ॥ १० ॥ ते ॥ ११ ॥ ते ॥ १२ ॥ सम  
विशे तद्दुप पणे प्रणमतो सतो ॥ १३ ॥ शुचाशुभ १  
वुं ॥ १४ ॥ कर्म प्रते ॥ १५ ॥ बांधेछे एटले शुच परिणा  
विशे वरततो सतो, शुच कर्म प्रते बांधेछे अने अशु  
परिणामने विशे वरततो सतो अशुभ कर्म प्रते बांधे  
ए भाव ॥ २४ ॥

धम्मो१ मण१ जंतो१ ॥ तो१ नवि१ ० सीउजजायाविहामिउ१ ॥

संनछर१ मणसिउ० ॥ बाहुवलि१ तह१ किलिस्संतो१ ॥ २५

अर्थ ॥ १ ॥ जो, मदे करिने एटले अहंकारे करिने ॥  
धर्म एटले श्रुत चारित्र रूप धर्म ॥ ३ ॥ होत ॥ ४ ॥ तो ॥  
शीत अने उष्ण एटले टाढा हुंन वायरायें करिने  
शेषे करिने हणायो एटले पराजव पांम्यो एटले श

ए परीसह सहन करतो एहवो॥६॥ एक वरप सुधि  
 आन्नाहार रहित एटले वरप शुधि उपवास सहित  
 वो॥८॥ बाहूवली नामामुनि “नाहांना चाईयोनेकेम  
 न करुं” ए प्रकारे रहेजो सतो॥९॥ ते प्रकारे॥१०॥  
 हेज ॥११॥ क्लेश पांमत एटले पिड्या प्रतेपांमत,  
 अहंकारे करिने धर्म होततो वरप शुधि बाहूवलीजी  
 वल ज्ञान पांम्या विना रहत नहि अने जे वखत अ  
 कार मुंकयो तेज वखत केवल ज्ञान पांम्या; ए कार  
 माटे सम्यक् ज्ञान पूर्वक अहंकारादिकनु छोडवुं ते  
 धर्मछे. ए उपदेश ॥२५॥

नियगमइविगापियाचिनिण्ण ॥ स्वच्छंदबुद्धिरइण्ण ३

॥ कत्तो अरत्तहिं ॥ कीइ ‘गुरुअणुत्तरसेणं’ ॥२६॥

अर्थ ॥ १ ॥ गुरुना उपदेशने अजोग्य एटले गुरुना उ  
 देशने न ग्रहण करतो एटले भारे करमी जे जीव  
 णे ॥२॥ पोतानि मतिं करिने एटले पोतानि बु  
 द्धे करिने स्युल विचारवुं तथा सुक्ष्म विचारवुं ए  
 टले पोतानि मति कल्पनाए नाहनो मोहटो विचार  
 करवे करिने ॥३॥ स्वच्छंद बुद्धिए आचरण करवे क  
 रने ॥४॥ परलोकने विशे हित जे ते एटले परभवने



विशे पोतानुं . हितकारि अनुष्ठान ॥५॥ कथां थाक्कि ए  
 टले शी रिते ॥६॥ करि शक्किए एटले पोतानि इच्छ  
 प्रमाणे वर्तता एहवा जे पुरुप ते पर लोकना हितः  
 ते न पांमे. ए जाव ॥२६॥

यदो निरोव्यासी ॥ अविणीउं गळिउं निरुवणामो ॥  
 साहुजनस्स गरहिउं ॥ जणे विवयणिउं नयं ॥ लहइ ॥ २७  
 अर्थ. ॥१॥ स्तब्ध एटले न नमतो एहवो एटले .  
 रेहेतो एहवो ॥२॥ निरुपकारि एटले करेला ७५॥  
 प्रते न जाणतो एहवो ॥३॥ अविनीत एटले गुरुने  
 सन बेसण न आपतो एहवो ॥४॥ अहंकारि एटले  
 ताना गुणे करिनें उछांछलो एहवो ॥५॥ गुरु महाराज  
 पण न नमस्कार करतो एहवो जे पुरुप ॥६॥ सा  
 जननि मध्ये ॥७॥ गरहित एटले निंदित थायछे ए  
 साधुजन तेनि ग्रहा करेछे एटले पोतानि टोलिमां  
 काहाडि मुंकेछे ॥८॥ लोकनि मध्ये ॥९॥ पण ॥१०  
 निंदाप्रते एटले आ दुष्ट आचारवालो पुरुपछे ए प्र  
 रे हीलनाप्रते ॥११॥ पांमे ए कारण माटे विनीत जे ते  
 वखांणवा जोग्य छे, माटे विनीतपणु अंगिकार कर  
 ए उपदेश ॥२७॥

द्वेषेण विष्णुस्युरिसा ॥ सणकुमारुव केदु वुञ्जति ॥  
 देहे स्वणपरिहाणी ॥ न गकिर ॥ देवेहि ॥ सेकहियं ॥ २८ ॥

अर्थ ॥ १ ॥ केटला एक ॥ २ ॥ सत्पुरुष एटले सुलभवोधि  
 रूप ॥ ३ ॥ थोडास्या निमित्तें करिने ॥ ४ ॥ पण ॥ ५ ॥  
 नत कुमार चक्रवर्तिनि पठम ॥ ६ ॥ बोधप्रते पांमेछे ॥ ७ ॥  
 कारण माटे ॥ ८ ॥ देहने विशे ॥ ९ ॥ क्षण मात्रमां  
 टले थोडा कालें करिने परिहाणी एटले रूपनि हां  
 एटले नाश थायछे ए प्रकारे ॥ १० ॥ ते सनत कुमार  
 ॥ ११ ॥ देवता जे तेमणे ॥ १२ ॥ कहयुं ॥ १३ ॥ एम  
 जालिएछी एतेज तेने बोधनुकारण थयुं ए नाव ॥ २८ ॥

जइसा स्वसत्तमसुर ॥ विमाणवासी विष्णुपरिवडंति ॥  
 सुरा ॥ चित्तिज्जंतं वेसं ॥ संचारे सात्तयं ॥ कयरं ॥ २९ ॥

अर्थ ॥ १ ॥ जो ॥ २ ॥ प्रथम ॥ ३ ॥ सात लवनुछे आउपु ते  
 मनु एहवा जे देव तेमना विमानना रहेनारा एटले  
 अनुत्तर विमानना रहेनारा एहवा ॥ ४ ॥ पण ॥ ५ ॥ देव  
 ॥ ६ ॥ समस्त प्रकारे पडेछे एटले आउपानो क्षय थ  
 सते ते देवलोक थकि चवेछे एटले देवलोकनां  
 एण आउपां पुरां थायछे ॥ ७ ॥ त्यारें ॥ ८ ॥ विचारवा  
 डियुं एहवुं ॥ ९ ॥ संसारने विशे ॥ १० ॥ वाकि रहेलुं

वीजुं ॥११॥ स्युं वस्तु एटले कियुं पदार्थ ॥१२॥  
स्वतुंछे अपितु कांड पण शास्वतुं नथी; ए कारण  
धर्म एज नित्यछे ए ज्ञावा ॥२१॥

कह<sup>३</sup> तं<sup>१</sup> भद्रइ<sup>२</sup> सुखकं<sup>३</sup> ॥ सुचिरेण<sup>४</sup> वि<sup>५</sup> जस्स<sup>६</sup> दुखकं<sup>७</sup> मुल्लिउ  
इ<sup>८</sup> ॥ जं<sup>९</sup> च<sup>१०</sup> मरणावसाने<sup>११</sup> ॥ भवसंसारणुबंधं<sup>१२</sup> च<sup>१३</sup> ॥

अर्थ ॥१॥ ते ॥२॥ सुख ॥३॥ शी रिते ॥४॥ व  
॥५॥ बहुकाले करिने एटले पल्योपम सागरोपम  
सुख जोगविने ॥६॥ पण ॥७॥ जे सुखने अंते  
दुःख ॥८॥ ग्रहण करिइं एटले पांमिये एटले जे  
जोगव्या पछि दुख उपजे ते सुख दुखरूपज  
॥९०॥ जे कारण माटे ॥११॥ बलि ॥१२॥ म  
अवस्थाने विशे एटले मरवाने अवसरे ॥१३॥ ए  
टले नारकादिकनो अवतार तेहने विशे संसार  
परिभ्रमण करवु तेहनो अनुबंध एटले संसार  
मवानु करम बंधायछे एटले जे सुखना पछवाडे  
ज्ञावासादिकनां दुख पांमिये ते कारण माटे देव  
पण शिरिते सुख कहिये ॥१४॥ निश्चे ॥३०॥

उवणममहस्सेहि<sup>१</sup> वि<sup>२</sup> ॥ ओहिजंतो<sup>३</sup> न<sup>४</sup> बुझइ<sup>५</sup> कोइ<sup>६</sup> ॥

बह<sup>७</sup> भंभदत्तराया<sup>८</sup> ॥ उदायानिवमारउ<sup>९</sup> चैव<sup>१०</sup> ॥ ३१ ॥

॥१॥ कोई पण जारे कर्म जीव ॥२॥ उपदेशना  
 ि करिने एटले हज्जारो उपदेश देवे करिने ॥३॥  
 २॥ प्रतिबोध करवा मांडयो एटले प्रतिबोधवा  
 रो सतो पण ॥५॥ न ॥६॥ प्रतिबोध पांमे एटले  
 बोध नथि पांमतो ॥७॥ जेम ॥८॥ ब्रह्मदत्त राजा  
 ते ब्रह्मदत्त चक्रवर्ति अने वलि ॥९॥ उदाइ राजानो  
 नार ते वेजण हज्जारो उपदेशे करिने पण प्रतिबो  
 ि पांम्या तेंम बीजाय पण प्रतिबोध नयी पांमता  
 ॥ निश्चे ए जाव ॥३१॥

कन्नचंचलाए ॥ अपरिचत्ताए ॥ रायलछिए ॥

च ॥ चकम्भकालिमल ॥ भरियभरेंतोपडंति ॥ अहे ॥ ३२ ॥

र्य ॥ १ ॥ हाथीना कांननि पठम चंचल एटले चपल  
 वि ॥ २ ॥ अने वली न त्याग करेलि एहवि ॥ ३ ॥ राज्य  
 मी तेणियें करिने ॥ ४ ॥ पोताना कर्मरूप कलिमल  
 ले मलिनपणुं तेहनो नस्योछे एटले पूरण करयो  
 नर एटले जारे ते जेमणे एटले पोताना कर्मना  
 रे करिने निचि गतिमा जवानुंछे शील ते जेमनुं ए  
 ि ॥ ५ ॥ जीव एटले प्राणि ॥ ६ ॥ अयोगतिने विशे  
 ले नरक भूमिने विशे ॥ ७ ॥ पडेछे एटले जायछे

ए कारण माटे राज्य लक्ष्मीए करिने स्युं. अपितुं  
इ सार नथि ए भावा॥३२॥

॥ गुरु माहाराज शिष्यप्रतें कहेछे ॥

वृत्तण शिव जीवाणें ॥ सुदुकराईं ॥ तें ॥ पावचरियाईं ॥

भयवं ॥ ना ॥ सा ॥ सा ॥ सा ॥ सा ॥ पद्याएसो ॥ हु ॥ इणमो ॥ श्ते ॥ ॥ ॥ ॥

अर्थ ॥१॥ हे शिष्य जीवोनां एटले प्राणीयोनां ॥

अतिशे ॥३॥ पापनां आचरण एटले माठां आच

॥४॥ केहवाने ॥५॥ पण ॥६॥ अतिशे दुष्करछे ए

मुखे करिने पण कहां न जाय. हवे इहां द्रष्टांत

छे ॥७॥ हे जगवत् ॥८॥ जे स्त्रि में धारण करिछे ए

परणीछे ॥९॥ ते स्त्रि माहरि वेहेनछे? तारें जग

कह्युं जे ॥१०॥ ते स्त्रि ॥११॥ ते ताहरि वेहेनछे ॥१२॥

निश्चे ॥१३॥ हे शिष्य ताहरि आगला ॥१४॥ आ ॥१५॥

द्रष्टांत कह्युं एटले कर्मनी विचित्रता उपर ताहार

द्रष्टांत कही देखाड्युं एज रीते सर्व प्राणीश्रोनां कर्म

विचित्रगति जाणवी के वहेन हती ते स्त्री थइ एक

विचित्रपणुं छे. एम सर्व माता पीता वहेन स्त्रीरुपे ह

छे ते फरी माता होयछे ते स्त्रीरुपे थायछे एवी रीते प्र

करीने उलटा पालटी संसारमां वरते छे. ए

नाटे पापनां आचरण करवां नहि.ए उपदेशं॥३३॥

पाडिवाडिजऊण॥दोसे॥नियए॥सम्मं॥च॥पायवाडिआ

ए॥तो॥किर॥मिगावइए॥उपन्नं॥केवलं॥नाणं॥३४॥

अर्थ ॥१॥पोताना॥२॥दोप प्रतें एटले पोताना अप

गध प्रतें॥३॥ सम्यक् प्रकारे एटले मन वचन काया

ते शुद्धि करिने ॥४॥ अंगीकार करिने अटले माह

जेज आ दोपछे अ प्रकारे ग्रहण करिने॥५॥निश्चे॥६॥

गनें विशे पडति अटले गुरूना चरण कमल सेवति

प्रेहवि ॥७॥ मृगावति नामा साध्वी तेहने ॥८॥ केव

त्र अटले संपूर्ण अहेवुं ॥९॥ ज्ञानं ॥१०॥ उत्पन्न थ

अटले आवरण रहित पांचमुं ज्ञानं प्रगट्युं ॥११॥

त्व्य ॥१२॥ ते कारण नाटे विनय अजे सर्व गुणनो

नवासछे ॥३४॥

सक्ता॥दुत्तुंजे॥सरागधर्ममि॥कोइ॥अकचार्ड॥

पुण॥धरिद्वन॥धणिअ॥दुवचणुनालिए॥स॥मुणी॥३५॥

अर्थ॥१॥ सराग धर्मने विशे अटले कपाय सहित

रित्रने विशे, केनजे दशमा गुणठाणा सुधि कपा

नो संभवछे, अ कारण नाटे॥२॥ कोइ पण साधु

३ ॥ सर्वथा कपाए रहित अहेवो ॥ ४ ॥ कहेवा

ने ॥ ५ ॥ शिरिते ॥ ६ ॥ समर्थ थईए श्रेटले स  
 घर्मने विशे सर्व प्रकारे कपायनो अभाव श्रेटले क  
 ये करिने रहितपणुं कयांथी होय ॥७॥ वलि ॥८॥  
 साधु ॥९॥ अतिशे करिने ॥ १० ॥ माठा १ .  
 लाकडाना समुहे करिने देदिप्यमान करया  
 जे कपाय ते प्रते ॥११॥ धरि राखे श्रेटले  
 आवेला एहवाय पण कपाय प्रते प्रगट करे नदि  
 टले निष्फल करे ॥१२॥ ते ॥१३॥ मुनि कहीए  
 माहापुरुष कहीए. सर्वथा प्रकारे कपायनो त्या  
 बहु दुर्लभछे ए कारण माटे. ए जावा ॥३५॥

कडुअकसायतरुणं ॥ पुष्पं २ च ३ फलं ४ च ५ क्षोवि ६ विरसाई ॥  
 पुष्पेण ७ जाइ १० जविड १॥ फलेण ११ पावं १२ समायरई १३ ॥३५॥

अर्थ ॥ १ ॥ कडुआ, केमजे संजमना सुखनो  
 करनारछे; ए कारण माटे एहवा जे कपायरूप  
 तेमनु ॥२॥ फुल ॥३॥ वलि ॥ ४॥ फल ॥५॥ निश्चे  
 वे पण एटले फुल तथा फल एछे पण ॥७॥ रस  
 तछे एटले कपायरूप वृक्षनां फुल तथा फल  
 र जाणवां ॥८॥ फुल रूप कारणे करिने ॥ ९ ॥  
 प्यो सतो ॥ १० ॥ विच्यारेछे एटले बीजा पुरुषो

वादिकना उपाय प्रते चिंतवेछे एटलेजे मने करिने परनु  
 अनर्थ चिंतववुं तेज कपायनु फुल जाणवुं ॥११॥ फ  
 करिने ॥१२॥ पाप प्रते ॥१३॥ आचरेछे एटलेजे परने  
 ढना तर्जनादिक एटले मारवुं कुटवुं तेज कपायनु  
 ल जाणवुं. ए कारण माटे कपायरुप वृक्षनु फुल प  
 कडवुंछे अने फल पण कडवुंछे एटले फुले करिने  
 ए अने फले करिने पण नरकनि गति थाय. ए का  
 ए माटे कपाय त्यागवा ज्योग्यछे ए उपदेश ॥३६॥

संते १ वि० को १ वि० उ० भई ५ ॥ को ५ वि० असंते ५ वि०  
 अहिं सइ ११ भोए १० ॥ चयइ १४ परपञ्चएण १२  
 वि १३ ॥ पभवो १५ दडुण १० जह १५ जंबू १५ ॥ ॥३७॥

अर्थ ॥१॥ कोइ ॥२॥ पण महापुरुष ॥३॥ सता एह  
 ॥४॥ पण एटले पोताने मिलेला एहवा पण भोग  
 ते ॥५॥ त्याग करेछे एटले द्रव्य जाव वे प्रकारे त  
 छे ॥६॥ कोइ ॥७॥ पण नीच कर्मी जीव ॥८॥ अस  
 एहवा ॥९॥ पण ॥१०॥ जोग एटले संसारिक  
 ख ते प्रते ॥११॥ अनिलाप करेछे एटले वांछा  
 रेछे ॥१२॥ कोइक जीव परना निमित्ते करिने एटले  
 जा जीवनो वैराग्य देपनि ॥१३॥ पण ॥१४॥ जोग प्र



तें त्याग करेछे एटले भोग प्रतें त्याग करतो ।  
 बीजो पुरुष देखीने पोते प्रतिबोध पांमेछे.इहां १  
 कहेछे ॥१५॥ जेम ॥१६॥ जंबू कुमार प्रते ॥१७  
 खीने ॥१८॥ पांचसे चोरे करिने सहित एहवो प्र  
 नामे चोर प्रतिबोध पांम्यो ॥३७॥

दीसंति १परमघोरा १वि १॥पवरधम्मपभावपाडिवुद्धा १॥

सह १सो १चिलाइपुत्तो १॥पाडिवुद्धो १सुसुमाणाए १ ॥३

अर्थ ॥१॥ अतिशय रौद्र ध्याने करिने सहित  
 वा ॥२॥ पण घणा प्रांणि ॥३॥ विशेष एहवो जे  
 नो प्रभाव तेणे करिने प्रतिबोध पांम्या एटले ।  
 त् दरशनना माहात्म्यथकि नाश पांमीछे मि  
 रूप निद्रा ते जेमनि, एहवा थया सता ॥४॥ तें  
 छीए ॥५॥ जेम ॥६॥ ते ॥७॥ चिलाति पुत्रनामा  
 कर्मनो करनारो एटले घनावाह सेठनी दासीनी  
 नारो एहवो सतो ॥८॥ सुसुमानामा कन्याए क  
 ॥९॥ प्रतिबोध पांम्यो एटले मुनिने देखवे कर्  
 तिबोधपांम्यो.तेहनो विस्तार कथाथकिजांणवो ॥

पुष्पि १फालिए १तह १पिठघरंमि १॥तद्वा १छुहा १समणुवडा १

टंटेण १तहा १विसडा १॥विसडा ११ नह ११सफलाजाया ११

अर्थ ॥१॥ पुष्पे करिने सहित एहवुं ॥२॥ अने फले क  
 सहित एटले धनधान्यादिके करिने सहित एहवुं  
 ॥ अने वली प्रसिद्ध एहवुं ॥४॥ पितानुघरसते एटले  
 पुदेवनु घरसते पण ॥५॥ निरंतर ॥६॥ त्रपा ॥७॥  
 ॥८॥ ते प्रकारे करिने ॥९॥ ढंढण कुमार माहा  
 प जे तेणे ॥१०॥ विशेषे करिने सहन करी एटले  
 ज्ञान परीसह सहन करवे करिने त्रपा क्षुधा सह  
 करि ॥११॥ जे प्रकारे करिने ॥१२॥ सफल थइ ए  
 केवल ज्ञान उत्पन्न थवानु कारण थइ ए प्रकारे  
 ॥३॥ त्रपा क्षुधा अनुभवि. एम बीजाओ ए पण सम  
 वे करिने परिसह सहन करवा. ए उपदेश ॥३९॥  
 गहारेसु<sup>१</sup> सुहेसु<sup>२</sup> अ<sup>३</sup> ॥ रम्मावसहेसु<sup>४</sup> काणणसु<sup>५</sup> च<sup>६</sup> ॥  
 गहुण<sup>१</sup> ना<sup>२</sup> हिगारो<sup>३</sup> ॥ अहिगारो<sup>४</sup> धम्मकड्ढेसु<sup>५</sup> ॥ ४० ॥  
 अर्थ ॥१॥ साधू मुनिराजनो ॥२॥ शुभ्र एटले अतिशे  
 करिने सहित एहवा ॥३॥ आहारने विशे एटले  
 शन पांन खादिम स्वादिम ए चार प्रकारना आहार  
 विशे ॥४॥ अने वलि ॥५॥ मनोहर वस्तिने विशे एटले  
 शश्रयने विशे ॥६॥ अने वलि ॥७॥ वनने विशे एटले  
 ना प्रकारना उद्यानने विशे ॥८॥ अधिकार ॥९॥

न होय एटले ए पूर्वे कहेलां स्थानकोने विशे साधु  
 अधिकार न होय एटले आसक्ती न होय, ममत  
 हितछे ए कारण माटे. त्यारें साधुनो अधिकार स  
 विशे होय ते कहेछे ॥१०॥ धर्मकार्यने विशे एटले  
 त्म स्वरूपनुं चिंतवन करवुं तेहने विशे ॥११॥ साधु  
 निराजनो अधिकारछे. इंद्रियोने सुखकारि एहवां व  
 पदारथने विशे आसक्त न थाय एहवा साधु होय ॥१२॥  
 साहू<sup>१</sup>कंतारमहाभएसु<sup>१</sup> ॥ अवि<sup>२</sup>जणवए<sup>५</sup>वि<sup>५</sup>मुइयंमि<sup>५</sup> ॥

अवि<sup>३</sup>ते<sup>५</sup>शरीरपीडं<sup>५</sup> ॥ सहंति<sup>१</sup>० न<sup>१</sup>२ लहंति<sup>१</sup>५ अ<sup>१</sup>१ विरुद्धं<sup>१</sup> ॥

अर्थ ॥१॥ मोहोटी अटविने विशे मोहोटा भयसते  
 ले राजादिकनो जयसते ॥२॥ पण ॥३॥ साधु ए  
 मोहटा मुनिराज ॥४॥ रिद्धियें करिने निश्चल ए  
 जय रहित एहवा ॥५॥ जनपद एटले देश तेहने  
 ॥६॥ जेंम वरतता ॥७॥ निश्चे ॥८॥ ते साधु  
 शरीरनी पीडाप्रतें ॥१०॥ सहन करेछे एटले खमेछे ॥  
 वलि पण ॥१२॥ विरुद्ध एटले वेहेतालिस दोष  
 आहार पाणिप्रतें ॥१३॥ न ॥१४॥ ग्रहण करे; क  
 ग्रहण करचुं होय तोपण वावरे नहि: जेंम भय रा  
 देशने विशे निर्जयपणे वरतता होय तेहवि रिते मो

द्विने विशेष तथा मोहटा भयोने विशेष जय रहित  
 हो वर्तता जे मुनिराज ते कोइ उपसर्ग आवेसते  
 श शरिरनि पिडाप्रतें समतायें करिने सहन करेछे  
 अशुद्ध आहार पांणि वस्त्र पात्रादिक लेता नयि.  
 वात केहवे करिने मुनिराजने आहारादिकने वि  
 प्रतिबंध न होय एन जणाव्युं ॥११॥

तेहिं पैलिया विहुं ॥ खंदगतीला नचेव परिहुविया •

॥ विद्वद्वरनथलाय ॥ खंदि ॥ ३३ ॥ पंडिया ॥ हुंति ॥ ॥१२॥

अर्थ ॥ १ ॥ खंधक नाने आचारजना पांचसे बेला ॥ २ ॥  
 खक नाने दुष्ट पुरुष जे तेणे वांछियें करिने एटले  
 पिड्यां नांखिने ॥ ३ ॥ पील्या एटले पिड्याप्रते पा  
 ड्या सत्ता ॥ ४ ॥ पण ॥ ५ ॥ निश्रे ॥ ६ ॥ नहिज ॥ ७ ॥  
 पण पांन्या एटले क्रोधने वडा थया नहि, केनजे ॥ ८ ॥  
 प्योछेपरनार्य एटले सार तेजेनणे एटले तत्व ज्ञान  
 एहवा ॥ ९ ॥ जे ॥ १० ॥ पंडित एटले पापयि डर  
 रा ॥ ११ ॥ होय ॥ १२ ॥ ते ज्ञानि पुरुषो पीड्या प्र  
 सहन करेछे एटले पोताना प्राणतो नास थये तते  
 वीतरागनो कहेछो द्रव्य भाव वे प्रकारनो जे  
 गे ते पाकि चलायनात यत्ता नयी ए भाव ॥ १२ ॥

जिणवयणशुद्धसकन्ना<sup>१</sup>॥अवगयसंसारघोरपेयाला<sup>२</sup>॥

वालाण<sup>३</sup>स्वमंति<sup>४</sup>नइ<sup>५</sup>॥नइन्ति<sup>६</sup>किं<sup>७</sup>इत्थ<sup>८</sup>अच्छेरं<sup>९</sup>॥४३

अर्थ ॥१॥जो॥२॥जिनराजनुं वचन सांजलवें कां  
कांन सहित केमजे लोक रुढिये करिनेतोकांन सां  
सर्व होयछे,ते परमारथे कांन सहित केहेवाय नहि  
कारणमाटे एहवा॥३॥अने जाण्योछे नयंकर संसार  
विचार ते जेमणे एटले आ संसार असारछे ए प्र  
विचारवंत एहवा ॥४॥ जति एटले साधु ॥५॥ व  
एटले अज्ञानि मिथ्या द्रष्टि तेमना सवंधि माठां  
त एटले माठा अपराध प्रते ॥६॥ खंधक आचार  
शिष्यनि पठम समजावे सहन करेछे॥७॥एहमां ।  
स्युं॥९॥आश्रयछेएटलेसाधुमुनिराजने दुष्ट लोकं  
करेला अपराध तेहनुं सहन करवुं ते घटीतछे॥८॥

न<sup>१</sup>कुलं<sup>२</sup>इत्थ<sup>३</sup>पहाणं<sup>४</sup>॥हरिणसिखलस्स<sup>५</sup>किं<sup>६</sup>कुलं<sup>७</sup>आसि<sup>८</sup>

॥आकंपिया<sup>९</sup>तवेणं<sup>१०</sup>॥सुरा<sup>११</sup>वि<sup>१२</sup>जं<sup>१३</sup>पज्जुवासंति<sup>१४</sup>॥४४

अर्थ॥१॥इहां धर्म विचारने विशे॥२॥कुल उग्रजे

दिका॥३॥ नथी ॥४॥ प्रधान एटले मुख्य नथि ए

उग्रजोगादिक कुल विना धर्म न होय. ए प्रकारे

अथ नथि. हवे द्रष्टांत कहेछे॥५॥ हरिकेसिखल

॥४४॥

मि महापुरुष जे तेनु॥६॥स्युं ॥७॥कुल॥८॥हतुं एटले  
 वंडालकुलनेविशे अवतरेलाछे,ए कारण माटे उत्तम  
 कुल नथि तोयें पण॥९॥तपे करिने ॥१०॥ वश करयुं  
 छे हृदय ते जेमनु एहवा॥११॥ देवता जे ते ॥१२॥पण  
 १३॥जे हरिकेसि नामे साधु प्रते ॥१४॥ पर्युपासना  
 करेछे एटले सेवेछे तारे मनुष्यनुं स्युं केहवुं:ए कारण  
 माटे धर्म विचारने विशे कुलनु प्रधानपणु नथि॥१४॥

देवो नैरदुःखं चित्तं च ॥ कीडं पर्यगुं चित्तं भाणुं चोवेसो ॥ च  
 चित्तं च विस्तो ॥ १० ॥ सुहभागी १ दुःखभागी १ २ च १ २ ॥ १४ ॥

अर्थ ॥१॥ आ जीव देवता थयो॥२॥ ए प्रकारे॥३॥  
 लि॥४॥ नारकि थयो॥५॥ कीडो थयो एटले कृमिया  
 क थयो॥६॥पतंगियो थयो॥७॥ बलि ए प्रकारे॥८॥  
 नुष्य रूपछे वेप ते जेहनो एहवो थयो एटलेमनुष्य  
 यो ॥९॥ रूपवालो थयो एटले सुंदर शरीरवालो  
 यो ॥१०॥ रूप रहित थयो ॥११॥ सुखनो भोगी थ  
 यो एटले सुखी थयो ॥१२॥ बलि॥१३॥दुखनोभोगी  
 एटले दुखि थयो:एहवि रिते संसारमां जीव नाना प्र  
 शरना रूप करतो सतो परिभ्रमण करेछे ॥१४॥

सिद्धं चित्तं च धमगुं चित्तं च ॥ एतं च गगुं चित्तं एतं च विविदि ॥ १० ॥

मी० दासो १ पुन्नो १ खल १ शक्ति १ अधणो १ धणवइत्ति १

अर्थ ॥ १ ॥ आ जीवा ॥ २ ॥ राजा थयो ॥ ३ ॥ ए प्रक...  
 वलि ॥ ५ ॥ निखारि थयो ॥ ६ ॥ वलि ॥ ७ ॥ चंडाल थयो  
 आ जीवा ॥ ९ ॥ चार वेदनो जांण त्रां हण थयो ॥ १ ॥ १० ॥  
 थयो एटले नायक थयो ॥ १ ॥ ११ ॥ दास थयो ॥ १ ॥ १२ ॥  
 थयो ॥ १ ॥ १३ ॥ खल एटले दुरजन थयो ॥ १ ॥ १४ ॥ ए  
 ॥ १ ॥ १५ ॥ धन रहित थयो ॥ १ ॥ १६ ॥ अने वली धन . ति १ ॥  
 ए प्रकारे जीव संसारने विशेष परिभ्रमण करेछे

न ० वि ० इ ० थ ० को ० वि ० नियमो ० ॥ सकम्मा विणि विट्ट सरि सक्क  
 चिद्धो ० ॥ अबुन्न रुक्खे सो ॥ न डुव ० ० परियत्त ए ० ० नीवो ० ॥ १ ॥ १२ ॥

अर्थ ॥ १ ॥ इहां एटले जिनशासनने विशेष ॥ २ ॥ कोइ  
 पण ॥ १ ॥ १३ ॥ नियम एटले निश्चया ॥ १ ॥ १४ ॥ नथिज एटले पु  
 रिने पुरुपज थाय अने पशु मरिने पशुहिज थाय,  
 निश्चय नथी ते न ० ॥ १ ॥ १५ ॥ पोताना ० ॥  
 उदय प्रमाणे ० ॥ १ ॥ १६ ॥ एटले जेवो ० ॥  
 करमनो उदय ० ॥ १ ॥ १७ ॥ ० ॥ १८ ॥ ० ॥ १९ ॥ ० ॥ २० ॥

जेहने एहवो जे ॥ १० ॥ नट तेहनि पठम ॥ ११ ॥ परिभ्र  
करेछे. ते माटे आ संसारनु स्वरूप विचारिने सर्व  
उपर समजाव राखवो अने पोताना स्वजावमां रे  
एज विवेकि पुरुपने घटितछे ए भाव ॥ ४७ ॥

कोडिसएहिं<sup>१</sup> धणसंचयस्स<sup>२</sup> ॥ गुणसुभारियाए<sup>३</sup> कन्नाए<sup>४</sup> ॥ न<sup>५</sup>

वि<sup>६</sup> लुद्धो वयरारिसि<sup>७</sup> ॥ अलोभया<sup>८</sup> एस<sup>९</sup> साहूणं<sup>१०</sup> ॥ ४८ ॥

अर्थ ॥ १ ॥ धनना समूहनि ॥ २ ॥ सैकडो कोडियो  
करिने सहित एहावि ॥ ३ ॥ गुणे करिने एटले रूप  
वण्यादिके करिने अतिशय नरेलि एहावि ॥ ४ ॥

कन्या एटले अ परणेलि तेहने विशे ॥ ५ ॥ वयर

मि एटले वज्रमुनि ॥ ६ ॥ नहिज ॥ ७ ॥ लुब्ध थया

ले लोचन न पांम्या ॥ ८ ॥ गुरु शिष्य प्रते केहेछे ॥

पूर्वे कही ए प्रकारे ॥ ९ ॥ अलोचनपणुं एटले नि

चपणुं ॥ १० ॥ साधुअने करवा जोग्यछे एटले स

मुनियोयें निलोचि थवुं. ए जाव ॥

अंतेंडरपुरवल्वाहणेहिं<sup>१</sup> ॥ वरासरिघरेहिं<sup>२</sup> मूणिवस्सहा<sup>३</sup>

॥ कामेहिं<sup>४</sup> बहुविहोहिं<sup>५</sup> य<sup>६</sup> छंदिज्जंतावि<sup>७</sup> नेछंति<sup>८</sup> ॥ ४९ ॥

अर्थ ॥ १ ॥ राजानिराणिओ तेहना समुह ॥ नगर से

॥ हाथि घोडादिक तेमणे करिने ॥ २ ॥ प्रधान ए



हवा लक्ष्मीना जंडारे करिने ॥३॥ बहू प्रकारना  
 टले नाना प्रकारना ॥४॥ कामे करिने एटले शक  
 दिक विपयोश्रे करिने ॥५॥ निमंत्रण करचा सताप  
 एटले प्रार्थना करचा सतापणा ॥६॥ श्रेष्ठ मुनियो जे  
 ॥७॥ नथि इछता एटले पूर्वे कहेला अंतःपूर बल वा  
 नादिक प्रते नथि अभिलाप करता ॥८॥ निश्चे ॥ एजा

॥ परिग्रह अनर्थनु मूलछे ते कहेछे ॥

छंड भेड वसणं ॥ आयाम शकिले मभय विनागो अभ ॥

मरणं धम्म भंसो ॥ अरइ १ अथाउ १ मवाइ ॥ २ ॥

अर्थ ॥ १ छेद एटले नाक अने कांननु कातरवुं ॥ २ ॥

जेद एटले करवतादिके करिने चीरवुं वा अथवा स्वज  
 दिक निसाये टुटक पाडवि ॥ ३ ॥ अने कठ एटले आप

॥ ४ ॥ अने आचार अर्थ - ... न करव ते अर्थ

नानि मेले नारि अने किले ॥ ५ ॥

ले पीडा ॥ ६ ॥ अने

॥ ७ ॥

अर्थ

लां वानां ॥१३॥ धनयकि धायछे एटले परिग्रहछे  
अनर्थनुं मूलछे. ए कारण माटे साधुमुनिराजने स  
या प्रकारे परिग्रह त्याग करवो ए श्रेयछे ॥१०॥

दोससयमूल १ जालं २ ॥ पुद्गलिसिद्धिद्विजयं १ नइ १ वंतं ॥ अथं  
वहासे १ अणथं २ ॥ कीस १ अणथं १ ० वं १ १ चरासे १ २ ॥ ५ १ ॥

अर्थ ॥ १ ॥ जो हे साधु ॥ २ ॥ राग द्वेषादिक सैकडो दोषनुं  
गरण एहवुं ॥ ३ ॥ जाल सरखु एटले मछनि जाल सर  
नु कर्मबंधननुं कारण एहवुं ॥ ४ ॥ पूर्वना रिपियोयें एटले  
यरस्वाम्यादिक मूनित्रोये त्याग करेलुं एहवुं अने ह-  
णांना नांमधारि साधुओ कर्मना वश थकि तथा दश  
१ अछेराना प्रजावथकि हाथी घोडाने विशे तत्पर  
टले हाथी घोडाना राखनारा एहवा अने आचारज  
नांम धरावनारा अनेकेटलाएक पीला कपडा करिने  
मना सेवक थइने रहेला एहवा पाखंडि जैनाजास  
मणां आ पंचमकालमां घणा वर्ते छे तेविवेकीपुरुपोये  
१ श्रय करवा जोग्य नथि ॥ ५ ॥ वली दिक्षा ग्रहणने अ  
मरे त्याग करेलुं एहवुं ॥ ६ ॥ अने अनर्थनुमूल एहवुं ॥ ७ ॥  
अर्थ एटले धन ते प्रतो ॥ ८ ॥ धारण करेछे तो ॥ ९ ॥ स्या वा  
॥ १० ॥ निःप्रयोजन एटले फोगटा ॥ ११ ॥ तप प्रतो १ २ ॥

करेछे एटले जे 'साधु'नाम धरावेछे अने धन राखे  
 ना तप जप कष्ट क्रिया सर्व फोगट छे. ए परमार्थ.  
 बहन्धणमारणसेहणाउ १॥ काउ १ परिग्रहे १ नथि १ ॥ तं १ जइ १  
 परिग्रहु १ धिय १ ॥ जइ धम्मो १ ० तो १ नणु १ १ पंचो १ १ ॥ ५२ ॥  
 अर्थ ॥ १ ॥ परिग्रह सते एटले परिग्रह राखे सते ॥  
 वध एटले लाकडियादिके करिने ताडण करवुं ।  
 ए एटले दोरडादिके करिने बांधवुं । मारण एटले प्र  
 थकि जुटु करवु ए रीते नाना प्रकारनि कदर्थनाओ  
 केइ ॥ ४ ॥ नथि अपीतु सर्वेछे एटले परिग्रहनो सं  
 करे सते केइ पीडाओ न थाय ॥ ५ ॥ ते कारण माटे  
 जो ए प्रकारे जाणिने पण ॥ ७ ॥ परिग्रह राखिये ए  
 परिग्रह राखे ते ॥ ८ ॥ निश्चे ॥ ९ ॥ ते परिग्रहराखवा १  
 ॥ १० ॥ जति धर्म एटले साधुनो धर्म ॥ ११ ॥ निश्चे ॥ १  
 पडपंच रूपछे एटले विटवना तुल्यते ए कारण  
 साधुने परिग्रह राखवा जुक्त नाथे. ए भाव ॥ ५२  
 विज्जाहरिहिं १ सहरिसं १ ॥ नरिंदुहियाइं १ अहमहंतीहिं १ ॥  
 नं १ पथिबजइ १ तइया १ ॥ वसुदेवो १ तं १ तवस्स १ ० फलं १ १ ॥ ५३  
 अर्थ ॥ १ ॥ ते कालने विशे ॥ २ ॥ मांहो मांहे स्पर्धा ए  
 इर्पां करति एटले एक जांणे हुं पेहलि परणुं बीजि  
 णे हुं पहेलि परणुं, ए प्रकारे इर्पां करति एहवि ॥

विद्याधरिञ्चो एटले विद्याधरना कुलमां उत्पन्न थये  
 यो एहवि जे कन्याञ्चो तेमणियो ॥४॥ अने राजानि पुत्रि  
 तेमणियो ए ॥५॥ हरपे करिने सहित ॥६॥ जे ॥७॥ वसु  
 नामा कुमार ॥८॥ प्राथर्ना करि एछी ए एटले विद्याध  
 पुत्रियो तथा राजानि पुत्रियो जे वासुदेव कुमार  
 हर्ष सहित पोतानि मेले वंछेछे ॥९॥ ते सर्व ॥१०॥ त  
 ॥११॥ फल जाणवुं एटले पुर्व जवमां करचा एहवा  
 ॥वचादिक तपनु फल जाणवुं. ते कारण माटे परिग्र  
 याग करिने परजावनि आशंसा रहित तपने विशे  
 म करवो. ए जावा ॥५३॥

हं आसि नंदिषेणस्त कुलं ॥ जं हं हरिकुलस्त विरलस्त ॥

गसी १ १ पियामहो १ सुचा ॥ रिणं १ वसुदेवनामुत्ति १ ॥५४॥

अर्थ ॥१॥ नंदिषेण जे तेमनुं ॥२॥ रुचुं ॥३॥ सुंद  
 कुल ॥४॥ हतुं अपितुं कांडरुडु कुल न हतुं क्येमजे  
 ह्यण जातिमां अवतरचा हता ए कारण माटे, तोयें  
 ॥५॥ जे कारण माटे ॥६॥ सारा अनुष्ठानो करवे  
 रिने आनंदिषेणो जीव ॥७॥ वसुदेव एहवे नामे  
 ८॥ विस्तारवंत एहवो ॥९॥ जादववंश जे तेहना एट  
 १ जादवकुलमां उत्पन्न थएला लोकोना ॥१०॥ वृ

द्व एटले पूजनिक ॥११॥ थया ते जला अनुष्ठान  
माहात्म्यछे.ते कारणमाटे आत्मार्थि पुरुषोये पुद्गलसु  
निइहा रहित रूडां अनुष्ठान सेववां. ए उपदेशा ॥१॥

सपरक्रमराउलवाइएण ॥ सीसे ३ पलाविए ५ निअए ॥ गय  
सुकुमालेण २ खमा ॥ तिहा ६ कया ८ जह ९ सिवंपत्तो १ ॥ ५५ ॥

अर्थ ॥१॥ पराक्रम सहित एहवो अने वली राजानो  
धव एहवो सतोयपण ॥२॥ गजसुकुमाल मुनिस्वर जे  
णे ॥३॥ पोतानु ॥४॥ मस्तका ॥५॥ वले सते एटले सोम  
सूसरे मस्तकने विशे पेरना अंगारा नरे सते ॥६॥  
प्रकारे ॥७॥ क्षमा ॥८॥ करि ॥९॥ जेम ॥१०॥ मोक्ष पां  
ते माटे उत्तम प्राणीयोयें क्षमा करवि एज सारछे ॥११॥

रायकुलेसु १ वि २ जाया ३ ॥ भीया ४ जरमरणगभवसहीणं ५ ॥

साधु ६ सहंति ७ ० सर्व ८ ॥ नीयाणवी ९ पेसपेसाणं ८ ॥ ५६ ॥

अर्थ ॥१॥ राज कुलने विशे एटले उत्तमकुलने  
शे ॥२॥ उत्पन्न थया एहवा ॥३॥ पण ॥४॥ साधु  
निराज एटले उत्तमकुलने विशे उत्पन्न थइने साधु  
एला एहवासतापण ॥५॥ जरण एटले वयनिहानि  
मरण एटले प्राणनोविजोग अने गर्जवसती एटलेग



अर्थ ॥१॥ जैम ॥२॥ चक्रवर्ति साधु सरलपदे  
 ने प्रथम मोटा साधु प्रते नमस्कार न करतो हवो  
 ॥३॥ सामान्य साधु एटले दिक्षा प्रजाये करिने  
 ना एहवा साधु जे तेंणें ॥४॥ निष्टुर वचने करि  
 ले टुंकारो करिने ॥५॥ कह्युं के तुं आ साधु प्रते  
 रच्य! एहवि रिते कह्युं, तोये पण ॥६॥ न ॥७॥  
 ॥८॥ कोप्या ॥९॥ ज्ञानादिक गुणना एटलें  
 चरित्रना ॥१०॥ बहु पणे करिने एटले ज्ञानादि  
 करिने अधिक एहवा साधुओ प्रते ॥११॥ नभ्या  
 ते १॥ धन्वा १०॥ ते ११॥ साहु १२॥ ते सि १३॥ नमो १४॥ जे १५॥ अकबजपरिवि  
 ॥धीरा १६॥ वय १७॥ मसिहारं १८॥ चरंति १९॥ नह २०॥ शूलिभद्रमुणी २१॥ २२॥  
 अर्थ ॥१॥ जे पुरुषा ॥२॥ अकारजथकि वीराम पा  
 हवा ॥३॥ धीर एटले धीरजवंत एहवा सता ॥४॥  
 सदृश ॥५॥ चोथाव्रत प्रते ॥६॥ पालेछे कोनी पठमा  
 मा ॥७॥ यूलिचद्र मुनीश्रें पाल्युं तिमा ॥८॥ ने पुरुष  
 घन्यछे ॥९॥ ते पुरुषा ॥१०॥ उत्तमछे ॥११॥ ते पु  
 ॥१२॥ नमस्कार याओ ॥१३॥

विमयासिपंजरामिव ॥ १॥ असिपंजरामि १॥ तिरुखंमि १॥  
 सिहा १६॥ व १७॥ पंजरगया १८॥ नमंति १९॥ तवपंजरे १०॥ साहु ११॥ १२॥ १३॥

र्थी॥१॥लोकानि मध्ये॥२॥तिक्षण एटले आकरु एह  
 ३॥असिनु पांजरु एटले तरवारनो समूह ते थकि वि  
 एहवा॥४॥सिंह॥५॥जेमा॥६॥लाकडाना पांजरामां  
 सता॥७॥रहेछे एटले जेम सुजट लोकोए उगाम्या  
 वा तरवारना समूह ते थकि विन्हा सता सिंह लाक  
 ना पांजरामां वसेछेते प्रकारे॥८॥विषय एटले शब्दा  
 क पांच विषय ते रूप खडगनुं पांजरु तेहने तुल्य स्त्रि  
 क ते थकि जय पांम्या एहवा॥९॥साधु मुनिराज जे  
 पण॥१०॥तपरुप पांजराने विशे वसेछे एटले गुरु  
 आज्ञा लेइने वारे जेदे तपने विशे वर्तेछे एजावा॥६०॥  
 ॥कुणइ ॥अप्यमाणं ॥गुरुवचनं ॥न लहेइ ॥उवएसं ॥सो ॥  
 च्छा ॥तह ॥सोअइ ॥उवकोसुवरे ॥नह ॥तवस्ती ॥ध ॥दि ॥  
 प्रयी॥१॥जे गुरुपा॥२॥गुरुनु वचना॥३॥अप्रमाण॥४॥  
 रेछे एटले गुरुनु वचन प्रमाण करतो नथी॥५॥ते पु  
 सा॥६॥उपदेश प्रते एटले गुरुनि आज्ञा प्रतो॥७॥ना॥८॥  
 मे एटले न अंगिकार करो॥९॥पछि॥१०॥ते प्रकारे  
 ११॥शोक करो॥१२॥जेम॥१३॥उपकोशाने घेरे एट  
 कोशानि बेहेनने घेरे गुरुनि आज्ञा विना आव्यो ए  
 वो॥१४॥तपस्वी एटले सिंह गुफावासि साधु शोच



प्रते पांम्या.तेम ते माटे गुरुनि आज्ञामां वर्तवुं॥१॥

निद्रव्यपत्रयभर॥ समुद्रहणवसिअस्स२अचंतं१।

जुवइ नणसंवइयरे१॥ जइत्तणं२उभउभइं१॥६२॥

अर्थ॥१॥अतिशय करीने॥२॥पर्वतना चार सदः  
हाव्रत धारण करवाने विपे उद्यमवंत एहवो जे

तहने॥३॥स्त्रीजननो संसर्ग करेसते॥४॥जतीपणु

ले साधुपणु॥५॥द्रव्यजाव वे प्रकारे नाश पांमे

स्त्रीना संसर्ग करिने जतिपणुं रहे नहि. ए जाव॥६

सइ१टाणि२जइ१मोणी१॥जइ१मुंडी१वकली१तवस्सी१ना१अर्थ

तो१२अ१२अवंभं११॥वंभावि१०न११रोनए१२मझं१था६३॥

अर्थ॥१॥जो॥२॥कायोत्सर्ग करेछे॥३॥जो॥४॥म

णु धारण करेछे॥५॥जो॥६॥मस्तक मुडावेछे॥७

वा॥८॥छालनां वस्त्र पेहरेछे॥९॥तपस्या करेछे

॥१०॥ब्रह्मा जे ते पिणु॥११॥मेथुनजाव प्रते॥१२॥

छतोसतो॥१३॥बलि॥१४॥मने॥१५॥नथी॥१६॥

एटले मेथुननो अजिलापी सतो जे कष्टक्रिया करे

ते सर्वे फोगटछे. जाव मिथ्यात आवेछे माटे॥६३॥

नो१गदियं१नो१गुणियं१०॥नो१२मुणियं१२तो१२अ१२चेइंउ१२अ

११॥आतडिअरुलियामंतिउ१॥वि१जइ१न१कुणइ१अकवतं१॥

॥१॥ जो ॥२॥ आपदाने विशेष ड्यो एहवो पण  
स्त्रीयोये निमंत्रण करयो सतो ॥३॥ पिणा ॥४॥ मैथुन  
तादि ॥५॥ नयी ॥६॥ करतो ॥७॥ त्वारो ॥८॥ भणेलुं  
णा ॥९॥ त्वारो ॥१०॥ गुणेलुं प्रमाणा ॥११॥ त्वारो ॥१२॥  
पणु प्रमाण एटले शास्त्रना अर्थनुजाणपणु प्रमाण  
॥१३॥ त्वारो ॥१४॥ वली ॥१५॥ आत्मा ॥१६॥ चैताव्यो  
ने आत्म स्वरूपनुं चित्तवन करवुं एटले आत्मा अने  
गजनी वेहेषण करनी ते प्रमाण छे ॥६॥ १॥

गण्डिपचिह्नोः ॥ गुणदनुत्तनि लहइ चहुच्यं ॥ अ  
वेनुदस्व न चहुइ ॥ गुणलेहि तत्तिया टाह ॥ ६॥ ५ ॥

थी ॥१॥ गुण महाराजनी सनीपे ॥२॥ प्रगट करयुंछे  
ले आलोयुंछे सर्वेशल्य एटले पाप ते जेणे एहवो जे  
पा ॥३॥ साधुपणा प्रते ॥४॥ पानेछे ॥५॥ अने नयी आलो  
पाप ते जेणे एहवो जे पुरुष तेहने ॥६॥ गुणनी श्रेणी  
॥१॥ आत्रि पाने ॥२॥ ते टलीजा ॥३॥ आहे ॥६॥ ५ ॥

इ दुकरदुकरकारड ति ॥ भणिट जहडिट चहु ॥ तो  
तेस अडनसंभू अविजयसीतेहि न ॥ वि ॥ खनिदं ॥ ६॥ ६ ॥

थी ॥१॥ जो ॥२॥ अतिपयदुकरदुकरनी करनाराश ॥  
प्रकारे बहु नांनपूर्वका ॥३॥ यथार्थ ॥४॥ युक्तिमद्र नाने



ह न करतो॥७॥ते पुरुषा॥८॥परभवने विपे॥९॥पुरुष  
 मूकीने स्त्री वेद पांमेछे॥१०॥जेमा॥११॥पीठमहापीठ  
 धु मच्छरना प्रजावथकी स्त्री वेदपणुं पांम्या॥६८॥  
 रपरिवायंगिण्हइ<sup>१</sup>॥अठमयविरल्लणे<sup>२</sup>सया<sup>३</sup>रमइ<sup>४</sup> ॥

इइइ<sup>५</sup>य<sup>६</sup>परसिरिए<sup>७</sup>॥सकसाउ<sup>८</sup>दुखित्वउ<sup>९</sup>निचं<sup>१०</sup>॥६९॥

अर्थ॥१॥ जे पुरुष पारका अर्वाणवाद बोलेछे अने  
 २॥आठमदना विस्तारने विपे एटले आठमद क  
 वाने विपे॥३॥नीरंतरा॥४॥आसक्त थायछे॥५॥वली  
 ६॥परनी लक्ष्मी देखवे करीने॥७॥वलेछे॥८॥एह  
 कपाय सहीता॥९॥नीत्य॥१०॥दुखि जांणवो.ते मा  
 पारका अर्वाणवाद बोलवा नहीं॥६९॥

वेगहविवायरुइणो<sup>१</sup>॥कुलगणसंघेण<sup>२</sup>वाहिरकयस्स<sup>३</sup>॥न

ध<sup>४</sup>किर<sup>५</sup>देवलोएधवि<sup>६</sup>॥देवसमिइसु<sup>७</sup>अवगासो<sup>८</sup>॥७०॥

अर्थ॥१॥जुद्ध करवानि तथा विवाद करवानीछे रुची  
 हेनी एहवो अने॥२॥कुल ते नागेद्रादी गण ते कु  
 मुदाय संघते चतुर्विधसंघ तेमणे॥३॥वाहिर करे  
 टले काहाडी मुकेलो एहवो जे पुरुष तेहनो॥४॥  
 लोकने विपे॥५॥पणा॥६॥देव सभाने विपे॥७॥प्रवे  
 १॥नथी॥९॥निश्चे जे कारण माटे अर्वाणवादनो वो

लनारो तथा कलेश करनारो किलविखिया देवता  
विपे अवतरेछे एटले ढेड देवता थायछे. ॥७०॥

बइ<sup>१</sup>ता<sup>२</sup>नणसंबवहार<sup>३</sup>।वडिजय<sup>४</sup>भकडन<sup>५</sup>

मायरइ<sup>६</sup>अन्नो<sup>७</sup>।।जो<sup>८</sup>तं<sup>९</sup>पुणो<sup>१०</sup>वि<sup>११</sup>कथइ<sup>१२</sup>

।।रस्स<sup>१३</sup>वसणेण<sup>१४</sup>सो<sup>१५</sup>दुहिउ<sup>१६</sup>॥७१॥

अर्थ॥१॥अन्य जे पुरुष एटले बीजो कोइ पुरुषा  
जो॥३॥प्रथमा॥४॥लोक व्यवहारने विपे॥५॥निषेध  
रेलु एहवुं॥६॥अकार्ज प्रते॥७॥करेछे॥८॥जे पुरुषा  
तेना पाप कर्म प्रते॥१०॥वली॥११॥बीजानी  
कहेछे॥१२॥ते पुरुषा॥१३॥पारका ॥१४॥ दुखे  
॥१५॥दुखीओ थायछे ते वापडो फोंगट पारकी नि  
करवे करीने पाप सहीत थायछे॥७१॥

मुटु<sup>१</sup>वि<sup>२</sup>उज्जवमाणं<sup>३</sup>।।पंचेव<sup>४</sup>करंति<sup>५</sup>रित्तियं<sup>६</sup>समणं<sup>७</sup>।।अ

णभूइ<sup>८</sup>परनिंदा<sup>९</sup>।।निओ<sup>१०</sup>वल्हा<sup>११</sup>कसाया<sup>१२</sup>थ<sup>१३</sup>॥७२॥

अर्थ॥३॥सम्यक् प्रकारे करीने तप संजमने  
उद्यम करतो एहयो॥३॥पिए॥४॥साधु प्रते॥५  
वस्तुहीजा॥६॥खाली॥७॥करेछे ते पांच वस्तु  
कहेछे॥८॥पोतानी स्तुती॥९॥परनिंदा॥१०॥  
ने विपे अथीलपणु॥११॥पुरुष स्त्रीना चिनने

नो अञ्जिलापा॥१२॥वली॥१३॥चार कसाया॥७२॥

परपरिवायमईउ॥दूसइ वयणोहे॥जेहि॥जेहि॥परं॥ते०

ते॥पावइ॥दोते॥परपरिवायइय॥अपिच्छो॥॥७३॥

अर्थ॥१॥ पारको अवरणवाद बोलवानीछे मती ते जे

एहवो जे पुरुपा॥२॥जे॥३॥जे॥४॥वचनोये करीने

॥वीजापुरुप प्रते॥६॥दुपीत करेछे॥७॥ते॥८॥ते॥९॥

यो प्रते॥१०॥पोते पांमेछे ए कारण माटे॥११॥पर अ

दनो बोलनारो पुरुपा॥१२॥नथी देखवा जोग्या॥७३॥

थदा॥छिद्रपेही॥अवन्नवाइ॥स्यंनई॥चवला॥॥

का॥कोहणसीला॥सीता॥उहेअगा॥गुरुणो॥॥७४॥

अर्थ॥१॥अहंकारी एहवा॥२॥छिद्रना खोलनारा ए

वा॥३॥अवरणवाद बोलवाने तत्पर एहवा॥४॥ पोता

मतीए चालनारा एहवा॥५॥चपल स्वभाववाला

हवा॥६॥वांका॥७॥क्रोधी एहवा॥८॥जे शीप्य॥९॥गु

माहाराजने॥१०॥उद्वेगना करावनारा थायछे॥७४॥

जस्त॥गुहंमि॥न॥भती॥॥न॥य॥बहुमाणो॥न॥

गउरवं॥न॥भयं॥॥नदि॥रुडजा॥नदि॥

नेहो॥॥गुरुकुलवासेन॥किं॥तस्त॥॥७५॥

अर्थ॥१॥जे शिष्यने॥२॥गुरु माहाराजने विशे॥३॥

नक्ती एटले गुरु माहाराजने देखीने उजा थवु  
 न आपवादीक विनया॥४॥नथी॥५॥वली॥६॥अंत  
 ति॥७॥नथी॥८॥मोटाइपणु॥९॥नथी॥१०॥गुरुयकी  
 या॥११॥नथी॥१२॥गुरुनी लज्या॥१३॥नथी॥१४॥  
 उपर स्नेह॥१५॥नथीज॥१६॥जे शिष्यने पूर्वे क  
 टलां वांनां गुरु संबधी नथी ते शिष्यने॥१७॥  
 समीप रेहवे करीने॥१८॥स्युं॥१९॥

रुसइ<sup>१</sup>चाई<sup>२</sup>नंतो<sup>३</sup>॥वहइ<sup>४</sup>हियण<sup>५</sup>अणुसयं<sup>६</sup>भाणउ<sup>७</sup>॥न<sup>८</sup>  
 कम्म<sup>९</sup>करणिजे<sup>१०</sup>॥गुरुस्स<sup>११</sup>आलो<sup>१२</sup>न<sup>१३</sup>सो<sup>१४</sup>सीसो<sup>१५</sup>॥१६॥

अर्थ॥१॥जे शिष्य गुरु माहाराजे प्रेरणा करये  
 ॥२॥रोप करेछे ॥३॥वोलाव्योसतो॥४॥हृदयने  
 ॥५॥क्रोध प्रते॥६॥धारण करेछे॥७॥वली॥  
 ग्य एहवुं॥९॥कार्ज॥१०॥न करे॥११॥ते  
 गुरुने॥१३॥आलरूपजाणवो॥१४॥शिष्य एटले  
 मणनो माननारो॥१५॥न जाणवो ते माटे दुर्वि  
 णुं त्याग करवुं ए श्रेयछे॥१६॥

दविलणसूअणपरिभवेहिं<sup>१</sup>॥अइभणिय<sup>२</sup>दुइभणिएहिं<sup>३</sup>॥

सत्ताहिया<sup>४</sup>सुविहिया<sup>५</sup>॥न<sup>६</sup>चेव<sup>७</sup>भिदांत<sup>८</sup>मुहरागं<sup>९</sup>॥१०॥

अर्थ॥१॥प्राक्रमे करीने अधिक एटले क्रोधादि

ने समर्थ एहवा॥२॥ जला शिष्य ते जे तो॥३॥ उद  
 पमाडवे करीने तथा दोष प्रगट करवे करीने त  
 तर्जनाए करीने॥४॥ अति सिपांमण देवे करीने॥५॥  
 ति आकरां वचन केहेवे करीने॥६॥ ना॥७॥ हीज॥८॥  
 खना रंग प्रते॥९॥ पालटे एटले जे सुशिष्य होयछे  
 गुरु माहाराजना उपदेशे करीने काला मुखवाला थ  
 नथी अपीतु खुसी थायछे॥७७॥

माणसिणो<sup>१</sup> वि<sup>२</sup> अवमाण<sup>८</sup> ॥ वंचणा<sup>१०</sup> ते<sup>४</sup> परस्स<sup>९</sup> ते<sup>५</sup> न<sup>११</sup> क

रंति<sup>१२</sup> ॥ सुहृदुखवागिरणल्लं<sup>७</sup> ॥ साहुउं<sup>६</sup> अहिवगंभीरा<sup>३</sup> ॥ ७८॥

अर्थ॥१॥ इंद्रादिके मान्या सता एहवा॥२॥ पिण॥३॥  
 मुद्रनी पेटे गंजीर एहवा॥४॥ प्रसीद्ध एहवा॥५॥ ते॥६॥  
 धु॥७॥ सुख दुःख एटले पुन्य पाप क्षय करवाने अ  
 ॥८॥ परथकी अपमान थए सते॥९॥ अपराधना कर  
 ार पर पूरुपने॥१०॥ ठगवुं एटले पीडा॥११॥ नथी॥१२॥  
 रता॥७८॥

मउआ<sup>१</sup> निहुअसहावा<sup>२</sup> ॥ हासद्वविवद्विनया<sup>३</sup> विगहमुक्का<sup>४</sup> ॥ अ

समंजस<sup>५</sup> मइंवहुअं<sup>६</sup> ॥ न<sup>७</sup> भणंति<sup>८</sup> ॥ अपुच्छिया<sup>९</sup> साहू<sup>१०</sup> ॥ ७९॥

अर्थ॥१॥ अहंकार रहित एहवा॥२॥ शांत सजाववाला  
 ३॥ सामान्य प्रकारे हसवु पर उपर ईर्ष्यादिकनु करवुं



तेणे करिने रहित एहवा॥४॥विकथा रहित एहवा  
 ॥५॥साधु मुनीराज॥६॥पुछ्या वीना॥७॥अघटतु  
 अणमीलतु॥८॥वणुं॥९॥ना॥१०॥बोले तारे ते साधु पु  
 सता केवि रीते बोले ते आगलि गाथामां कहेछो॥

महुरं१निउणं१धोने१॥कडनावडिअं१अगविय१मनुच्छं१॥

पुं१मइसंकळियं१॥भणंति११अं१धम्मसंजुत्तं१॥८०॥

अर्थ॥१॥मधुर एटले परने हर्ष उपजावनाहार  
 तुराइपणाए सहिता॥३॥थोडुं एटले मतलब जेटुं  
 कारज पडे सतो॥५॥अहंकार रहिता॥६॥टुंकारादिं  
 रीने रहिता॥७॥बोलवार्थी पेहेला॥८॥बुद्धिए करिने  
 चारेळुं एहवुं॥९॥जे॥१०॥धर्म सहित वचन ते प्र  
 हा पुरुषो॥११॥बोलेछे पण अधर्म संजुक्त वचन  
 नही ए रहस्य॥८०॥

साठवाममहम्मा१॥निमत्तगुत्तो१दणधोएण१॥अणु

विचं१नामळिणा१॥अत्राणननु१त्ति१अणफळो१॥८१॥

अर्थ॥१॥नांमलि तापस जे तेंणे॥२॥साठ ह  
 रपमूवी छट छठने पारणे॥३॥इकवीसवार  
 कर्गने धोयुं एहवुं जे अत्र तेणे करीने॥५॥आय  
 टले तप कष्ट करयुं ते॥६॥अज्ञान तपछो॥७॥ए हेतु

८॥ फल रहित जाणवुं ॥ ८१ ॥

इन्द्रजीवकायवहगा ॥ हिंसकस्यथाइं उवइ संति धुणो ॥

सुत्रहंपि तत्रकिलेसो ॥ वालतवस्तीग अप्फलो ॥ ८२ ॥

अर्थ ॥ १ ॥ छजीव कायना वध करनारा एहवा ॥ २ ॥ वली  
 ३ ॥ लोकोनी आगल हिंसकशास्त्र प्रतो ॥ ४ ॥ प्रकाश क  
 ५ ॥ एहवा जो ॥ ६ ॥ वाल तपस्वी एटले अज्ञानी पुरुषो  
 ७ ॥ ८ ॥ अतिपय करीने घणो एहवोय पण ॥ ९ ॥ तपे क  
 १० ॥ ने जे केश एटले जे कष्टा ॥ ८ ॥ फल रहित जाणवुं ते  
 ११ ॥ ते द्रव्यभाव वे प्रकारे हिंसा त्याग करीने तप कर  
 १२ ॥ ते मोहोटा फलवालोछो ॥ ८२ ॥

परियच्छंति चंडं ॥ जहइयं अदितहं असंदिहं ॥ तो ६

तिपवयनातिहिनु ॥ चहंति ॥ बहुअस्तु बहुआए ॥ ८३ ॥

अर्थ ॥ १ ॥ जे साधु जयार्थ एहवुं ॥ २ ॥ सत्य एहवुं ॥ ३ ॥ सं  
 ४ ॥ ह रहित एहवुं ॥ ४ ॥ सर्व जीवाजीवादी पदार्थना समु  
 ५ ॥ प्रतो ॥ ६ ॥ जाणोछो ॥ ६ ॥ ते कारण नाटो ॥ ७ ॥ जिन वचननी  
 ८ ॥ अधिना जाण एटले सिद्धांत मार्गना जाण एहवा स  
 ९ ॥ १० ॥ बहु ज्ञानान्य एटले नीच लोकोना ॥ १ ॥ घणांडु  
 ११ ॥ वनादी प्रतो ॥ १ ॥ १० ॥ तन्मावे करीने सहन करेछे ते ना  
 १२ ॥ एहवा मुनीराजनुं जे तप ते मोटा फलने अर्थे एट

ले मोक्ष फलने अर्थे थायछे॥८३॥

जो जंस्स वट्टए धियए ॥ सो तं ठावेइ सुंदरसहावं ॥

वग्धी १ छावं १ जणणी १ ॥ भइं १ सोमं १ च १ मन्नेइ १ ॥

अर्थे ॥ १ ॥ जे ॥ २ ॥ जेहना ॥ ३ ॥ चितने विपे ॥ ४ ॥ वत्ते  
ते पुरुष ॥ ५ ॥ ते प्रते ॥ ६ ॥ सुंदर सजाववालो ॥ ७ ॥

॥ ८ ॥ जेम वाघेण ॥ ९ ॥ माता ॥ १० ॥ पोताना वा  
ते ॥ ११ ॥ नद्र ॥ १२ ॥ वली ॥ १३ ॥ शांत एहवुं ॥ १४ ॥

टले जेम वाघेण अज्ञानपणाथकी अन्नद्र अने  
अने घणा जीवोनु नक्षण करनारुं एहवुं जे पो

लक ते प्रते नद्र अने शांत अने जीव रक्षणनु  
एहवुं मानेछे तेहनी पठम अज्ञानी जीव कुगुरु

रु करीने मानेछे अने पोताना अज्ञान तप प्र  
करीने मानेछे माटे वीवकी पुरुषोये सीधांत उपर

देइने गुण अवगुणनुं जयार्थ जाणपणुं करवुं ए जा  
मणि रुण गरयण धण पुरयंमि ॥ भवणंमि १ साछि भदो वि १ ॥

वि १ किर १ मज्ञ वि १ सामि उ १ त्ति १ ॥ जाउ १ विगय कामो १ ॥  
अर्थे ॥ १ ॥ मणिकनक रत्न धन तेणे करिने जं

वुं ॥ २ ॥ घर तेहने विपे रहेतो एहवो पण ॥ ३ ॥ स  
वहेवारियो ॥ ४ ॥ माहरे पण ॥ ५ ॥ निश्चे ॥ ६ ॥ विजो



ना घरने विशेषे ॥१॥ पण ॥३०॥ नहिज ॥११॥ उलप  
ले पोताने घेरे जे अवसरे गोचरी आव्या ते  
पोताना सेवक लोकोए पण उलप्या नही ए  
ते तपे करीने सरीर सुकव्युंछे. अहो! एहवा अ  
कुमाल थइने पण एहवो कठण तप आचर्यो

दुकर मुद्दोसकरं ॥ अवंतिसुकुमालमहरिसीचरीयं ॥

अण्णाविश्वनामं तहं तन्नं इति ॥ अच्छेरयं ॥ एयं ॥ ८

अर्थ ॥ १ ॥ दुष्कर एटले दुखे करीने करवा जो  
एहवुं अवंति सुकुमाल नामे माहारूपीनुं जे  
प्रते सांचलनारा पुरुपोने पण ॥ ३ ॥ रोमांतकंप  
रोमराय विकस्वर करनारछे ॥ ४ ॥ ते अवंति सुकु  
निराज जे तेंमणे पण पोतानो आत्मा जे ते ॥ ५  
॥ ६ ॥ तेज प्रकारे ॥ ७ ॥ दम्यो ॥ ८ ॥ हेतु माटे ॥ ९ ॥  
ती सुकुमालनु चरीत्रा ॥ ३० ॥ आश्रयकारिछे ॥ ८८

आच्छूढसरीरघरा ॥ अन्नो न्विषो सरीरं मंत्रंति ॥ ४ ॥

मस्स कारणे सुविहिया ॥ सरीरं शपि ॥ च्छडंति ॥ ५ ॥

अर्थ ॥ १ ॥ त्याग करचोछे शरीरनो मोह ते जे  
हवा ॥ २ ॥ शुविहितगीतार्थ महाराजा ॥ ३ ॥ धर्म  
अर्थ ॥ ४ ॥ आ जीवा ॥ ५ ॥ जुदोछे ॥ ७ ॥ अने आ शरीर

प्रकारे वीचारीने॥९॥शरीर प्रते॥१०॥पणा॥११॥  
 कदेछे,केमजे धर्म त्यागकर्यो सतो फरीनेते पां  
 दुर्लनछे.द्रव्य प्राणतो बीजा जन्मने विषे पण  
 क. एहेतु माटे प्राणनो जंग थये सते पण धर्म  
 ग करवो ए श्रेयठे॥८९॥

द्वसं<sup>३</sup>पि<sup>३</sup>जीवो<sup>३</sup>॥द्वज्ज<sup>३</sup>मुवागओ<sup>३</sup>अनन्नमणो<sup>३</sup>॥जइ  
 १पाइ<sup>३</sup>मुखं<sup>३</sup>॥अवस्तं<sup>३</sup>वेमाणिओ<sup>३</sup>होइ<sup>३</sup>॥९०॥  
 ॥१॥एकाग्रचितवालो एहवो॥२॥जीव जे तो३  
 देवसा॥४॥पणा॥प्रवर्ज्या एटले चारित्र प्रते॥६॥  
 ते सतो॥७॥जो पणा॥८॥मोक्ष प्रते॥९॥न॥१०॥  
 तोए पणा॥११॥निश्चो॥१२॥वैमानिका॥१३॥थाया॥१०॥  
 वेढेण<sup>३</sup>सिरिमि<sup>३</sup>वेढि<sup>३</sup>॥निगयाणि<sup>३</sup>अच्छिणि<sup>३</sup>॥मेय  
 स्त<sup>३</sup>भगवर्त्<sup>३</sup>॥नय<sup>३</sup>सो<sup>३</sup>मणसावि<sup>३</sup>परिकुविर्त्<sup>३</sup>॥११॥९१॥  
 र्थ॥१॥पूज्य एहवा॥२॥मेतार्जनामे मुनीना॥३॥ली  
 वांमडानी वाधरडीए करीने॥४॥मस्तक जे ते॥५॥  
 सते ते लीलुं चांमडुं सुकाया पछी॥६॥आंख्यो जे  
 शानिकलि पडी॥८॥तोपिण ते मेतार्जमुनि महारा  
 ५॥ मने करिने पणा॥१०॥ नहिजा॥११॥ कोप्या ते  
 आत्मायी पुरुपोए क्षमा करवी ए श्रेष्ठे॥९१॥



नमो गौतमं मुनीहो ॥ गौतमो वैश्वानर इत्युक्तः ॥ इ  
 त्तेऽभिहितं ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ ९० ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ १०० ॥



अर्थ॥१॥जावे करिने॥२॥विरुद्ध मनछे जेहनुं ।  
 ।३॥जे शिष्य॥४॥केहेवामाडेलुं एहवुं॥५॥गुरुमहा  
 वचन ते प्रते॥६॥अंगिकार करेछे॥७॥ते गुरु म  
 जनुं वचन॥८॥अपधनी पठमा॥९॥पीवा मांड  
 ते शिष्यने॥१०॥सुखनु आवहन करनार एहवुं॥  
 थायछे आ शब्दार्थनो उडी रीते विचार करवो॥

अणुवत्तगा<sup>१</sup> विणिया<sup>२</sup> ॥ बहुखमा<sup>३</sup> निचभस्तिमंता<sup>४</sup> य<sup>५</sup> गुरु  
 कुलवासी<sup>६</sup> अमुई<sup>७</sup> ॥ धन्ना<sup>११</sup> सीसा<sup>१०</sup> इह<sup>९</sup> सुसीला<sup>४१</sup>

अर्थ॥१॥गुरु महाराजना वचन प्रमाणे चालता  
 वा॥२॥द्रव्यजाव वे प्रकारे विनय सहित एह  
 बहु क्षमावंत एहवा॥४॥निरंतर नक्तिवंत एह  
 वली॥६॥गुरु महाराजनी समीपे रेहेता पण  
 इच्छायेन चालता एहवा॥७॥ज्ञानादीक कारज  
 थये सते पण गुरुना समीपपणा प्रते नमुंकता  
 ॥८॥जला आचारवंत एहवा॥९॥आजगतने विपे  
 जे शिष्यछे॥१०॥ते धन्यछे; ते माटे आत्मार्थी  
 एहवोज गुणअंगिकार करवो एपरमार्थ॥११॥

मविंतस्स<sup>१</sup> इह<sup>२</sup> जसो<sup>३</sup> कीत्ति<sup>४</sup> य<sup>५</sup> मयस्स<sup>६</sup> परभवेधम्मो<sup>७</sup> ॥ ३०  
 य<sup>८</sup> निगुणस्स<sup>९</sup> य<sup>१०</sup> ॥ अयसो<sup>११</sup> कीत्ति<sup>१२</sup> अहम्मो<sup>१३</sup> य<sup>१४</sup>



अर्थ॥१॥सुनक्षत्र नामे मोटा रुपिना सरस्वती॥  
 चार्ज उपर जाकिराग एटले अभ्यंतर स्नेह॥३॥  
 कोइने नथी॥४॥नीश्वे॥५॥जेणे जीवीत॥६॥  
 रघु पण॥७॥गुरु महाराजनो पराभव एटले  
 करयो जेतिरस्कारा॥८॥नहीज॥९॥सहन करयो॥१०॥

पुन्नेहिं<sup>१</sup>चोइआ<sup>२</sup>पुरकडेहिं<sup>३</sup>॥सिरिभायणं<sup>४</sup>भविअसत्ता  
 गुरु<sup>५</sup>भागमेसि<sup>६</sup>भवा<sup>७</sup>देवयमिव<sup>८</sup>पद्मवासंति<sup>९</sup>॥१०॥

अर्थ॥१॥पुरवचने विपे करेलां एहवां॥२॥  
 तेमणे॥३॥प्रेरणा कर्या एटले शुभ पुण्यना  
 एहवा॥४॥लक्ष्मीनुजाजन एटले लक्ष्मीवंत  
 आगामिकालने विपे॥६॥छे कल्याण ते जेमने  
 ॥७॥नव्य प्राणीयो॥८॥पोताना धर्माचारज  
 देवनी पठमा॥९॥सेवा करेछे एटले जेम देव  
 करीए तेम गुरुनी सेवा करीए ए उपदेश॥१०॥

बहुमुखसयसहस्साण<sup>१</sup>॥दायगा<sup>२</sup>मोअगा<sup>३</sup>दुहसयाणं<sup>४</sup>  
 आयारिया<sup>५</sup>कुड<sup>६</sup>मेअं<sup>७</sup>॥केसि<sup>८</sup>एणसि<sup>९</sup>अ<sup>१०</sup>तेहेऊ<sup>११</sup>॥१२॥

अर्थ॥१॥घणा लख्खो गमे सुखना॥२॥दातार  
 ॥३॥सइकडो गमे दुख थकी॥४॥मुकावनारा  
 आचारज माहाराजाछे॥६॥ए वात ॥

नथी ॥८॥ जेम प्रदेसि राजाने ॥९॥ केसि कुमार  
रज महाराज ॥१०॥ ते सुखना कारणिक थया ते  
॥११॥ नीश्रे ॥१०२॥

यगइ गमणषडिहथएकए<sup>१</sup> तह<sup>१</sup> परसिणा<sup>१</sup> रन्ना<sup>१</sup> ॥

मरविमाणं<sup>२</sup> पत्तं<sup>२</sup> तं<sup>२</sup> आयरियप्पभावेणं<sup>२</sup> ॥१०३॥

॥११॥ तेमज ॥२॥ ॥३॥ प्रदेसि राजा जे तेणे ॥४॥

गतिने विपे गमन एटले जवुं तेने विपे पस्तानुं

सते एटले जवानी तइयारी करये सते ॥५॥ जे अमर

न ॥६॥ पांम्यु एटले प्रदेशी राजा देवलोक गया ॥

॥८॥ आचारज महाराजना प्रजावेकरीने ॥१०३॥

म्ममइएहिं<sup>१</sup> अइ सुंदरेहिं<sup>१</sup> ॥ कारणगुणोवणीएहिं<sup>१</sup> ॥

हायंतो<sup>२</sup> य<sup>२</sup> मणं<sup>२</sup> सीसं<sup>२</sup> चोएइ<sup>२</sup> आयरिउ<sup>२</sup> ॥१०४॥

॥११॥ हितना वंछक एहवा आचारज महाराज जे

॥१॥ धर्म सहित एहवो ॥३॥ अति शुंदर एटले दोष

॥ एहवा ॥४॥ ज्ञान दर्शन चारित्ररूप जे कारण ते

जे गुण तेहणे करिने सहित एहवां वचनोए करि

॥५॥ शिष्यना मन प्रते ॥६॥ आनंद उपजावता सता

शीष्य प्रते ॥८॥ शिखांमण देछे ॥९॥ नीश्रे ॥१०४॥

१<sup>१</sup> काऊण<sup>१</sup> पणं<sup>१</sup> ॥ तुरमणि<sup>१</sup> दत्तस्स<sup>१</sup> कालिअब्जेण<sup>१</sup> ॥ अवि



॥१॥साधु मुनीराज जे ते॥२॥दीनपणुं, रुदन क  
 णगार, हाव जाव, राजादीकनो जय अने जीवितनु  
 हरनार एटलांवानां ए करीने एटले अनुकुल प्रति  
 उपसर्गो ए करीने॥३॥वली॥४॥कदाचीत जीवित  
 ग करेछे॥५॥पण॥६॥पोताना व्रत प्रते॥७॥नहिज  
 वेराधे एटले खंडित करे॥१०७॥

हेय<sup>१</sup>मायरंतो<sup>२</sup>।अणुमोअंतो<sup>३</sup>अ<sup>४</sup>सुगइं<sup>५</sup>लहइ<sup>६</sup>।।रह  
 दाणअणुमोअगो<sup>७</sup>।।मिगो<sup>८</sup>जह<sup>९</sup>य<sup>१०</sup>वलदेवो<sup>११</sup>।।२०८॥

॥१॥आत्माने हितकारी एहवा तप संजम प्रते  
 शचरतो सतो एहवो॥३॥वली॥४॥दानादीक घ  
 ने अनुमोदना करतो सतो एहवो जे पुरुषा॥५॥ज  
 णि प्रते॥६॥पांमे॥७॥जेमा॥८॥मुनिने दाननो दे  
 एहवो सुतार अने दाननी अनुमोदना करनार ए  
 ॥९॥मृगलो॥१०॥वली॥११॥वलदेव नामा मुनी  
 रो जण पांचमे देवलोके गया तेम धर्म करयो क  
 री अने अनुमोदना करयो सतो बहु फल आप  
 थायछे ए जाव॥२०८॥

कयं पुण पूरणेन<sup>१</sup>॥अइदूकरं<sup>२</sup>चिरकालं<sup>३</sup>॥जइ<sup>४</sup>तं<sup>५</sup>  
 रो<sup>६</sup>इह<sup>७</sup>॥करितु<sup>८</sup>तो<sup>९</sup>सफल्यं<sup>१०</sup>हुंतं<sup>११</sup>॥२०९॥

पोताने विशे साधुपणुं मानेछे ते असंजत जाण  
ले पाप साधु जाणवा॥११२॥

धोवो विगिहिसंगो॥ नइणो सुदुस्स पंक मावहइ  
सो नारत्तिरिसि॥ हसीउ पज्जोयनरनयणा॥११  
अर्थ॥१॥ शुद्ध एहवा॥२॥ मुनिराज महाराजने  
डोया॥३॥ पणा॥४॥ ग्रहस्थनो प्रसंग जे ते  
फादय प्रते॥ ७॥ वहन करेछे॥ ८॥ जेम॥ ९ चंड  
राजा जे तेंणे॥ १०॥ ते॥ ११॥ वार्त्तिक नामा रिसि  
॥१२॥ हस्या एटले वार्त्तिकनामा रुपीनी चंड  
रानाए जेम हांसी करी केहे नैमीत्तिक तमने वंद  
छुं ए प्रकारे हांसी करी ते माटे थोडोशोय ग्रह  
प्रसंग हतो त्यारे हांसी थइ ते माटे मुनिराज  
ग्रहस्थीनो प्रसंग त्यागवा जोग्यछे ए उपदेश॥

सुभावो वीसंभो॥ नेहो रद्वयरो सुवद्वजणे॥  
सयगवर संभारो॥ तवसीलवयाइं केडिज्जा॥११४॥  
अर्थ॥१॥ स्त्रीयोनी आगल छानी वार्त्तानु के  
स्त्रीयोनी वीस्वास राखवो॥३॥ स्त्रीयोनी साथे  
खवो॥४॥ स्त्रीयोनी आगला॥५॥ काम कयानु  
सज्जन कुटुंब घर तेमनु वारवार संचारवुं एटलां

१॥ तपसील व्रतादीक प्रते॥८॥ नास करेछे ते माटे  
राग द्रष्टीए करीने मुनीराजने स्त्री तथा घर कुटुंब  
पर राग करवो नहि॥११४॥

जोइसनिमित्तअखखर॥कोउआएसभूइकम्मोहिं<sup>१</sup>॥करणा  
णुमोअणाहि<sup>२</sup>अ<sup>३</sup>॥साहुस्स<sup>४</sup>तवखउ<sup>५</sup>होई<sup>६</sup>॥११५॥

अर्थ॥१॥जोतिपशास्त्रनुकेहवुं,होरादिकनिमित्तनुकेहवुं,  
क्षर अनुजोगनु केहवुं एटले मंत्रादीकनुं केहवुं,कौतु  
एटले समस्यादिकनु केहवुं, आदेश एटले फलांणी  
त फलांणे दीवशे थशेए प्रकारे केहवुंअने भूतीकर्म  
एटले मंत्रेली रक्षादीकनु आपवुं एटलां वांनांए करीने  
२॥वली॥३॥एटलां वांनांना करनारनी अनुमोदनाक  
वे करीने॥४॥साधु मुनीराजना॥५॥तपनो क्षय एटले  
१॥६॥थायछे ते माटे पूर्वे कहेलां पदार्थ मनाववा  
जाववानी इच्छाए करीने करवां कराववां अनुमोद  
घटीत नथी॥११५॥

तह<sup>२</sup>कीरइ<sup>३</sup>संगो<sup>४</sup>॥तह<sup>२</sup>पसरो<sup>५</sup>खणे<sup>६</sup>होई<sup>७</sup>॥धोवो  
वे<sup>८</sup>होई<sup>९</sup>वहुउ<sup>१०</sup>॥नय<sup>११</sup>लहइ<sup>१२</sup>धिइं<sup>१३</sup>निरुंभंतो<sup>१४</sup>॥११६॥

अर्थ॥१॥जेम जेम॥२॥ग्रहस्थादीकनो संग एटले सं  
१॥३॥करीए छीए एटले जेम जेम साधुमुनीराज ग्र



हस्थनो संग करेछे॥४॥तेम तेमा॥५॥ते क्षण लपने।  
 ॥६॥विस्तारा॥७॥पांमेछे॥८॥थोडोय पणग्रहस्थन  
 वंध॥९॥घणो॥१०॥थायछे॥११॥ग्रहस्थनो जे संव  
 रनारो जे साधु ते गुरु महाराजे उपदेश करीनेरो  
 सतो॥१२॥धिरज एटले संतोष प्रते॥१३॥नहिजा  
 पांमेतेमाटेसाधुजेतेणे ग्रहस्थनो संबंधनकरवो॥  
 तो१॥चयइ१॥उत्तरगुणे मूलगुणेवि१॥अचिरेण१॥सो१॥चयइ१॥  
 २॥कुणइ१॥पमाय१॥पिल्लिङ्गइ१॥तह१॥कसाएहि१॥१॥१॥  
 श्रय॥१॥जे साधु॥२॥उत्तर गुणो प्रते एटले पि  
 शुध्यादिक गुणों प्रते॥३॥त्याग करेछे॥४॥ते साधु  
 मूलगुणों प्रते एटले प्राणातिपात विरमणादिक  
 महाव्रतादिक प्रते पणा॥६॥शीघ्र एटले जलदिा॥७॥  
 ग करे एटले छांडे॥८॥जेम जेमा॥९॥प्रमाद प्रते॥  
 करेछे॥११॥तेम तेमा॥१२॥कपाय जे तेंमणे॥१३॥  
 ए छीए एटले प्रमादना करनार साधु प्रते कपा  
 ते पीडेछे एटले कपाय थायछे ते माटे साधु जे  
 श्रहारादिकने विशे दोष लगाडवो नहि॥११७॥

सो१॥निच्छरण१॥गिणहइ१॥देहघाए१॥वि१॥नय१॥धिइ१॥मुअइ१॥  
 माहेइ१॥मकबन१॥॥तह१॥चंदवडिंसउ१॥राया१॥१॥१॥

अर्थ॥१॥जे साधु॥२॥निश्चय करिने एटले स्थिरताए  
 रेंने॥३॥व्रत प्रते ग्रहण करेछे॥४॥ते साधु॥५॥देहनो  
 ग थये सते॥६॥पिण॥७॥धीरज प्रते॥८॥नहिज।९।  
 ते अने॥१०॥पोताना कारज प्रते॥११॥साधेछे॥१२॥  
 १३॥चंद्रावतंसका॥१४॥राजा एटले चंद्रावतंसक  
 जा जे तेंणे ग्रहण करयो एहवो जे अग्निग्रह न मुंक्यो  
 न विजाये पण एम वर्तवुं॥१५॥

जीउण्हरवुपिवासं॥ दुस्तिब्जपरिसहं किलेसं च॥ जो सह  
 तस्स धम्मो॥ जो धिइमं सो तवं चरइ॥ १११॥  
 अर्थ॥१॥जे साधु॥२॥शीत,उष्ण अने क्षुधापिसासादिक  
 ने॥३॥बली॥४॥दुष्टसय्या,त्रण संस्तारक रूप परीस  
 प्रते॥५॥अने लोचादिक कष्ट प्रते॥६॥समताए करिने  
 हन करेछे॥७॥ते साधुने॥८॥धर्म निष्पन्न थायछे।९।  
 साधु॥१०॥निश्चल चित्तवालो होयछे॥११॥ते सा  
 धु॥१२॥तप प्रते॥१३॥आचरेछे॥१४॥

धम्ममिणं जाणंतां॥ गिहिणो धवि दद्वया किमु असाहु॥  
 मल्लमेलाहरणे॥ सागरचंदेण इत्थु वमा॥ ११२॥  
 अर्थ॥१॥आ जिनराजे कहेलो एहवो॥२॥धर्म प्रते॥३॥  
 णिता सता एहवा॥४॥श्रावक जेते॥५॥पण॥६॥द्रढ

व्रतवाला एटले व्रत धारण करवाने विशे ६७  
 होयछे॥७॥वली॥८॥क्यम॥९॥साधू मुनीराज जे  
 ढ व्रतवाला न होय अपितु होयज॥१  
 नामनी कन्या तेहना संबंधने विपे॥११॥इहां॥१२  
 रचंद्रनामाकुमारनी॥१३॥उपमा एटलेदृष्टांतछे॥१  
 देवेहिं<sup>१</sup>कामदेवो<sup>२</sup>॥गिही<sup>३</sup>वि<sup>४</sup>नय<sup>५</sup>चालिउ<sup>६</sup>तवगुणेहिं<sup>७</sup>  
 ॥मत्तगइंदभुयंगम॥रखसघोरदहासेहिं<sup>८</sup>॥१२२१॥  
 अर्थ॥१॥काम देव नामा॥२॥आवक जे ते॥३॥  
 ॥४॥देवता जे तंमणे॥५॥मदोन्मत्त गजेन्द्र,सर्प,  
 तेमना जयंकर अट्टहास एटले घणुं हसवुं तें  
 रीने॥६॥तपरूपगुणोथकि॥७॥नहिज॥८  
 माटे व्रतने विशे दृढपणुं करवुं ए श्रेयछे॥१२२१॥  
 भोगेअ<sup>१</sup>भुंजमाणा<sup>२</sup>वि<sup>३</sup>॥केइ<sup>४</sup>मोहा<sup>५</sup>पडंति<sup>६</sup>अह<sup>७</sup>गइं<sup>८</sup>॥  
 कुविट<sup>९</sup>आहारथी<sup>१०</sup>जत्ताइ<sup>११</sup>जणस्स<sup>१२</sup>दमगव<sup>१३</sup>॥१२२२  
 अर्थ॥१॥केटलाएक पुरुषा॥२॥जोगो प्रते॥३॥शात  
 गवता सता॥४॥पण मनने विशे जोगोनी इच्छा  
 ता सता॥५॥मोहयकी एटले अज्ञानथकी॥६  
 तिने विशे॥७॥पडेछे॥८॥आहारनो अर्थी जीवुं  
 हुनक जेम ॥९॥जात्राने विशे गयेलो एहवो ॥१०

नेनी उपरा॥१२॥कोप्योजेम ते द्रुमक मनने विशे  
 न चिंतववै करीने दुरगति रूप फल पांम्यो ते  
 मां दुरध्यांन करवाथकी बीजो पण दुर्गती पां  
 ऽ जावा॥१२२॥

उपसहस्सदुल्लहे॥नाइ तरामरणसागरुत्तारे॥जिण  
 णिभुणायर॥खणमाविंमाकाहिसिपमायं५॥१२३॥  
 र्थ॥१॥हे गुणना समुद्र॥२॥लख्खो गमे जवने  
 दुर्लज एहवुं॥३॥जन्म जरा अने मरण रूप समु  
 ती पार उतारनार एहवुं॥४॥जिनराजनुं वचन सते  
 तणमात्र पण॥६॥प्रमाद प्रते॥७॥मकरिस एटले  
 ऽ त्याग करिनेजिनराजनुं वचनश्राराधवुं॥१२३॥

लहइ समत्तं॥लदूणध्वेभं०नएइ०संवेगं॥विचय  
 १५११रत्तइ१॥सो१०दोसो१०रागदोसाणं१५॥१२४॥  
 प्रर्थ ॥१॥ आ जीव जे ॥२॥ समकित प्रते ॥३॥  
 ॥४॥ पांमतो ॥५॥ अने पांमीने ॥६॥ पण ॥७॥  
 ८॥ वैराग्य प्रते ॥९॥ नथी ॥१०॥ पांमतो॥११॥  
 बली॥१२॥कांन भोगादिक विषयोने विषे॥१३॥  
 छे एटले आसक्त थायछे ॥१४॥ ते ॥१५॥ दोप  
 ॥ राग द्वेषनोछे ते माटे दोपनु कारण एहवा जे

राग द्वेष ते त्यागवा जोग्यछे ॥१२४॥

तो बहुगुणनासाणं ॥ सम्मत्तचरित्तगुणविनासाणं

नहु वस मार्गतवं ॥ रागदोसाणपावार्णं ॥ १२५

अर्थ ॥१॥ ते कारण माटे ॥२॥ घणा गुण

करनार एहवा ॥३॥ सम्यक्त्व एटले शुद्ध श्रद्धां

रित्र एटले पांच आश्रवणु रोकवुं ते रूप

उत्तर गुण तेमनोविनाश करनारा एहवा

रूप जे पाप तंमने ॥५॥ नहि ॥६॥ निश्चं ॥७॥ वश

यवुं एटले राग द्वेषने वस्यनहिज ६वुं ॥ १२६ ॥

नवि सं कुणइ अभित्तो ॥ मुटुवि मुविराहि

द समथो वि ॥ नं दोवि ॥ अणिग्गाहिया

॥ करंनि रागो ॥ य दोसो ॥ अ ॥ १२६ ॥

अर्थ ॥१॥ अतिशय करिने ॥२॥ विराध्यो एटले

माड्यो एहवो ॥३॥ समर्थ एहवो ॥४॥ पण ॥५॥ श

अनर्थ प्रते ॥७॥ नहिज ॥८॥ करे ॥९॥ न निग्रह

टले न रोकेला एहवा ॥१०॥ वे जण पण ॥११॥

र्थ प्रते ॥१२॥ करेछे ते वे कोण ॥१३॥ एक तो रा

यली ॥१४॥ बीजो द्वेष एतावता एटले आ के

न्युं कहुं ते केहेछे वीराघना करयो एहवो ॥

नवनु मरण आपेछे अने राग द्वेशतो अनंता ज  
नरा अने मरण प्रते आपेछे ते माटे रांग द्वेष त्या  
जोग्यछे॥१६॥पाद पूर्णे॥१२६॥

हलोए<sup>१</sup>आयासं<sup>२</sup>अजसं<sup>३</sup>करंति<sup>४</sup>गुणविणासं<sup>५</sup>च<sup>६</sup>॥

सवंति<sup>१</sup>परलोए<sup>२</sup>॥सारीरनणे<sup>३</sup>गएदुखे<sup>४</sup>॥१२७॥

र्थ॥१॥आ॥२॥लोकने विशे राग द्वेषजेते॥३॥शरिर

मन संबंधि क्लेश प्रतेअने॥४॥अपजस प्रतेअने॥५॥

॥६॥ज्ञानदर्शनचारित्रादिकगुणोनोविनाश प्रते॥७॥

छे॥८॥पर लोकने विशे॥९॥सरीर अने मन संबंधि

॥दुःखो प्रते॥१०॥उत्पन्न करेछे ते माटे राग द्वेष

र्थनाज करनारछे॥१२७॥

डो<sup>१</sup>अहो<sup>२</sup>अकब्जं<sup>३</sup>जं<sup>४</sup>जाणतो<sup>५</sup>वि<sup>६</sup>रागदोसेहिं<sup>७</sup>॥फल<sup>८</sup>

इलं<sup>९</sup>कडुअरसं<sup>१०</sup>॥तं<sup>११</sup>चेव<sup>१२</sup>निसेवए<sup>१३</sup>नीवो<sup>१४</sup>॥१२८॥

र्थ॥१॥अहो इति आश्चर्जनी वारताछे ॥२॥आ जी

द्विकार द्विकार पडो॥३॥जे कारण माटे॥४॥राग

करिने उत्पन्न थयुं एहवुं जे॥५॥अकार्ज प्रते अने व

॥६॥अतुलएटलेविस्तारवंतएहवुं अने॥७॥कडवो

छेजेहनो एहवुं॥८॥राग द्वेषनुं जे फल ते प्रते॥९॥

गतो सतो॥१०॥पण॥११॥॥१२॥तेहिज राग द्वेषनु

फल जे अकार्ज ते प्रते अमृत रसनी ॥ १८ ॥  
 संसारी जीव जे ते ॥ १९ ॥ अतिशये करिने सेवे  
 टे आ जीवने द्वीकार द्वीकार पडो ॥ २० ॥

को १ दुखं १ पाविष्ठा ॥ कस्म १ वि १ सुखेहि १ वि

द्विउ १ हुब्जा १ ॥ को १ १ न १ वि १ छभिज्ञ १

मुखं १ ॥ रागदोषा १ न १ न १ हुब्जा १ ॥ २ १ १ ॥

अर्थ ॥ १ ॥ जो ॥ २ ॥ राग द्वेष जे ते ॥ ३ ॥ नही ॥ ४ ॥

कोण पुरुषा ॥ ५ ॥ दुख प्रते ॥ ६ ॥ पांमत अपितु कोइ

मत ॥ ७ ॥ कोण पुरुषने ॥ ८ ॥ निश्चे ॥ ९ ॥ सुखे करिने

आश्चर्य ॥ १० ॥ थात ॥ ११ ॥ कोण पुरुषा ॥ १२ ॥

हिज ॥ १३ ॥ मोक्ष प्रते ॥ १४ ॥ पांमत ॥ १५ ॥

माणी १ गुरुपाडिणीउ १ ॥ अणधभरिउ १ अमगचारिय १ ॥

मोहं १ किलेसनाळं १ ॥ सो १ खाइ १ नहेव १ गोसालो १ ॥ १६ ॥

अर्थ ॥ १ ॥ जे शिष्य अहंकारी ॥ २ ॥ गुरुनो प्रत्यंत

टले गुरुनो अर्णवाद बोलनारो एहवो ॥ ३ ॥

स्वजावे करिने अनर्थनो नरेलो ॥ ४ ॥ उत्सूत्रनी प्र

रूप उन्मार्गने विशे चालनारो एहवोछे ॥ ५ ॥

॥ ६ ॥ फोगट एटले निष्फला ॥ ७ ॥ मस्तक मुढाव

करवो, भुंइ सुइ रेहेवुं, वीहार करवो इत्यादिक

समुह प्रते ॥८॥ जोगवेछे ॥९॥ जेना ॥१०॥ गोशालो  
ट छेश सहन करतो हवो तेना ॥१३०॥

हलहणकोहणसीलो ॥ भंडणसीलो ॥ विवायसीलो ॥ य ॥

जीवो ॥ निचुडनालिठ ॥ निरथयं ॥ संनमं ॥ चरइ ॥ १३१ ॥

॥१॥ वुम पाडवी क्रोध ते वुम पाडवानो तथा क्रो

करवानोछे स्वभाव ते जेहनो एहवो ॥२॥ लाकडी मु

यादिके करीने जुद्ध करवानो स्वभावछे जेहनो ए

॥३॥ वचने करीने विवाद करवानो स्वभावछे जेह

हवो ॥४॥ वली ॥५॥ निरंतर क्रोधहूपि अग्निye क

लेलो एहवो जे ॥६॥ जीवा ॥७॥ संजम प्रते ॥८॥

॥९॥ आचरेछे ए कारण माटे क्रोध त्याग करीने

॥ अंगीकार करवुं केमजे क्रोधयकी चारित्र नास

॥१३१॥

वपदवो ॥ वपं ॥ दवदवस्स ॥ नालिठ ॥ खणेण ॥ निदहइ ॥

कलायसरिणउ ॥ जीवो ॥ तपसंनमं ॥ दहइ ॥ १३२ ॥

॥१॥ जेना ॥२॥ धोडिसि वेजामां ॥३॥ देदिप्यमांन

एहवो ॥४॥ वनधकी उग्यो एहवो जे दावानल ते

॥५॥ वन प्रते ॥६॥ शीघ्र एटले जलदी ॥७॥ अतिश

रीने बालेछे ॥८॥ ए प्रकारें ॥९॥ कयाए करिने सहित



एहवो जे॥१०॥जीवा॥११॥तप संजम प्रतो॥११  
 तेमाटे समता एहिज चारित्र धर्मनू मूल जाणवो  
 परिणामवसेण पुणो॥१॥अहिउ॥ऊणयरउव॥हुन्न॥खउ॥  
 हवि॥ववहारमिच्छेण॥१॥भन्नइ॥इमं॥जहा॥थूळं॥१॥१३३  
 अर्थ॥१॥वली॥२॥तिव्रमंद अथ्यवसायना व  
 ने एटले तीव्रकपायना परिणामे करीने अने मं  
 ना प्रणामे करीने॥३॥अधिक एहवो॥४॥अतिश  
 टले ओछो एहवो॥५॥तपसंजमनो नारा जेतो  
 छे एटले निश्चय नय मते करीने जेवा जेवा क  
 परिणाम थायछे ते ते प्रमाणे तपसंजमनो क्षय  
 एटले आकरो कपाय थाय तो तपसंजमनो  
 थाय अने थोडो कपाय थाय तो थोडो त  
 क्षय थाय ए रहस्या॥७॥तोय पण॥८॥व्यवहार  
 रीने॥९॥जेमा॥१०॥आ तपसंजमनो क्षया॥११॥  
 होयछे तेमा॥१२॥कहिचे छीचे एटले व्यवहारमा  
 ये कदिने तपसंजमनो क्षय थायछे एम सामान्य  
 रे केहेवमां आवेछो॥१३॥

फरुसवयाणेण दिणतवं॥अहिखावंतो॥हणइ॥मासतवं॥  
 सतवं॥सवइमाणो॥१॥हणइ॥हणंतो॥अ॥सामन्नं॥१॥१३

॥१॥कठोर वचन बोलवें करीने॥२॥एक दिवसना  
ते नाश करेछे॥३॥अतिशये क्रोधे करिने लोकोना  
कुलना मरम प्रते बोलतो सतो॥४॥एक मासना  
ते॥५॥क्षय करेछे॥६॥सराप देतो सतो एटले  
असुभ थइ जाओ एमबोलतो सतो॥७॥एक व  
तप प्रते॥८॥नाश करेछे॥९॥वली॥१०॥लाकडी  
दीके करीने परजीवनो घात करतो सतो॥११॥  
गणा प्रते नास करेछे. आ सर्व व्यवहारीक वचन  
वा॥१३१॥

१जीविअं १निकितइ १हंनूण १य संजमं ८मलं १चिणइ ११  
वो १पनायवहुलो १परिभमइ १नेण संसारे १॥१३५॥

॥१॥हवे प्रमादनु निर्गुणपणुंकेहेछे॥२॥प्रमाद छे  
ते जेने एटले प्रमादने वस्य पडेलो एहवो॥३॥एह  
वि जेते॥४॥प्रमादे करीने॥५॥संसारने विशेष॥६॥  
प्रमण करेछे॥७॥वली ते जीवि शुं करेछे॥८॥सत्तर  
रे संजम प्रते॥९॥नाश करिने॥१०॥पापकर्म प्रते  
॥एकठुं करेछे एटले पुष्ट करेछे वली॥१२॥संजम  
त प्रते॥१३॥छेदन करेछे माटे प्रमाद त्याग कर  
श्रेयछे॥१३५॥

अक्रोशतद्वनतादणअवमाणहीलणाउ १ य १ मुणियो १  
मुणियं परभवा १ ॥ दढप्पहारि १ विसहंति ॥ १ ३ ६ ॥

अर्थ ॥ १ ॥ जाण्या छे परभव ते जेमणे एहवा ॥ २ ॥  
महाराज जे ते ॥ ३ ॥ आक्रोश एटले सरापनुं देवुं, त १  
ले निर्भृसानुं करवुं, ता ६ ॥ एटले लाकडे दिके  
कुटवुं, अपमान एटले अनादरपणु, हीलना १ ६  
त्यादीकनुं उघाडवुं एटलां वानां प्रते ॥ ४ ॥ क्षमां  
ने सहन करछे ॥ ५ ॥ निश्चे ॥ ६ ॥ द्रढ प्रहारीनी १ ०  
ले जेम द्रढ प्रहारी जे तेणे क्षमाये करीने स  
रयुं तेम बीजा प्राणीओये पण सहन करवुं ॥

अह १ माहउ १ तिधनय १ पडिहणंति १ ॥ ४ ॥ १ ६ ॥

॥ मारिद्वंतावि १ ॥ नद ॥ १ ॥ ४ ॥

अर्थ ॥ १ ॥ मुनिरा

मारयो एटले

पण ते मारनार

निराज महाराज

रुप प्रते

कोइके मारवः

सहन व

ल साधु जे तैणे समताए करीने जेम कष्टप्रते  
करचुं तेम बीजाए पण सहन करवुंए अर्थ॥१३७॥

गमुहकोदंडा ५॥ वयण सरापुव्वकम्मनिम्माया ५॥

१३७ ते ३ न २ ल ग गा ० ॥ खंति फलियं व हं ता णं १ ॥ १३८ ॥

॥१॥ क्षमारूपी वकतर धारण करता एहवा ॥२॥

मुनीराज जे तेमने ॥३॥ ते ॥४॥ प्रथम कर्म करीने नि

करेला एहवा ॥५॥ दुर्जनना मुखरूप धनूषथकी नी

॥ एहवां वचनरूपी वांण ॥६॥ नही ॥७॥ लाग्यां १३८

१३८ ॥ २ ह उ ३ की वो १ ॥ प थ रं ४ ड कु ५ मि च्छ ई ५ ॥

१३९ ॥ १ उ २ सरं ३ प ष ४ ॥ सरुपत्ति १ ० वि म ग इ १ १ ॥ १३९ ॥

॥१॥ कुतरो जे ते ॥२॥ पथराए करीने ॥३॥ मारयो

॥४॥ पथरा प्रते ॥५॥ करडवाने ॥६॥ इच्छेछे अने ॥७॥

जे ते ॥८॥ वांण प्रते ॥९॥ पांमीने ॥१०॥ वांणनी उतप

ते ॥११॥ विचारेछे के आ वांण क्यांथी आव्युं तेमज

मुनीराज जे ते पण दुर वचनरूप वांण पांमीने मारे

कर्म करीने उपार्जन करे लो एहवो आवचननो प्रहार

घातछे ए प्रकारे विचारेछे पण वचनना बोलनार

द्वेष नथी करता ए मुनीनु लक्षण जाणवुं ॥१३९॥

तह १ पु वि २ कि ३ न ४ क य ५ ॥ न १ ० वा ह र १ १ जे ण १

मे०समथो०वि०॥इण्हि०२किं०३कस्स०४वि०६

कुप्पिमु०५स्ति०७॥धीरा०८अणुप्पिच्छा०९॥१४०॥

अर्थ॥१॥हे जिव तें ते प्रकारे॥२॥पूर्व जवने॥  
 क्येम सुकृत॥३॥नही॥४॥करयुं॥५॥जे सुकृतवडे  
 ॥६॥मने॥७॥समर्थ एहवोय॥८॥पणा॥९॥नही॥  
 पीड्या करत एटले हे जीव जो पूर्व जवने विपे  
 करयुं होततो तने कोण पीडत ए जावा॥१०॥हमणं  
 आस्युं अने॥११॥१५॥कोनि उपरा॥१६॥कोप  
 ॥१७॥ए प्रकारे॥१८॥धीर पुरुषा॥१९॥विचारते  
 पूर्वे करेलां कर्म उदय आवेछे ते बखते परती  
 कोप करवो ते फोगट छे एम विचारीने कोप  
 करता ए रहस्य. ॥१४०॥

अणुराएण०बइस्सवि०॥सियायवत्तं०पिया०धरावेइ०॥

तहवि०अ०खंडकुमारो०॥न०बंधुपासेहिं०पडिबधो०॥१०॥

अर्थ॥१॥जति थएलो एहवो पोतानो पुत्र तेनी  
 रा॥२॥पुत्रपणाना अनुरागे करीने एटले स्नेहे  
 ॥३॥पिता जेते॥४॥सपेत छत्र प्रते॥५॥पोताना से  
 नी पासे धरावे छे॥६॥तोयपणा॥७॥खंधक कुमारा  
 मुनी जे ते एहवो पोताना पीतानो स्नेह सते

व रूप पासलाये करिने ॥१५॥ नहिर ॥१०॥ बंधाया  
नाटे बीजाये पण कुटवना स्नेहने विशे न मुआववुं  
१॥निश्चो॥१४२॥

गुट'गुल्लरो'अइगुन'॥पियमाइअनद्यापयजणसेणेहो'॥

चित्तिइनापगुविलो'॥वत्तो'अइवम्मतिविशे'॥१४२॥

यो॥१॥बहुअने॥२॥तेथकीघणोबहुअने॥३॥तेथकी  
अतिशे'बहुएहवो॥४॥विचारवा मांडयो सतो घह  
एटले अनंत जवनो कारण एहवो॥५॥पितानो,मा  
गो,पुत्रादिकनो अने बल्लभ लोकनो स्नेह जे ते॥६॥  
तेशे'सनस्त प्रकारे धर्मना वांचक पुरुषोये॥७॥त्याग  
यो तेम बीजाये पण त्याग करवो॥१४२॥

अनुनिअरनथापं'॥बंधुनपासेणेइइयरो'होइ'॥

अवगयसंसारसहा'निच्छयापं'संन'हिययं'॥१४३॥

मर्य ॥१॥नथी जाण्या परमार्थ ते जेंमणे एहवा जे पु  
तेनने॥२॥बंधुजननो जे स्नेह तेहनो जे व्यतिकर  
ले संबंध जे तो॥३॥थायछे एटले अज्ञानी जीवोने  
वादिकना स्नेहे करिने बंधाववुं थायछे अने॥४॥जां  
छे संसारना स्वरूपनो निश्चय ते जेंमणे एहवा जे  
गित पुरुषो तेननुं॥५॥इदय एटले मन जेते॥६॥सम्भाव

वालुं होयछे एटले शत्रु मित्र उपर सरखुं होयछे ॥१॥

माया १पिया २य ३भाया ५॥ भङ्गा ६पुत्ता ७सुहीय ८नियगा ९॥  
इह १चेव २३ बहुविहाए २२॥ करंति २३ भयवेमणस्साए २२॥ २३

अर्थ ॥१॥ आ संसारने विपे ॥२॥ माता ॥ ३॥ पिता  
वली ॥ ५॥ भाइ ॥ ६॥ स्त्री ॥ ७॥ पुत्र ॥ ८॥ मित्र ॥ ९॥ वली  
पोताना संबंधी ए सर्व ॥ ११॥ बहु प्रकारना ॥ १२॥  
णादिक भय, अने मन संबंधी दुख प्रते ॥ १३॥  
आगलि गाथाये करीने केहेछे ॥ १४॥ निश्चे ॥ १५॥

माया १नियगमइविगप्पियंमि ॥ अथे २य १० पूरमाणंमि ३॥

पूत्तस्स ३कुणइ ६वसणं ५॥ चुलणी ९बह ७वंभदत्तस्स ४१॥

अर्थ ॥१॥ माता जे ते ॥२॥ पोतानि मतिये क  
चारयो एहवो जे अर्थ एटले कारज ॥३॥ अपू  
सते एटले मने करीने चितव्युं एहवुं जे  
निप्पन्न थए सते ॥४॥ पोताना पुत्रने ॥५॥ कष्टप्र  
रेछे एटले कष्ट प्रते पमाडे छे ॥७॥ जेम ॥८॥ ब्रह  
कवर्त्तिने ॥९॥ चुलणीनामा माता जे ते अर्थ  
ती हवी ॥१०॥ वली आगली गाथा मध्ये पि  
वंय जणावेछे ॥१४५॥

सवंगोवंगावेगत्तणाओ १॥ नगडणावेहेडणाउ २अ ३॥ अ

सी १२ रज्जनातिसिउ १ ॥ पुंत्तौण ५ पिया २ कणयकेउ ३ ॥ १४६ ॥  
 र्थ ॥ १ ॥ राजनी तृष्णा वाली एहवो ॥ २ ॥ पिता ॥ ३ ॥  
 क केतुराजा जे ते ॥ ४ ॥ पोताना पुत्रोना ॥ ५ ॥ सर्व अं  
 पांगनुं छेदन करतो हवो ॥ ६ ॥ वली ॥ ७ ॥ कदर्थनाओ  
 अने नाना प्रकारनी पीडाओ प्रते ॥ ८ ॥ करतो हवो  
 नीश्रे ते माटे मातापितादिकनो जे स्नेह ते कृत्रि  
 एटले स्वार्थ सरे त्यांसुधी जाणवो ॥ १४६ ॥

सयसुहरागवसउ ५ ॥ घोरो २ भाया ५ वि ५ भायरं ५ हणइ ५ ॥  
 तहविउ ५ वहथं ३ ॥ जह ५ वाहुवलस्स १ ५ भरहवइ १ ॥ १४७ ॥  
 र्थ ॥ १ ॥ विषयसुखनो राग तेने वस्य थयो सतो एह  
 अने ॥ २ ॥ जयंकरशस्त्र ग्रहणकरयांछे ए हेतु माटे ॥ ३ ॥  
 करवाने अर्थे ॥ ४ ॥ सनमुख आव्यो एहवो ॥ ५ ॥ भाइ  
 ते ॥ ६ ॥ पिण ॥ ७ ॥ जाइ प्रते ॥ ८ ॥ हणेछे एटले मारेछे  
 ॥ जेमा ॥ १० ॥ वाहुवलजिनो वध करवाने अर्थे ॥ ११ ॥  
 तचक्रवर्ति जे ते सन्मुख आव्या ते माटे जाइनो  
 ह पण तेमज कृत्रिम जाणवो ॥ १४७ ॥

ज्जा ३ वि ३ इंद्रियविगार ॥ दोसनडिया २ करेइ ५ पइपावं ५ ॥  
 तह ५ सो ५ एसिराया १ ५ सूरियकंताइ ५ तह ५ वाहिउ १ ५ ॥ १४८ ॥  
 र्थ ॥ १ ॥ इंद्रियोनो जे विकार तेहनो जे दोष तेंणेक







ऋवर्तिये पोताना स्वारथने अर्थे ब्राह्मणनो ॥  
 योनो क्षय करयो तेम बीजाए पण स्वारथने ॥  
 इचलुं वुरुं जोता नथी ए चावा ॥१५१॥

कुलघरानिययसुहेसु<sup>२</sup>अ<sup>३</sup>॥सयणे<sup>४</sup>य<sup>५</sup>ज्ञणे<sup>६</sup>  
 अ<sup>१</sup>०निच्च<sup>७</sup>मुणिवसहा<sup>८</sup>॥विहरंति<sup>९</sup>अणिस्सा  
 ए॥॥जह<sup>११</sup>अज्ञमहागिरि<sup>१२</sup>भयवं<sup>१३</sup>॥१५२॥

अर्थ ॥१॥महंत मुनि महाराज जे ते ॥२॥कुटुंब  
 ताना संबंधि गांम देशथकी उत्पन्न थयुं जे  
 लांती मध्ये ॥३॥वली ॥४॥बंधु वर्गनी मध्ये ॥  
 ॥६॥सामान्य लोकनी मध्ये ॥७॥निश्रा रहित  
 कोइना पण आलंबन विना ॥८॥निरंतरा ॥९॥वि  
 टले विहार करेछे ॥१०॥नीश्रे ॥११॥जेमा ॥१२॥  
 त एहवा ॥१३॥आर्जमाहागिरिनामा आचारज  
 विनाविचरता हवा तेम विजाए पण एम विच  
 स्वेण<sup>२</sup>सूत्रेण<sup>३</sup>य<sup>५</sup>॥कञ्जाहिं<sup>४</sup>सुहेहिं<sup>५</sup>वरसिरि<sup>६</sup>य<sup>७</sup>॥  
 सुभंति<sup>१०</sup>सुविहिया<sup>११</sup>निदरसणं<sup>१२</sup>जंजूनामत्ति<sup>१३</sup>॥१५॥  
 अर्थ ॥१॥सुविहित मुनिराज महाराज जे ते ॥२॥  
 रिने ॥३॥जवांनीपणे करीने गुणवांन एहवी ॥४॥  
 श्रोए करीने ॥५॥वली ॥६॥संसारिक शुखे का

शानं लक्ष्मीं करीने ॥ ८ ॥ वली ॥ ९ ॥ नहीज ॥ १ ॥ लो  
य एटले लोचन प्रते न पांमे ॥ १ ॥ इहां जंबूकुमार  
मा महा मुनिनुं ए प्रकारे ॥ २ ॥ द्रष्टांत जाणवुं एटले  
जंबूकुमारनामा मुनी जे ते कन्यादीके करीने न लो  
या तेम बीजाय जे मुनीछे तेन लोचनाय ए जावा ॥ २ ॥ ५३ ॥

उत्तमकुलपमूया १ ॥ रायकुलवाडिसगा २ ॥ वि ३ ॥ मुनिवसहा ४ ॥

महुजणज्ञइसंघट्टं ५ ॥ मेहकुमारुव ६ ॥ विसहंति ७ ॥ १५४ ॥

प्रथं ॥ १ ॥ उत्तम कुलने विपे उत्पन्न थएला एहवा ॥ २ ॥

उत्तम कुलने विपे मुगट समान एहवा ॥ ३ ॥ पिणा ॥ ४ ॥ मुनि

निमध्ये श्रेष्ठ एहवा मुनिराज जे ते ॥ ५ ॥ न्यारा न्या

कुलमां उत्पन्न थया एहवा घणा जतीजन एटले

धुजन तेमनु संघट्टं एटले पगनी ठोकरनु वागवुंते

॥ ६ ॥ विशेषे करीने समता सहित सहन करेछे ॥ ७ ॥

कुमारनी पठमा ॥ १५४ ॥

अवरुपरसंज्ञाहं १ ॥ सुखं २ ॥ तुच्छं ३ ॥ सरीरपीडा ४ ॥ य ५ ॥ सारण ६

सारण ७ ॥ चोयण ८ ॥ गुरुजण आयत्तया ९ ॥ य १० ॥ गणे ११ ॥ १५५ ॥

प्रथं ॥ १ ॥ गच्छने विपे वस्तो एहवो जे साधु तेहने घ

गुण निरुपन्न थायछे ते कहिएछिए ॥ २ ॥ पररुपर ए

मां होमां हि संघट्टन एटले मिलवुं थाय ॥ ३ ॥ पोता

नी इच्छा परमाणे प्रवर्तवा रूप सुख जे ते  
 एहवुं थाय एटले इंद्रिय जनित सुख घणुज  
 या॥५॥वली॥६॥परीसहादीकनु सहन करवुं ॥  
 जारी आपवुं थाय एटले आ कांम तें न करवुं  
 ते संजारी आपवुं थाय॥८॥प्रमाद थकी ॥९॥  
 ॥९॥धर्म कारजने विपे प्रेरवुं थाय॥१०॥वली॥  
 रु महाराजने आधिनपणु थाय एटले गुरु  
 आज्ञामां रेहेवुं थाय पूर्वे कहरां एटलां वांनां  
 मुनियोना समुदायरूप गच्छने विपे वसनार  
 थायछे ते माटे जिन आज्ञा सहित गच्छने विपे वसवुं

इकस्स<sup>१</sup>कओ<sup>२</sup>धम्मो<sup>३</sup>॥सच्छंदगइंमइप्पयारस्स<sup>४</sup>॥किं  
 वा<sup>५</sup>करेइ<sup>६</sup>इको<sup>७</sup>॥परिहरउं<sup>८</sup>१कह<sup>९</sup>०मकब्बं<sup>१०</sup>वा<sup>११</sup>१५

अर्थ॥१॥स्वछंदपणे करीने गति एटले चालवुं  
 पेछे बुद्धिनो प्रचार ते जेंनो एटले स्वछंदपणे  
 रो एहवो अने॥२॥सुविहित मुनिना गच्छने छो  
 कलो रेहेतो एहवो जे साधु तेने॥३॥क्यांथकी  
 होय अपीतु न होया॥५॥अथवा॥६॥एकलो सा  
 स्युं तपादिक प्रते॥८॥करे अपितु न करे ॥९॥  
 ॥१०॥सिरिते॥११॥अकार्जप्रते॥१२



फरती एहवीजे प्रमदाओ एटले स्त्रीयो ते रूप जना  
 लोक एटले स्त्री लोकते थकी एटले फरतो एहवो  
 कथकी ॥५॥ निरंतर जय होय एटले उपघात होत  
 अकार्ज प्रते ॥७॥ करवानुछे मन ते जे हनुं एहवो ते  
 पिण ॥९॥ घणा साधुओनी मध्ये रेहेतो सतो ॥१०॥  
 ज करवाने ॥११॥ नही ॥१२॥ सामर्थ थाय एटले  
 न करी शके ए माटे स्थीवर कल्पीने गछमां रेहेतुं

उच्चारपासवणवंतपित्तं ॥ मुच्छा इमोहिओ इको ॥

यणविहथो ॥ निखिखवइ ॥ कुणइ ॥ उदाहं ॥ १५५

अर्थ ॥१॥ ठंडील एटले वडीनीत, लघुनीत, व  
 मुर्छादिके करिने मुझायो एहवो ॥२॥ ॥ ॥  
 जे जाजनातेणे करीने व्यग्रछे हाथते जेहनो  
 एणीए करीने जरेलुं एहवुं जे जाजन तेणे करिने  
 छे हाथ ते जेहनो एहवो ॥३॥ एकलो साधु  
 दिकने विशेष फरतो सतो ॥४॥ ते पात्र प्रते नाखी  
 हायमांथी पडीजाय त्यारे संजमविर वनाप्रते  
 अने ते पात्र पड्यापछी जो ठंडीलादिक करतो  
 शासननी लघुता थाय ते कारण माटे एकला  
 घणाजदोप निप्पन्न थायछे ते माटे एकला न रे

कदिवसेण बहुया ३॥ सुहाय्य असुहाय्य जीवपरिणामा ३॥

को असुहपरिणओ १॥ चइडन १२ आलंबणं १० लब्धुं ११ ॥ १६० ॥

र्थ ॥ १॥ एक दिवसनी मध्ये ॥ २॥ जीवना परिणाम

ले अद्यवसायना स्थानक ॥ ३॥ घणां ॥ ४॥ शुभ एटले

मा ॥ ५॥ वली ॥ ६॥ अशुभ एटले मध्यम थायछे ॥ ७॥

घि ॥ ८॥ अशुभ परिणामे करीने सहित एटले अशु

परिणामने विषे वर्ततो सतो एहवो जे ॥ ९॥ एकलो

धु ॥ १०॥ आलंबण एटले कारण प्रते ॥ ११॥ पांसीने

२॥ संजम प्रते त्याग करेछे एटले एकलो साधु कां

वाहानुं काढीने संजम प्रते वीराधे छे ॥ १६० ॥

हाजिणपडिकुडं १॥ अणवथा २ थेरकप्पभेउ ३ अ ३॥

को अ १० मुहाउत्तोवि १॥ हणइ १२ तवसंजम अइरा ११ ॥ १६१ ॥

काकिपणुं सर्व तिर्थकर महाराजाये निपेध कहयुंछे ते

एकाकि विहार करये सते ॥ २॥ अनवस्था एटले एके

धुं देपीने बीजो पण करे बीजानु देखीनेत्रीजो पण

एवी रीते मर्जादानो जंग थाय ॥ ३॥ वली ॥ ४॥ स्थवीर

पनो जेद थाय एटले गच्छवासी साधुओना आचार

नाश थाया ॥ ५॥ जो पिण गुन अद्यवसाय सहित एह

र पिण ॥ ६॥ एकलो साधु ॥ ७॥ शीघ्र एटले थोडा का



थएला एहवा जे तेंमणे ॥ ४ ॥ जयंकर  
 सार समुद्रने विपे परिभ्रमण करतो एहवो  
 कुगुरु एटले पूर्वजवना अंगारमर्दक आष  
 व एहवो ॥६॥ भारे करिने जरेलो एहवो ॥  
 लो ॥ ८ ॥ देख्यो अने देख्या पछी मुकाव्यो ॥

संसारवेचना १ नवि २ गणंति ३ ॥ संसारसूत्रा १ नीवा १ ॥  
 सुमिणगण १ वि २ केई ३ ॥ बुझंती १ पुष्कूला १ ० वा १ ॥ १ ॥

अर्थ ॥ १ ॥ संसारने विशे भुंडसरीआ समान  
 संसारने विशे पांच इंद्रियोना विषय तेने वि  
 आशक्त एहवा ॥ २ ॥ जे जीव ते जेतो ॥ ३ ॥ संसारने  
 विषयना जोगे करिने जे ठगावुं ते . ते ४ ॥  
 गणता एटले विषय एज सार गणेछे ५ ॥ ए  
 णता जे पूर्वजवनुं वांधेलु जे पुन्य ते हारि ज  
 ॥ ६ ॥ केटला एक हलुआ कर्मि जे जीव ते जे  
 स्वप्नने विशे पाम्यु एटले देख्युं एहवुं जे न  
 कनु स्वरूप तेणे करिने ॥ ८ ॥ पण ॥ ९ ॥ बुझेछे  
 तिबोध प्रते पामेछे कोनी पठमा ॥ १ ० ॥ पुष्पचु  
 ॥ १ १ ॥ जेम एटले जेम पुष्पचुलानामे राणी  
 ध्ये नारकादिक स्वरूप प्रते देखीने प्रतिबोध

म बीजाय पण उत्तम प्राणियो थोडाशा वैराग्य  
रणे करीने प्रतिबोध पांमेछे ए उपदेश॥१७०॥

प्रविकलं तव संयमं च ११॥ साहू १ कारिज्ञ १ पच्छावि ३॥

यसु अत्र १२ सो नियग ॥ मट्ट २ माचिरेण १ साहेइ १०॥ १७१॥

॥१॥ जे ॥ २॥ साधू ॥ ३॥ अंतकालने विशे पणा ॥ ४॥ सं

एहवा ॥ ५॥ तप संयम प्रते-तप ते वार प्रकारे, सं

सतर प्रकारे ॥ ६॥ करे एटले पाले ॥ ७॥ ते साधू

पोताना अर्थ प्रते एटले परलोकना साधन प्रते

तोडा कालमां ॥ १०॥ साधेछे ॥ ११॥ निश्चे कोनी पठ

॥ अणिका पुत्र आचारजनी पठेमा ॥ १७१॥

१०१ चयइ १ भोए ३॥ चयइ २ नहा १ दुखिखड ३ ति १ अलिय १०

चेकणकम्मोलित्तो ११ न १ इमो १ इमो १ परिचयई १ १२ ७२

॥ १॥ जेमा ॥ २॥ दुखि पुरुप जे ते ॥ ३॥ नोगो प्रते ॥ ४॥

करेछे ॥ ५॥ तेम सुखि पुरुप जे ते नोगो प्रते ॥ ६॥

॥ ७॥ त्याग करतो ॥ ८॥ ए प्रकारे लोक बोलेछे ते

आ लोकनु वचना ॥ १०॥ जुठुंछे केम जुठुंछे ते केहेछे

चिकणा कर्मे करिने व्याप्त एहवो ॥ १२॥ आ दुखि

जे ते भोगो प्रते ॥ १३॥ नथी ॥ १४॥ त्याग करतो

॥ चिकणा कर्मे करीने सहित एहवो आ सुखि पु

रूप जे ते भोगो प्रते नथि त्याग करतो ए का  
 टे हलुआ कर्मिजे जीव दुखि होय अथवा सुखि हो  
 ये पण भोगो प्रते त्याग करवाने समर्थ थायछे॥१॥

जह<sup>१</sup>चयइ<sup>२</sup>चक्रवर्ती<sup>३</sup>॥पविथरं<sup>४</sup>तत्तियं<sup>५</sup>मुहुत्तेण<sup>६</sup>॥न<sup>७</sup>  
 चयइ<sup>१</sup>तहा<sup>२</sup>अहन्नो<sup>३</sup>॥दुबुद्धी<sup>४</sup>खण्णरं<sup>५</sup>दुमगड<sup>६</sup>॥२॥  
 अर्थ॥१॥जेम एटले जे प्रकारे॥२॥चक्रवर्ति जे  
 मुहुत्त मात्रमां एटले क्षण मात्रमां॥४॥तेटलि  
 समस्त एहवि॥५॥विस्तारवंत एहवि जे लक्ष्मी  
 ते॥६॥त्याग करेछे॥७॥तेम एटले ते प्रकारे॥८॥  
 एटले पून्य रहित एहवों॥९॥दुबुद्धी एटले माट  
 वालो एहवो॥१०॥दुमक एटले नीक्षु जे ते॥११॥  
 रं प्रते एटले पोताना खावाना ठीकरा प्रते॥१२॥  
 थी॥१३॥त्याग करता नीवीड कर्म करीने सह  
 हेतु माटे॥१७३॥

देहो<sup>१</sup>पिपीलियाहिं<sup>२</sup>॥चिल्लाइपुत्तस्स<sup>३</sup>ना<sup>४</sup>चालणिव<sup>५</sup>कओ<sup>६</sup>  
 तगुओवि<sup>७</sup>मणपडसो<sup>८</sup>॥न<sup>९</sup>चालिउ<sup>१०</sup>तेण<sup>११</sup>ताणुवारं<sup>१२</sup>॥  
 अर्थ॥१॥किडियो जे तेमणियोए एटले किडि  
 चिल्लाति पुत्र नामे महामुनि जे तेमनु॥३॥शरीर  
 ॥४॥जावत्॥५॥चालणिनी पठम एटले चालणि

तो॥७॥तोंएपण ते चेलाति पुत्र जे तेंणे॥८॥ते  
 ति उपर ॥९॥ थोडोय पण॥१०॥ मनने विशे  
 ते अंप्रीति मात्र पण॥११॥न॥१२॥चलाव्यो ए  
 उत्पन्न करयो॥१७४॥

धविःपावं१॥पिविलियाए५वि१०जे१न८इच्छंति१॥ते११  
 इ३अपाव२॥पावाइं१५करंति१५अन्नस्व१३॥१७५॥  
 १॥जे॥२॥पाप कमें करीने रहीत एहवा॥३॥सा  
 तज जे ते॥४॥पोताना प्राणनी नाश थये सते  
 ॥६॥किडियोनी उपर ॥७॥ पापकर्म प्रते॥८॥  
 ।वांछे एटले ते कीडियोनुं पण माठुं न इच्छे  
 श्रे॥११॥ते साधु मुनिराज जे ते॥१२॥ क्यम  
 वेजानि उपरा॥१४॥पापकर्म प्रते॥ १५॥करे एट  
 यनि उपर सर्वथा प्रकारे प्रतिकुल नहिज क  
 टे आत्मार्थि पुरुषोये परजीवने पीड्या मात्र  
 नाववी ए उपदेशा॥१७५॥

इअवांडेआणं१॥पाणहराणं१पि५पहरमाणं८॥न१०  
 ११य५पानाइं१॥गवस्व१फलं१वियाणंता३॥१७६॥

॥१॥पापना॥२॥फल एटले नरकादिक रूप वि  
 प्रते॥३॥विशेषे करिनें जाणता सता एहवा सा

अर्थ॥१॥निरंतरा॥२॥ ५ साहत ५ एला अने रा  
 हित एहवो अने॥३॥निरंतरा॥४॥अशुच र  
 एहवो॥५॥जीव जे ते वर्तेछे॥६॥एटलुं विशेष  
 अवकाश॥८॥पमाडिये एटले जो आत्माने  
 किये॥९॥त्यारे॥१०॥संसार समुद्रनी मध्ये  
 रुध तथा आगम वीरुद्ध एहवा कारजोने विप्रे  
 विशय कशायादि रूप प्रमाद प्रते॥११॥माडे  
 रण माटे अनादि कालनो राग द्वेष सहित  
 जीव मोकलो मुक्यो सतो राग द्वेषना कारण  
 ने पोते ते रूप थायछे माटे आत्मार्थी पू  
 अवलंबन सेववूं एज सारछे॥१८६॥

अधियवंदियपूइया।सकारियपणामिउमहग्घविउ'॥

तं'तह'करेइ'जीवो'॥पाडेइ'जह'अण्णो'ठाणं'॥

अर्थ॥१॥सुगंधादिके करीने अरचे लो एहवो अ  
 लोक जे तेंमणे गुणनी स्तवनाए करीने वंदे लोए  
 वे लो एहवो अने वस्त्रादिके करीने पूजे लो एहवो  
 थवे करीने सत्कार करे लो एहवो अने आचारज  
 करीने मोहोटाइपणा अते पमाडे लो एहवो जे  
 अहंकारि थयो सतो॥३॥ते प्रमादादि रूप

॥ते प्रकारे॥५॥करेछे॥६॥जे प्रकारे॥७॥पोतानुं  
 होटाइपणारूप स्थानक प्रते॥९॥नास करेछे ए  
 माटेजे जीवपूजावामनावादिके करिने अहंकारि  
 ते जीव पूज्यपणाना स्थानक प्रते नाश करिने  
 गतिने विशेषे जायछे ते माटे अहंकार न करवो १८७

इयाए १ जो १ बहुफलाए २ हंनूण ३ सुख ४ महिलसइ ८॥

दुच्चलो १ तवस्सी २ कोडीए ३ कांगिणी ४ किणइ १ ५ १२ ८८॥

॥१॥जे पूरुपा २ ॥धीरजे करिने एटले संतोपे क  
 दुर्बल एटले असमर्थ एटले संतोप रहित एहवो  
 तपसी एटले रांक थयो सतो ॥४॥वहुछे स्वर्ग मो  
 रूप फल ते जेमना थकि एहवा ॥५॥जला आचा  
 ने महाव्रतादिक प्रते ॥६॥हणीने एटले लोपिने  
 विषय सुख प्रते ॥८॥वांछेछे ते केवो न्याय करेछे के  
 कोटी मुल्य आपवे करीने ॥१०॥एक रुपियानो ए  
 णि नाग रूप कांगिणी प्रते ॥११॥वेचार्थी लेछे एट  
 रूप महाव्रतादि रूप कोटि मूल्ये करिने विषय  
 रूप कांगिणी प्रते अंगिकार करेछे. विषय सुख  
 महाव्रत तेबेनी मध्ये मोहोटी अंतरछे पण बालने  
 भाववावास्ते आपूर्वे कहुंजे द्रष्टांत ते प्रकारे करेछे

ते मूरख दशानूंकाम आचरेछे माटे श्रेम न  
 जीवो जहामणसियं ॥ हियदाच्छयपच्छिएहिं ॥ मुल्ले  
 तोमेऊण अनतीरइ ॥ जावठजीवेण सवेण ॥ १८९ ॥  
 अर्थ ॥ १ ॥ आ संसारि जीव जे ते ॥ २ ॥ जे प्रका  
 मननेविशे चिंतवन करद्यां एटले मनने अनु  
 अने ॥ ३ ॥ हितकारी एहवां, अने इछेलां एहवां,  
 करेलां एहवां ॥ ४ ॥ सुखोयें करीने अने ॥ समग्रा ॥  
 ए करिने पण एटले निरंतर अनुभव्यां एह  
 मुखे करिने ॥ ७ ॥ संतोष पांमवाने ॥ ८ ॥ नथी ॥ ९ ॥  
 तो एटले सुख प्रते नथी पामतो ॥ १८९ ॥

मुमिणंनराणुभूयं ॥ मुल्लं समडाध्ययं महा नथि ॥  
 एवमिमंनि धरंयं ॥ मुल्लं मुमिणोवमं होइं ॥ १८९ ॥

अर्थ ॥ १ ॥ जेमा ॥ २ ॥ स्वप्नांतरने विग एटले  
 मध्यं अनुभव्यु एटले जोगव्युं एहवुं जे ॥ ३ ॥  
 न्वा ॥ ४ ॥ जाग्या पछी ॥ ५ ॥ नहाय एटले नथी  
 आवतु ॥ ६ ॥ ए प्रकारो ॥ ७ ॥ आ विद्यमान एहवुं  
 मृग्या ॥ ८ ॥ अनिन थयुं सतुं एटले जोगवाइ  
 ॥ ९ ॥ न्वननी उपमा सरिखुं ॥ १० ॥ थायछे एट  
 ल जोगव्युं एहवुं जे सुख ते जोगव्या पछे

होयछे ए कारण माटे ते पुद्गलिक सुखने विशेष  
र न करवो ए जाव॥१९०॥

नेदमणे<sup>३</sup>जखलो<sup>४</sup>॥महुरामंगू<sup>२</sup>तहेवसुयनिहसो<sup>१</sup>॥

इ<sup>५</sup>सुविहियजणं<sup>६</sup>॥विसूरइ<sup>१</sup>वहुं<sup>९</sup>च<sup>७</sup>हियएणं<sup>८</sup>॥१९१॥

॥१॥ते प्रकारेहीज एटले प्रसीद्ध एहवो सिद्धां  
कसोटी एटले बहू श्रुति एहवो॥२॥मथुरा नगरी  
शे मंगु एहवे नामे आचारज रिद्धि गारव रस  
ने विशेषे लंपट थइने तिहांथी काल करीने॥३॥  
ना खालनि सामिपे जक्षना प्रसादने विशेषे॥४॥

धयो सतो॥५॥सुविहीत जन प्रते एटले पोताना  
ना समुह प्रते॥६॥बोध करावेछे एटले जणावेछे॥७॥  
॥८॥हृदये करीने॥९॥बहु प्रकारे॥१०॥मोच करेछे  
पश्चाताप करेछे ते आगलि गाथाए कहेछे१९१

तिण<sup>३</sup>घराओ<sup>२</sup>॥न<sup>५</sup>कड<sup>४</sup>धम्मो<sup>६</sup>मण<sup>७</sup>जिणख्खाओ<sup>८</sup>॥

ससायगुरुत्तणेण<sup>३</sup>॥नय<sup>५</sup>चेइओ<sup>१</sup>अण्णा<sup>८</sup>॥१९२॥

॥१॥में जे तेणे एटले में॥२॥घर थकिा३॥निक  
एटले चारित्र अंगिकार करीने॥४॥रिद्धि एटले  
॥दिकने विशेषे ममत्व जाव,रस एटले मिठा आ  
दिकने विशेषे आशक्तिपणु,साता एटले सुहालि



सज्यादिकने विशेषे आशक्त ए <sup>१</sup>कह्यां ५०  
 सात्ता तेमने विशेषे गुरुपणाए करिने एटले  
 करिने ॥५॥ जिनराज महाराजे कह्यो एहवो ॥२॥  
 ते ॥७॥ नही ॥८॥ करयो अने ॥९॥ पोतानो आत्म  
 नहीज ॥११॥ चैताव्यो एटले सावधान करयो

उसन्नविहारेण ॥ हा १ जह २ झोणंमि ३ आउए ४ सर्वे ॥

किं १ कहामि २ अहन्नो ३ संपद् ४ सोयामि ५ अ ॥

अर्थ ॥१॥ हाइति खेदे ॥२॥ जे प्रकारे ॥३॥ चारि  
 शे शिथिल विहारे करिने एटले सियलपणाए  
 ॥४॥ सर्व ॥५॥ आउखुं ॥६॥ क्षयपणा प्रते पाम्बुं  
 नाश थयुं ॥७॥ हमणां ॥८॥ अधन्य एटले नि  
 हयो सतो हुं ॥९॥ पोताना आत्मा प्रते ॥१०॥  
 रुंजुं जे ॥११॥ हुं स्युं ॥१२॥ करिश एटले माहं  
 शे एहवि रिते मंगुनामा आचारजनो जवि  
 सतो पोताना शिष्योने जणावतो सतो सोव  
 टले पश्चाताप करेछे ते माटे जेम पश्चाताप  
 पडे तेम वत्तयुं ए उपदेश ॥१३॥

हा १ जिव २ पावभामिहि ॥ सि १ नाइ नोणिसयइ २ बहुद्वं  
 भवसयमहस्म ३ दुलहंषि ॥ जिणमयं ४ एरिसं ५ छंभुं ॥ १३॥

॥१॥हा इति खेदे॥२॥हे जीव॥३॥लखो गमे न  
 करीने दुर्लभ एटले दुखे पांमवा जोग्य एहवोय  
 प्रने॥५॥अचिंत्य चिंतामणि तुल्य एहवो अने॥६॥जिन  
 कहेलो एहवो जे धर्म ते प्रते॥७॥पांमीनें ते धर्म  
 आराधवे करीने॥८॥घणा॥९॥एकंद्रियादिक जाति  
 एटले शित उष्णादिक जोनि तेमनां सइकडो  
 वेपे एटले घणि जाति जोनियोने विपे॥१०॥न  
 एटले जिनेंद्र नाखित धर्मने न आराधवे करि  
 जीव तुं च्यार गतिने विपे परिभ्रमण करिश माटे  
 श्वर आपित धर्मने विशे उद्यम करवो एजाव १९४

॥पमायवसउ॥नीवो॥संसारकज्जमुद्गुत्त॥

खोहिं॥न॥नीविन्नो॥सुखखोहिं॥नचेव॥परितुडो॥१॥१९५॥

॥१॥अतिशं करिने पापि एहवो अने॥२॥प्रमादने  
 प्रयो एहवो अने॥३॥संसारना कारजने विशे उद्यम  
 एहवो अने॥४॥दुःखोए करिने॥५॥ना॥६॥खेद पांमेलो  
 एटले जे थकी दुख प्रते पांमेछे तेहीज पाप प्र  
 रेछे ते हेतु माटे॥७॥सुखोए करिने॥८॥नहिज॥९॥  
 प पांमेलो एहवो एटले जे कारण माटे नविन  
 प्रते वांछेछे एहवो॥१०॥आसंसारी जीवछे॥१९५॥

परितपिउण<sup>५</sup>तणुउं<sup>६</sup>॥साहारो<sup>७</sup>जइ<sup>८</sup>घणं<sup>९</sup>न<sup>१०</sup>उअमई<sup>११</sup>  
 सेणियराया<sup>१२</sup>तं<sup>१३</sup>तह<sup>१४</sup>॥परितपंतो<sup>१५</sup>गडं<sup>१६</sup>नरकं<sup>१७</sup>॥  
 अर्थ॥१॥जो तपसंजमने विपे॥२॥अतिशय  
 थी॥६॥चम<sup>१८</sup>ते<sup>१९</sup>प<sup>२०</sup>तापादिक<sup>२१</sup>  
 ॥६॥थोडोसरखो॥७॥आधार थायछे एटले<sup>२२</sup>  
 कर्मनो क्षय थायछे पणघणा कर्मनोक्षयथतो  
 ते कारणमाटे॥९॥तेमजा<sup>२३</sup>श्रेणिक<sup>२४</sup>राजा<sup>२५</sup>जेते  
 पश्चाताप करतो सतो एटले में वीरपणुं न  
 करचुंए प्रकारेशोच करतो सतो॥२॥नरक प्रं  
 नरकने विशे॥१३॥गयो ए कारण माटे जांण  
 हित अथवा जांणपणावाला पूरुपनी निश्रयें  
 तप संजमने विशे उद्यम करवो ए सारछे॥११  
 जीवेण<sup>२६</sup>नाणि<sup>२७</sup>विसज्जियाणि<sup>२८</sup>॥जाइंसएसु<sup>२९</sup>देहाणि<sup>३०</sup>॥  
 धोवेहिं<sup>३१</sup>तउ<sup>३२</sup>सयलंपि<sup>३३</sup>॥तिहुयणं<sup>३४</sup>हुड्ज<sup>३५</sup>पाडिहंधं<sup>३६</sup>॥  
 अर्थ॥१॥जीव जे तेंणे एटले दश प्राण धारण  
 एहवो प्राणी जे तेंणे॥२॥सैइकडो एकंद्रियादि  
 तियोने विपे॥३॥जे॥४॥शरीर॥५॥मुक्यां एटले  
 दोधां॥६॥ते॥७॥थोडाशा शरीरोए करिने पणा  
 स्त॥९॥त्रण भुवना॥१०॥पूरण॥११॥थाय एटले

य तो समस्त शरीरोनु तो गुं केहवुं. एटलां आ  
री जीवे पूर्वे शरीर ग्रहण करीने मुक्यां तोपण शं  
प्रतेन पांम्यो माटे संतोश करवो ए चावा ॥१९७॥

दंतमंसके सट्टिएसु ॥ जीवेण विप्पमुक्केसु ॥

विहविब्जा कइलासमेरुगिरिसान्निभा कूडा ॥१९८॥

थी ॥१॥ जीव जे तेंणे ॥२॥ पूर्व चवोने विशेषे ग्रहण  
करिने मुक्यां एहवां ॥३॥ नख दांत मांस केश हा  
इत्यादिक शरीरना अवयव भूत, ते जो सर्व ए  
करीए तो ॥४॥ ते नख दांत मांस हाडकादिके क  
॥५॥ पण ॥६॥ कइलास पर्वत एटले हिमगिरी प  
सामान्य पर्वत तेमने तुल्य एटले ते सरखा ए  
॥७॥ दगला ॥८॥ थाय एटलां शरीरना अवयव जी  
हण करिने मुक्यां तोपण संतोष न पांम्यो ए का  
माटे शरीरना अवयवोने विपे प्रतिबंध न करवो.

मंदंत मयल मंदर दिवोदहि धरणि सरिसरा सिउ ॥

ही अथरो आहारो ॥ उहि एणा हारिउं हुब्ज ॥१९९॥

थी ॥१॥ भुख्यो थएलो एहवो जे आ जीव तेंणे ॥२॥

विंत पर्वत, मलयाचल पर्वत, मंदर एटले मेरु प  
द्विप एटले असंख्याता, द्वीप उदधि एटले असं

ख्याता समुद्र, धरणि एटले रत्न प्रजादिक  
 थवी तेमना सदृश एटले शरिखा, रासिओ एटले  
 करीए एटले पूर्वे कह्या तेना सरखा ढगला पा  
 ढगलाथकि पण ॥३॥ अतिशे अधिक एटले पा  
 हवो ॥४॥ अशन पानखादिम स्वादिमरूप  
 ॥५॥ नक्षण ॥६॥ करचोछे एटले एक जीव जे  
 ता पुद्गलद्रव्य नक्षण करचांछे तोएपण संतो  
 पांम्यो ते माटे तेने विशे आशक्ति करवी नहिजा

न<sup>४</sup>त्रेण<sup>३</sup> जलं<sup>५</sup> पीयं<sup>५</sup> ॥ धम्मायवत्तगाडेएण तं<sup>५</sup> पिइहं<sup>५</sup> ॥  
 वि<sup>९</sup>अगडत्तलाय<sup>१०</sup> ॥ नइंसमुहेसुनवि<sup>११</sup> हुज्जा<sup>१२</sup> ॥ २००

अर्थ ॥१॥ आ संसारने विशे ॥२॥ त्रिप्परुतु  
 ऋतु तेनो आतप एटले तडको तेंणे करिने  
 एहवो ॥३॥ आ जीव जे तेंणे ॥४॥ जे ॥५॥ पांणी  
 एटले पूर्व जवोने विशे पांन करचुंछे ॥७॥ ते  
 एण जो सर्व एकठुं करिए तोपण ॥८॥ सर्व एह  
 पण ॥९॥ कुवा तलाव नदीयो समुद्र तेमने  
 नहिजा ॥१०॥ होय एटले सर्व कुवादिकनां पांणी  
 जीव पूर्वे अनंतगणु पीधुंछे तोयपण संतोश  
 म्यो माटे संतोश करवो एज सारछे ॥२०॥

योग्यं धनयाच्छिरं ॥ सागरसलिलात् हुञ्जन् बहुयरं ॥

उंचारंमि अणंते ॥ नाऊणं अन्नमत्राणं ॥ २०१ ॥

र्थ ॥ १ ॥ अनंत एटले नथी अंत ते जेहनो एहवा ॥ २ ॥

रने विषेआ जवि जे तेंणे ॥ ३ ॥ न्यारी न्यारी एटले

जुढि ॥ ४ ॥ माताओना ॥ ५ ॥ स्तननू दुधजे ॥ ६ ॥ पूर्वज

विषे पीधुंछे ॥ ७ ॥ ते दूय समुद्रना पांणी धकी ॥ ८ ॥

शें घणुं ॥ ९ ॥ होय एटले समुद्रना पांणी धकी अनं

णुं पीधुंछे ॥ २०१ ॥

१५ ॥ कानभोगा ॥ काल भणंत इहं सउवभोगा ॥ अपुव्वं

१६ ॥ तहवि अनीवो ॥ मणे ॥ सुल्लवं ॥ २०२ ॥

१७ ॥ आसंसारने विज्ञे आजीव जे तेंणे ॥ २ ॥ उपभोग

वारवार जे जोगववामां आवे ते घरेणां वस्त्र प्रमुख

गरिने सहित एहवा ३ ॥ कामभोग जे तो ४ ॥ अनंता ५ ॥

सुयी एटले अनंतिवारा ६ ॥ पांम्याछे एटले जोग

छे ७ ॥ निश्चे ८ ॥ वली ११ ॥ तोय पण १० ॥ आ

जे तो ११ ॥ मनने विशे १२ ॥ विशय धकी उत्प

णुं एहवुं जे सुखते प्रते १३ ॥ अपूर्वनी पठमा १४ ॥

३ ॥ एटले जाणे ॥ पूर्वभोगव्युंज नथी एमजाणेछे २०२

इ ॥ अ ॥ जहा ॥ भोगिहि ॥ संपयास्वमेद ॥ धम्मफलं ॥ तह

विद्वदमूढहिययो ८॥ पावे १० कम्मे ११ जणो १२ मइ १३ ॥ १॥  
 अर्थ ॥ १ ॥ जेम ॥ २ ॥ जोग एटले इंद्रियो थकि  
 थयां जे सुख रिद्धि एटले राज्य लक्ष्मी, धन  
 धन धान्यादिक ए सर्वा ॥ ३ ॥ ४ ॥ धर्मनुं फल छे  
 आ जीव जाणे छे ॥ ६ ॥ निश्चो ॥ ७ ॥ तोये पणा  
 मुढ एटले अज्ञाने करिने ठंकायुं छे हृदय ते जे हृदय  
 जे ॥ ९ ॥ जन एटले लोका ॥ १० ॥ पाप  
 जे ॥ ११ ॥ कर्मतेने विपे ॥ १२ ॥ रमे छे एटले  
 टले पाप कर्म करवाने विशे उच्छाहवंत

जाणिउन्नइ थचित्तिदइ ॥ जम्मजरा मरणसंभवं दुस्सं  
 विसयेसु विरउन्नइ ॥ अहो सुवदो कवडगंठी १ ॥ २ ॥

अर्थ ॥ १ ॥ जन्म एटले अवतरवुं । जरा एटले  
 हांनि । मरण एटले प्राणनो त्याग करवो । ते  
 राने मरण थकी । उत्पन्न थयुं एहवुं जे ॥ २ ॥  
 ॥ ३ ॥ जीव जे तेंणे गुरुना उपदेशे करिने जा  
 ए ॥ ४ ॥ अने मनने विशे विचारीए छीए एटले  
 ते जन्म जरा मरण थकि उत्पन्न थयुं एहवुं जे  
 प्रते गुरु महाराजनो उपदेश सांजलवें करिने  
 अने मनने विपे विचारे छे तोयें पण ॥ ५ ॥ पांच

यथकी॥६॥नयीज॥७॥विराम पांमतो एटले पा  
 ततो॥८॥अहो इति आ मोहटुं अचरिजणे॥८॥  
 अतिशं निवड वांधेलो एहवो अने॥१०॥कपटनी  
 एटले मोहनी गांठ ते कोइपण निवारण कर  
 मर्थ थतो नथी ते मोहकर्मना वशथकि आजी  
 विपयादिकने विपे आशक्त थायछे ते माटे जेम  
 म दूर जाय तेम उद्यम करवो एउपदेश॥२०४॥  
 इ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००  
 ॥१॥जैम एटले जे प्रकारे सर्वलोक॥२॥आउखा  
 य थये सते मरण पामेछे ते प्रकारे॥३॥ आजी  
 ते गुरुना उपदेश थकि जांणेछे॥४॥निश्चे॥५॥न  
 एटले जीवतो एहवोय॥६॥ पण जे पुरुष ते प्र  
 आजरा जे तो॥७॥विनाश करेछे एटले नाश पमा  
 २॥निश्चे॥१०॥तोयपण आलोक जे ते संसारथ  
 १॥नथीज॥१२॥उदवेग पांमतो एटले नय पाम  
 २॥अहो इति आ मोटुं अचरिज ॥१४॥हे नव्य  
 अतिशय निपजावेलु एटले निवड वांधेलुं एहवुं  
 ॥कर्मनुं रहस्य एटले सार प्रत्ये जुवो एटले आ



मोहकर्मनुं माहात्म्य जाणो ए अर्थ ॥२०५॥

दुष्यं च उष्यं ॥ बहुष्यं च अपयं समिद्धं मह्यं ॥  
अणनकणं विं कयंतो ॥ हरइ ॥ हयासो अपरितो ॥

अर्थ ॥ १ ॥ हणीछे एटले नाश करीछे आ  
ए एटले आशा रहित करनारो एहवो ॥ २ ॥  
एटले न थाकेलो एहवो ॥ ३ ॥ कतांत ॥ ४ ॥  
॥ ५ ॥ पगवाला एटले मनुष्यादिक ॥ ६ ॥  
एटले गाय, जेंस, घोडा प्रमुखा ॥ ७ ॥ बहू  
ले भ्रमरादिक ॥ ८ ॥ पग रहित  
दिक ॥ ९ ॥ धनाढ्य एटले धनवंत ॥ १० ॥  
करिने पंडित मुखं सर्वं ग्रहण करवा ॥  
रहित एटले दरिद्र ते पुर्वं कहरा जे सर्वं ते  
अपराध करया विनाया ॥ १३ ॥ पण एटले ते  
न्युनुं कांड दगाड्युं नथी तोये पण ते जीवो  
ण जे तो ॥ १४ ॥ हरेछे एटले मारेछे ॥ २०६ ॥

नयं नवजइ मो दिवसो ॥ मरिपयं वा वमेण मो  
आमाणमाम्दो ॥ न करेइ ॥ जं हियं वसो ॥

अर्थ ॥ १ ॥ तो २ ॥ दिवस एटले मरणानो दि  
नदिना ॥ ३ ॥ जाणिए एटले उदमम्य जीव न





करवा जोग्यछे ए उपदेश॥२०९॥

स्वगहाणंपभवो १॥ महागहो २ स्वदोसपायदो ३ ॥

कामगहो ४ दुर्पा ५ ॥ जेण ६ भिभूयं ७ जगं ८ स्वं ९ ॥ २१० ॥

र्थ ॥ १ ॥ सर्व ग्रहोनो एटले सर्व उनमादोनो प्रभव  
ले उत्तपत्तिछे जेहथकी एटले सर्व उनमादोनो उ  
करनार एहवो अने ॥ २ ॥ मोटो ग्रह एटले मोटो  
राद एहवो अने ॥ ३ ॥ सर्व दोष पर स्त्रि गमनादिक  
नो प्रवर्तावनारो एटले सर्व दोषनो उत्पन्न करना  
एहवो ॥ ४ ॥ दुष्ट आत्मा एटले दुष्ट एहवो ॥ ५ ॥ काम  
ग्रह एटले काम समूद्रने विशे उत्पन्न थयो एहवो  
नो विभ्रमछे ते केवोछे ते केहेछे ॥ ६ ॥ जे काम ग्रह  
तेणे ॥ ७ ॥ सर्व एहवुं ॥ ८ ॥ जगत एटले जगतना रेहे  
ए लोक जाणवा ॥ ९ ॥ पराजव पमाडयोछे एटले सर्व  
गतना लोक काम कंदर्पने वश थयाछे ए कारणमा  
कामरूपिग्रह जे तेज दुःखे त्यागवा जोग्यछे ॥ २१० ॥

१ सेवइ २ किं ३ लहइ ४ थामं ५ हारेइ ६ दुःखलो ७ होइ ९ ॥

वेद १ विमणस्सं २ ॥ दुःखवाणि ३ अ ४ अत्तदोसेणं ५ ॥ २११ ॥

र्थ ॥ १ ॥ जे पुरुषा २ ॥ पोताना दोषे करिने एटले पो  
ना अज्ञाने करिने ॥ ३ ॥ ते काम प्रत्ये सेवेछे ॥ ४ ॥ ते पु

रुप शुं॥५॥फल प्रत्ये पांमेछे ते कहेछे॥६॥ने  
 सेवनारो पुरुष वीरज प्रत्ये॥७॥हारिछे अने॥८॥  
 एटले क्षीण शरीरवालो॥९॥थायछे अने बलि  
 चितनाउदवेग प्रत्ये॥१०॥पामेछे॥११॥बलि॥१२॥  
 एटले खडरोग प्रत्ये पांमेछे॥१३॥

मह<sup>१</sup>कच्छुलो<sup>२</sup>कच्छुं<sup>३</sup>॥कंडुयमाणो<sup>४</sup>दुहं<sup>५</sup>मणइ<sup>६</sup>मुतं<sup>७</sup>॥  
 मोहाउरा<sup>८</sup>मणुस्मा<sup>९</sup>॥तह<sup>१०</sup>कामदुहं<sup>११</sup>सुहं<sup>१२</sup>विनि<sup>१३</sup>॥१४॥  
 अर्थ ॥१॥ जेमा॥२॥खसवालो जे पुरुषा॥३॥  
 ॥४॥नखना अग्रे जागे करीने खणतो सतो॥५॥  
 थपुं जे दुःख ते प्रत्ये॥६॥ मुख एमा॥७॥  
 दुःखने सुख करी जाणोछे॥८॥नेमा॥९॥मोहे कां  
 नुर एटले मोहे करिने गांडा थपला एहवादि  
 मनुष्य जे ते॥१०॥कामरूप दुःख एटले विषय  
 ते रूप दुःख प्रत्ये ॥११॥ सुख करीने ॥१२॥  
 एटले मानेछे॥१३॥

विमयविमं<sup>१</sup>दालादलं<sup>२</sup>॥विमय<sup>३</sup>विमं<sup>४</sup>ठकहं<sup>५</sup>विपंकां<sup>६</sup>॥  
 विमयविमा<sup>७</sup>दचंविनं<sup>८</sup>॥विमयविमविमदया<sup>९</sup>होइ<sup>१०</sup>॥११॥  
 अर्थ ॥१॥दालादल झेहेर एटले तनकाल  
 हयुं॥२॥उग्यल एहयुं॥३॥विष एटले काम

एहवुं॥४॥उत्कृष्ट एटले आकरुं एहवुं॥५॥शब्दा  
 पांच इंद्रियोना विषय ते रूप विष संजम जिवि  
 नाश करनारछे ए हेतु माटे पांच इंद्रियोना वि  
 ष विष कहिए ते विषय रूप विष प्रते॥६॥ पांच  
 एटले विषयने सेवन करता एहवा जे प्राणी  
 ॥७॥अति सेवन करयुं एहवुं विषय रूप विष थकि  
 विषय रूप विष जे तेनि विशुचिका एटले अजि  
 १॥थायछे ते केवि रीते थायछे॥१०॥घणा आहा  
 वा थकी जेम अजीरण थायछे तिम त्वारे विष  
 अजिरण थकि अनंता मरण पांमछे॥२१३॥

स्तु१पंचहिं२आसवेहिं३॥रय४मायणित्तु५अणुसमयं६॥

गद्दुहपेरंतं७॥अणुपरियंत्रंति८॥संसारे९॥२१४॥

यी१॥वली॥२॥आ कहुं अने कहीशुं ए प्रकारे  
 ने॥३॥पांच॥४॥आश्रवे करिने एटले प्राणातिपात  
 वांछि अदत्तादान मैथुन परिग्रहे करिने॥५॥समय  
 व प्रते॥६॥पापकर्म रूप रज प्रते॥७॥ग्रहण करी  
 १॥ चार गतिना दुःखना अंत सुधी एटले ज्यां  
 १॥ च्यार गतिनां जमवे करिने दुःखना अंत आवे  
 सुधी॥१॥संसारने विषे१०परिभ्रमण करेछे॥२१४॥

सबगदपखखंदे १२ ॥ काहिति १२ अणंतए १२ अकदु  
 य २२ सुणांते १२ धम्मं ३ ॥ सो उण १२ य २२ जे १२ पमा १२ कंते १२ ॥

अर्थ ॥ १ ॥ जे ॥ २ ॥ पुन्यानुबंधि पुन्य रहित १२  
 ॥ ३ ॥ दुर्गतिमां पडता जे प्राणि तेने ५ १ ॥ ४ ॥  
 एहवो अने जिनराजे कहेजो एवो जे धर्मते  
 नथी ॥ ५ ॥ सांजलता ॥ ६ ॥ निश्चे ॥ ७ ॥ वली ॥ ८ ॥ जे  
 धर्म सांजलीने पण ॥ १ ० ॥ प्रमाद करेछे एत  
 प्रते श्राचरेछे ते पूरुप ॥ १ १ ॥ अंत रहित एत  
 ने विपे ॥ १ २ ॥ सर्व गतियोने विपे भ्रमण प्रते  
 शे एटले जे प्रमादि पूरुप प्रति श्रोत रूप जे  
 प्रते शुध परुपक पूरुपनी समीपे निरंतर सां  
 ण प्रमाद प्रते नथी छोडताते अनंति वार २ ५ १ ॥  
 पे जमेछे माटे प्रमाद त्यागवा जोग्यछे ए उपदेश  
 अणुमिदा १ २ ॥ बहु बहं ॥ मिथादिटी २ ५ ॥ जे १ २ ॥ अइ  
 बदनिकाइयकम्मा ॥ मृणांति १ २ ॥ धम्मं १ २ ॥ नय १ २ ॥ करिने १ २ ॥  
 अर्थ ॥ १ ॥ अइ प्रकारे करिने ॥ २ ॥ धर्मापदेशादि  
 करिने प्रेरणा करवा एहवा ॥ ३ ॥ वली ॥ ४ ॥ नि  
 एटले मन्यक ज्ञाने करिने रहान एहवा ॥ ५ ॥  
 अथम एहवा ॥ ७ ॥ अने बांध्युंछे निकानि र





नाणे<sup>१</sup>दंसण<sup>२</sup>चरणे<sup>३</sup>॥ तव संयमसमिद्गुत्ति<sup>४</sup>पठिते<sup>५</sup>॥  
 दम<sup>६</sup>उत्सर्ग<sup>७</sup>ववाए<sup>८</sup>॥ द्वाइअभिग्गहे<sup>९</sup>चेव<sup>१०</sup>॥२॥  
 अर्थ॥२॥ ज्ञानने विशेषेण एतले सम्यक् ज्ञाने  
 ज्ञानने विषे ॥२॥ दर्शन एतले तत्त्वश्रद्धानं  
 विषे ॥३॥ चारित्र्य एतले आश्रवनं रोकवुं ते  
 विषे ॥४॥ तपवार प्रकारे संजम सत्तर प्रकारे  
 एतले सम्यक् प्रवर्ति रूप इर्या समिप्यादिक  
 एतले मन वचन कायाने अशु प्रवर्ति थकि  
 वालवा ते रूप त्रण ते पूर्वे कह्या तप  
 विषे ॥५॥ प्रायश्चित्तने विषे एतले पाप क्रिया  
 छा वलवा रूप दश प्रकारनी । लोपनाते  
 दम एतले पांच इंद्रियोनुं दमवुं एतले ब्रह्म  
 हेने विषे ॥७॥ उत्सर्ग एतले शुद्ध मार्गनुं आचार  
 तेने विषे ॥८॥ अपवाद एतले रोगादिक कारण  
 थये सते त्याग करेली वस्तुनुं ग्रहण करवुं ते  
 हने विषे ॥९॥ द्रव्यादिक अभिग्रह एतले  
 खेत्र थकि<sup>२</sup> काल थकि<sup>३</sup> जाव थकि<sup>४</sup> ए च्यार  
 रना अभिग्रहने विषे ॥१०॥ निश्चे ॥२२८॥

सदहणाय<sup>१</sup>रणाय<sup>२</sup>॥ निघं<sup>३</sup>उब्जुत्त<sup>४</sup>एसणादठिउ<sup>५</sup>॥

द' भवेत्प्रतिरूपं' वाप्यवकाश' द' 'कर्म' सुधा २१९॥

पीशाख पूर्व कक्षां ज्ञानं दर्शनादिक पदार्थेने वि  
 श्वा सहितार॥ आचरणाय करिने॥ ३॥ निरंतरा ३॥  
 मवत एहवो॥ ५॥ वेहेतालीत दोष रहित आहार  
 शुद्धिने विवे रहेलो एटले दोष रहित आहार अ  
 करतो एहवो जे साधु॥ ३॥ ते ज्ञानादिक गुणे क  
 सहित एहवा साधुनो॥ ७॥ प्रवज्यो एटले विनातुं  
 करवुं एटले विना लेवी॥ ८॥ वली॥ ९॥ जन्म एट  
 विं कक्षा एहवा जे श्रद्धा सहित गुणोयें करिने त  
 एहवुं ननुप्यपणुं ए प्रवज्यो अने ननुप्य जन्म ए  
 नां॥ १०॥ संतार सनुद्र धकी तारनार थायडे एट  
 मडा सहित शुद्ध संजम पाटवे करिने संतार सनु  
 वि तरेछे केमजे श्रद्धा विनातुं चारित्र मोनतुं कार  
 थाय नहि अने फोगट थाय अने गुण विनातुं ननु  
 पुं फोगटछे ते कारण नाटे प्रयत्न समाकित्तो उ  
 करवो ए उपदेश॥ ११॥ निश्चे॥ २१९॥

द' भवेत्प्रतिरूपं' वाप्यवकाश' द' 'कर्म' सुधा २१९॥

द' भवेत्प्रतिरूपं' वाप्यवकाश' द' 'कर्म' सुधा २१९॥

पीशाख पूर्व कक्षां ज्ञानं दर्शनादिक पदार्थेने वि

श्रद्धा सहितार॥ आचरणाय करिने॥ ३॥ निरंतरा ३॥

टले साधु मुनिराज तथा सम्यक् दृष्टि श्रावक  
संसर्ग करता नथी ते निंदा कहिये ए भावा॥  
तिनिश्चो॥२२५॥

निघं<sup>१</sup>संकिअ<sup>२</sup>भीउ<sup>३</sup>॥गम्भो<sup>४</sup>सवस्स<sup>५</sup>जि<sup>६</sup>रिवा<sup>७</sup>  
जणस्स<sup>८</sup>अवमठ<sup>९</sup>॥मडवि<sup>१०</sup>पुण<sup>११</sup>दुग्गइं<sup>१२</sup>जाइं<sup>१३</sup>॥२२  
अर्थ॥१॥निरंतरा॥२॥शंका सहित एटले रसे  
ए माहरी वातकरे एहवो॥३॥अय सहित ए  
लोक थकि डरतो एहवो॥४॥सर्व वालादिक जे  
पण॥५॥गम्य एटले पराजव करवाने जो<sup>६</sup>ए  
र्ववालादिक थकि पराजव पांमतो एहवो॥६॥  
पमाड्युं छे एटले विराध्युं छे चारित्र ते जेणे<sup>७</sup>  
ने वली॥७॥उत्तम पुरुपोने॥८॥अमान्य एटले  
रुपोए आदर नकरेलो एहवोसतो॥९॥वली॥  
लोकने विशे मरण पांम्यो एहवो पण॥११॥  
१२॥जायछे ए कारण माटे प्राणांत थये सते<sup>४</sup>  
रित्र न विराधवुं ए उपदेश॥२२६॥

गिरिमुअपुणमुआणं॥मुविहिय<sup>१</sup>आहरणं<sup>२</sup>कारणं<sup>३</sup>विहिन  
वज्जिज्ज<sup>४</sup>सीलवीगळे<sup>५</sup>उज्जुअ<sup>६</sup>सीले<sup>७</sup>हविज्ज<sup>८</sup>न<sup>९</sup>इ<sup>१०</sup>  
अर्थ॥१॥हे सुविहित एटले हे नला शिष्या॥

क एटले पर्वतने विपे रहेनारो एहवो जे पोपट  
 गिरिशुक एहवुं नाम पड्युं अने पुष्पशुक एट  
 डिमां रहेनारो एहवो जे पोपट तेहनुं पुष्पशुक  
 नाम पड्युं ते वे शुकनुं॥३॥उत्तम अधम पूरुष  
 मसर्गे करिने गुण दोशनुं कारण एहवुं॥४॥उदाह  
 एटले द्रष्टांत प्रते॥५॥जांणिने॥६॥साधु जे तो॥७॥  
 ना आचारे करिने रहीत एहवा पुरुषों प्रते॥८॥  
 एटले त्याग करे अने वलि॥९॥चारित्रने विशे  
 उद्यमवांन॥११॥थाय एटले उद्यम करो॥२२॥७॥

सन्नचरणकरणं२॥जइणो१वंदंति५कारणं३पप्प२॥

शुषिइयपरमथा६॥ते५वंदंते५निवारंति१॥२२॥८॥

थी॥१॥जति एटले साधु मुनीराज जे तो॥२॥सि  
 चरण एटले पंच महाव्रतादि मूल गुण रूप क  
 एटले पंच समीत्यादि उत्तर गुण रूपछे जेहने ए  
 एटले चरण शितरि करण शितरिने विशे शिथि  
 एटले जथार्थ उद्यम रहीत एहवो जे पूरूप एटले  
 पक्षी ते प्रते॥३॥कारण प्रते॥४॥पांमीने एटले  
 आदिक नणवानी अपेक्षाए करिने॥५॥नमस्कार क  
 तेवारे॥६॥जलिप्रकारे जाण्यछे परमार्थ एटले

सिद्धांतनो सार ते जेंमणे एटले तत्वना जाण  
 ॥७॥जे शिथिल आचारवंत पूरूष एटले स  
 जे तें॥८॥वंदन करता एहवा॥९॥ते मूनीराज  
 निवारण करेछे एटले कहेछे जे मने वंदन  
 ही केमजे ते तत्वना जाण शुद्ध अरूपक प  
 तने विशे विचारेछे जे सुविहीत मुनियोनि  
 कराववुं अमने घटतुं नथी ए प्रकारे  
 णेछे ते कारण माटे निषेध करेछे॥२२८॥

मुविहियवंदावंतो॥१॥नासेइ॥अण्यं॥नु॥मुपहाउ॥  
 हविष्मको॥कह॥मण॥न॥याणई॥मूढो॥२२९॥

अर्थ॥१॥उत्तम साधुओनी पासे वंदन क  
 टले वंदन करता एहवा जे ते उत्तम साधुओ  
 निवारण करतो सतो॥२॥जला मारगथकि  
 क्ष मारगथकि॥३॥पोताना आत्मा प्रते  
 छे॥५॥निश्चो॥६॥मूर्खएटले सिद्धांतना त  
 एहवो॥७॥वे प्रकारना मारगथकि भ्रष्ट थयो  
 टले साधु तथा श्रावकना मारगथकि चुक्यो  
 ॥८॥पोताना आत्मा प्रते॥९॥क्यमा॥१०॥नथी॥  
 एतो जे हुं वे मार्गथकि भ्रष्ट थाउंछुं माहरी

ज्ञे एम ते मूर्ख केमनधी वीचारतो एटले जेज्ञानं  
चारित्र रहीत उत्सूत्र प्ररूपक अने वली पोताने  
गुणविना साधुपणु मानतो अने लोकोनी पास  
तो ते पुरुषने पूर्वे कह्यो ते विचार आवेनही अने  
श्रावकना मार्गयकी चूकेछे ते संवेग पत्नी पण  
हीए ते सर्व पासथ्यो मिथ्याद्रष्टी कहीए॥२२९॥

हृदयकालं वि॥ चैत्र्याहं ध्ययुईपरमो॥

नवरपादिनावरभूवुफगं वच्चपुञ्जुतो॥२३०॥

॥ हवे श्रावकना गुण वर्णवेछे ॥

शाशाचैत्य एटले जिनत्रिंब ते प्रतो॥२॥वे काखने  
अने तेहना संबंधयकी मध्यांननुं ग्रहण करवुं ए  
त्रण काखने विशेष॥३॥पण॥४॥विधि सहित वंद  
रे ॥५॥ एहवो अने वली भक्तांमरादि स्तोत्र  
र दावादिक स्तूति तेमने विशेष प्रधान एटले स्त  
तूति गणवाने विशेष उक्कष्टो एहवो॥६॥सामान्य  
नी तेमनी नव्ये श्रेष्ठ एटले तिर्यंकर तेमनि प्रति  
ने अने जिनघर एटलेविधी सहित डेरासर तेमने  
धुप अगुरु प्रनूख माखतीनां फूल सुगंधि द्रव्य  
अप्रनूख तेमणे करीने पूजवुं एटलेजिनवरनी प्रति

मानी आगल धूपनूं करवुं अने ॥ स२ने विशेष ॥  
 अने जिन पडिमानी पुष्पादिके करीने पूजा करवी ॥  
 विशेष उद्यमवंत एहवो जे पुरुष ते श्रावक कहि ॥  
 सुविणे छिद्य एगमई ॥ धम्मामि २ अनन्नदेव उ ५ ५ पुणो ॥  
 नय कुसमएशु २ रज्जइ ॥ पुवावरवाहियथे सु ५ २ २ ॥  
 अर्थ ॥ १ ॥ वली ते श्रावक केहे वोठे ते केहे ॥  
 ने विशेष एटले जिनराज ज्ञापित धर्मने विशेष ॥  
 तिशय निश्चल एहवी अने एकाग्र एहवीछे ॥  
 जेहनी एटले जिन धर्मने विशेष एक ७ ॥  
 हवो ॥ १ ॥ वली ॥ ध्यानयी अन्य एटले जिनराजयी ॥  
 देव ते जेहने एटले जिनविना मन वचन का ५ ॥  
 रिते बीजा देवने न मानतो एहवो जे श्रावका ॥ ६ ॥  
 पर एटले आगल पाछल वाधा सहित एटले ॥  
 घ एहवाछे अर्थ ते जेमने विशेष एटले आगल ५ ॥  
 अणमिलता अर्थोए करिने सहित एहवां ॥ ७ ॥  
 एटले स्वमत मिथ्या द्रष्टी एटले निन्हवादि ॥  
 पासंडी ॥ ८ ॥ जे शास्त्र तेहने ॥

सद्विचारलिङ्गइ १ ॥ देवेहि चंद्रएहि धरे ॥ २३२ ॥

यो १ ॥ कुत्सित एटले नाठुंछे लिंग एटले वेग ते

ते एहवा जे पूरुष तेननुं ॥ २ ॥ नांना प्रकारनुं ॥ ३ ॥

एटले वेरंद्रियादिक धावर एटले प्रयव्यादिक भू

दले प्राणि तेननुं मर्दन एटले विनाश प्रते ॥ ४ ॥

नो १ ॥ जिनराजे कहेजा एहवा धर्मयकी सम्यक्त्व

सहीत श्रावक जे तो ३ ॥ इंद्र सहित एहवाया ७ ॥

॥ आदेवता जे तेनणे १ ॥ ना १ ॥ वाजावि शकीए

जे समकीत पूर्वक गुणोए करिने सहीत एहवो जे

क ते प्रते इंद्र सहित देवता जे ते पण शुद्ध धर्म

वाजावि शके नहि एतातपर्या ॥ २३२ ॥

सद्विचारलिङ्गइ १ ॥ देवेहि चंद्रएहि धरे ॥ २३३ ॥

यो १ ॥ कुत्सित एटले नाठुंछे लिंग एटले वेग ते

ते एहवा जे पूरुष तेननुं ॥ २ ॥ नांना प्रकारनुं ॥ ३ ॥

एटले वेरंद्रियादिक धावर एटले प्रयव्यादिक भू

दले प्राणि तेननुं मर्दन एटले विनाश प्रते ॥ ४ ॥

नो १ ॥ जिनराजे कहेजा एहवा धर्मयकी सम्यक्त्व

सहीत श्रावक जे तो ३ ॥ इंद्र सहित एहवाया ७ ॥

॥ आदेवता जे तेनणे १ ॥ ना १ ॥ वाजावि शकीए

जे समकीत पूर्वक गुणोए करिने सहीत एहवो जे

क ते प्रते इंद्र सहित देवता जे ते पण शुद्ध धर्म

वाजावि शके नहि एतातपर्या ॥ २३३ ॥



शास्त्र प्रते भणेछे. अने वली ॥९॥ उत्तम पुत्र  
 से जिनराज जापित अर्थ प्रते सांजलेछे ॥१०॥  
 ॥११॥ जणेलुं जे शास्त्र ते प्रते अर्थ : वि  
 वली ॥१२॥ मध्यस्थ एटले हठ कदाग्रह रहित  
 लोकोनी आगला ॥१३॥ शुद्ध धर्म प्रते ॥१४॥ कहे  
 सिद्धांतने अनुसारे पोतानी बुधिये करिने बीजा  
 प्रते समाकित पूर्वक धर्म प्रते पमाडे छे ए जावा  
 ददसीलव्यनियमो ॥ पोसह आवस्स ए सु अखलित ॥  
 महुमंजमंसपंचविहवहुत्रोयफलेसु पडिकंतो ॥ २३ ॥  
 अर्थ ॥१॥ वली ते श्रावक केहेवो होय ते केहे  
 शील एटले जलो आचार अने व्रत एटले ॥  
 व्रत तेमनो नियम एटले निश्चय ते जेहने  
 सत आचारने विशेष अने अणुव्रतादिकने विशेष  
 यमवालो एहवो अने ॥ २ ॥ पोपधवृत एटले अ  
 पुष्टिनो करनार एहवो आठम चौदशादिक पयो  
 सावध वेपारनो त्याग करवो ते ॥ नियम अ  
 एटले श्रवण्य करवा जोग्य सामायकादि छे तेन  
 ॥ ३ ॥ अस्त्रलित एटले अतिचार रहित  
 ॥ ४ ॥ मांखीनुं मद, मदीरा, मांस, पांच प्रकार

बहु बीज एटले रिंगणादिक एहवां फल ए पूर्वे  
ते थकी ॥५॥ निर्वृत्ति पामेलो एटले अनक्षनी  
एहवो श्रावक होय ॥२३४॥

ममकमनीवी ॥ इच्छस्वाणे अभिस्त्व मुञ्जतो ॥

परिमाणकडं ॥ अवरअइ स्तं धरे संकतो ॥ २३५ ॥

॥१॥ वली श्रावक केहेवो होय ते कहेछे, अधर्न  
करिने एटले पन्नर कर्मा दांन मध्येयी हरेक क  
ने करीने आजीविकानो करनार एहवो ॥२॥ न  
॥३॥ दश प्रकारना पचस्ववाण करवाने विशेष ॥४॥  
॥५॥ उच मवंत एटले उच्छाह वालो एहवो ॥६॥  
धन धान्यादिक ते श्रावकनो ॥७॥ परिमाण करेलुं  
एटले परिग्रहना प्रमाण वालो एहवो अने वली  
॥८॥ जे अपराध करेछे एटले जे आरंभादिक प्रत्यं  
॥९॥ ते आरंभादिक जे तो ॥१०॥ पण ॥ ११ ॥ शंका  
तो सतो करेछे पण निशुक्तपणे करतो नयी एटले  
॥१२॥ यणादिक ग्रहण करिने ते थकि शुद्ध थायछे ए  
श्रावक होय ॥२३५॥

ममकमनीवी ॥ इच्छस्वाणे अभिस्त्व मुञ्जतो ॥

परिमाणकडं ॥ अवरअइ स्तं धरे संकतो ॥ २३५ ॥

अर्थ॥१॥ तिर्यंकर महाराजनी॥२॥दिक्षा  
 निवारण,जन्म तेमनि,भूमिओ प्रते एटले दिक्षा  
 स्थानके दिक्षा लीधी होय ते स्थानक प्रते ए  
 न भूमी प्रते, निवारण भूमी प्रते जन्म भूमी प्र  
 थावक जे ते वंदन करेछे एहवो ॥१॥साधुजने  
 एटले मुनीराज महाराजना विहारे करिने त  
 कट्टी उत्तम पुरुपोये करिने रहित एहवो॥५॥  
 णा गुणे करिने सहीत एहवोय पण ॥६॥ जे  
 हने विज्ञे॥७॥नहिंज॥८॥वज्ञे एटले रहे केमने  
 नके रहेतां धर्मनी प्राप्ति थाय नही ए कारण  
 हां न रहे एहवो थावक होय॥२३६॥

परतिथियाण<sup>१</sup>पणमन<sup>२</sup>॥उभावण<sup>३</sup>शुणण<sup>४</sup>भक्तिराग<sup>५</sup>  
 मकारं<sup>६</sup>मम्माणं<sup>७</sup>दाणं<sup>८</sup>विणयं<sup>९</sup>च<sup>१०</sup>वज्जेइ<sup>११</sup>॥२३७

अर्थ॥१॥बली थावक शुं करे ते कहेछे,परति  
 तेमने एटले वीतरागनी आज्ञायकी उलटा ए  
 पुरुष तेमने॥२॥नमस्कारनुं जे करवुं ते प्रते वने  
 नमस्कार न करे॥३॥ ते परतिथिना गुणीन  
 करे॥४॥तेमना देवनीस्तवना नकरे॥५॥बली  
 बहु मान न करे॥६॥तेमनो सत्कार एटले

वुं ते प्रते वजें एटले वल्हादिक आपे नहीं॥८॥ते  
 मन्मांन एटले आदर करे नहीं॥९॥तेमनेदांन आपे  
 एटले धर्म बुद्धीए करीने आहारादिक आपे नहि  
 ॥वली॥११॥ते परतिथिना विनय प्रते॥१२॥वजें ए  
 तेमनो विनय करे नही एहवो श्रावक होय२३७

॥इणं द्वाकपं॥अपणापणमिज्जपारोइ॥

इअमुनिहेआपं॥भुंइइकयदिसालोउ॥२३८॥

॥१॥साधु मुनिराजने॥२॥पोतानी मेलो॥३॥नम  
 करिने॥४॥प्रथम एटले पोताने जमवाथी पेहेला  
 आहार पाणि आपीने॥६॥पछे पोते पारणु करे ए  
 नोजन करो॥७॥ जो साधु मुनिराज नहोयतो॥  
 सुव चारित्रवंत मुनिराजनो॥९॥करयोछे दिशा  
 शलोक एटले देखवुं ते जेंणे एटले जो साधु मु  
 न पधारे तो घणुं सारुं एम तेमनी वाट जोइने  
 ॥पछी भावना आवतो सतो पोते नोजन करे  
 ॥श्रावक होया॥२३८॥

॥कप्पाण्डनं॥जंनविदित्रं॥कहिंपि॥किंचि॥तहिं॥

॥बहुत्तकारि॥सुसाव्या॥तं॥न॥भुजंति॥॥२३९॥

॥१॥कोइक देशकालनेविशे॥२॥साधु मुनिराजने

॥३॥कल्पतुं एटले शुद्ध एहवुं॥४॥थोडुं गुं पा  
 आहारादिका॥६॥ते मुनीराजने॥७॥नयीज॥८॥  
 एटले तेमने पात्रे नथी पड्युं॥९॥ते आहार  
 ॥१०॥धीर एटले सूरवीर एहवा॥११॥  
 हवुं पालनारा एटले जथार्थ : ।वक मारगता  
 एहवा॥१२॥जला श्रावक एटले आज्ञावतं  
 ते॥१३॥न॥१४॥ नोजन करे एटले साधु  
 ज्यां सुधी थोडुंशुंए पण आप्युं न होप  
 चीज पोते वावरे नही ए जाव ॥२३९॥

वसहिमयणासणभक्तगणभेसन्नवश्यपत्ताइं॥

मद्रावे१न१पन्नत्तधणो१॥थोवावि१हु१थोवयं१देह१गि

अर्थ॥१॥वली श्रावक शुं करे ते कहेछे जी  
 संपूरण धनवालो ॥३॥ नथी तोपण॥४॥वस  
 रहेवानुं स्यानक, सयन एटले सुवाने अर्थ पा  
 एटले वाजठ पाटला प्रमुख, जक्त एटले  
 एटले जल, जेसज एटले श्रोसध वस्त्र पात्र  
 ॥५॥यांडामव्येथकी पण॥६॥थोडुं॥७॥साधु  
 श्रापे एटले वस्त्र पात्रादिक संपूर्ण श्रापका  
 एहवो सतोय पण श्रावक जे ते ॥६॥मां॥

जने तथा उत्तम पूरुपोने आप्याविना पोते वावरे  
[चावा॥८॥निश्चे॥२४०॥

अचाटं मासि एतु ॥ अशाहि आसु ॥ अति हिनु ॥

रेण ॥ अगद ॥ अणवरूप आतवगुणसु ॥ २४१ ॥

॥१॥संवच्छरी अने चौमासि असाड चौमासादिक  
विशे ॥२॥वली ॥३॥चैत्र असाडादिक अठाइयोने  
४॥आठम चौदसादिक तिथियोने विशे ॥५॥जि  
ती पूजा एटले नक्ति, तप छठ अठमादिक, गुण  
दिक तेमने विशे ॥६॥सर्व प्रकारे करीने ॥७॥लागे  
आसक्त थाय एटले तेजिनेंद्र पूजादिकने विशे  
न थकी आदरवालो थाय एहवो श्रावक होय वली  
होय ते कहे छे ॥२४१॥

ए ॥ चेइयाण ॥ य ॥ पाडिणीयं ॥ तह ॥ अवन्नवायं ॥ च ॥

पवयणस्स ॥ अहिअं ॥ सहधामेण ॥ वारेइ ॥ २४२ ॥

॥१॥साधुमुनीराजनो ॥२॥वली ॥३॥चित्यनो एटले  
असाद तथा प्रतिमानो ॥४॥प्रत्यनीक एटले उपद्रव  
हरनार एहवो ॥५॥तिमज ॥६॥वली ॥७॥अवर्णवाद  
मोजनारो एहवो अने ॥८॥जिनशासननो ॥९॥  
तकारी एटले शत्रु एहवो जे पूरुप ते प्रते ॥१०॥

एटले अनंतकायादिकनुं पचखाणकरवुं, शील  
 जलो आचार तेंमणे करिने सहित एटले तप  
 शीलने विशे उद्यमवंत एहवा ॥ ३ ॥ जला छे  
 जेमने विशे एटले सम्यकत्वादिक गुणोए करिने  
 एहवा ॥ ४ ॥ जे ॥ ५ ॥ जला श्रावक एटले पोतना  
 सहित एहवा ॥ ६ ॥ छे ॥ ७ ॥ ते श्रावकोने ॥ ८ ॥ विमान  
 देवलोक तेमनां सुखा ॥ ९ ॥ नथी ॥ १० ॥ लंन एटले  
 कनां सुख जोगवीने अनुक्रमे करिने मोक्ष  
 सीद्धम कयावि गुरु तंपि मुसीसा सुनिहृणमहुरेहि  
 मगं टवंति पुणरवि नह सेलगपंधगो नाथ ॥ ११ ॥  
 अर्थ ॥ १ ॥ कदाचित कर्मना विचित्रपणा थकि  
 गुरु जे ते ॥ ३ ॥ सीजाय एटले मार्ग थकी  
 ॥ ४ ॥ ते सिथिल थया एहवा जे पोताना गुरु ते  
 उत्तम शीप्य जे ते ॥ ६ ॥ अतिशय निपुण एटले  
 एहवां अने मधुर एटले मीठां एहवां वचनोए  
 ॥ ७ ॥ फारिने पण ॥ ८ ॥ मार्गने विशे एटले संनम  
 विशे ॥ ९ ॥ थापे एटले उन्मार्ग थकि पाछा बाळीं  
 मार्गमां लावेछे ॥ १० ॥ जेमा ॥ ११ ॥ सेलग  
 दृष्टांत जाणवुं एटले शैलक नामे आचारजने

शेष्य जेम ठेकाणे लाव्या तेम विजा शिष्योए  
ताना गुरुने मीठावचनोए करिने ठेकाणे लाववा  
तां जो कह्युं न माने अने उलटुं बोले तो ते गुरु  
करवा ए जिनसासननी रीति छे ॥२४७॥

सधिवसे १ दिवसे २॥ धम्मं ० बोहेइ १ अहव ० अहिअयरो ॥

दिवसेणसत्ती १० ॥ तहविय ११ से १२ संजमविवत्ती १३ ॥ २४८ ॥

१॥ दिवसने विशेषे ॥ २ ॥ दिवसने विशेषे एटले निरं  
॥ दश ॥ ४ ॥ दश पूरूप प्रते ॥ ५ ॥ धर्म प्रते ॥ ६ ॥ बोध  
एटले धर्म पमाडेछे ॥ ७ ॥ अथवा ॥ ८ ॥ दश पूरूप  
रण अधिक पूरूपो प्रते वचन लब्धिं करीने  
धि करेछे ॥ ९ ॥ ए प्रकारनी ॥ १० ॥ नंदिपेण नामा  
ते शक्ति अटले देशनानि लब्धि छे ॥ ११ ॥ तोये  
॥ १२ ॥ ते नंदिपेण नामा मुनिने ॥ १३ ॥ संजमनो नाश  
एटले संजमथी पड्या ए कारण माटे नीकाचित्त  
जिभोग ते अतिशय वलवान्छे एटले निकाचित्त  
भोगव्या विना छुटेज नही ॥ २४८ ॥

कउ २ अ ३ किश्रीकउ ४ अ ५ ॥ खउरीकउ ६ य ७ मळिणिउ ८

कम्मोहिं १ एस २ ० नीतो ११ ॥ नाऊणवि १२ मुझई १३ जेण १४ २४९ ॥

॥ १ ॥ ज्ञाना वरणादि कर्म जे तेंमणे ॥ २ ॥ मलीन क



धित्तूणावि ३ सामन्नं २ ॥ संयमनोगे सु ५ होइ ६ जो १ सिद्धिलो १ ॥  
 नइ ८ वयणिज्जे ९ ॥ सोअइ १ ३ अ ५ गउ १ २ कुदेवत्तं १ ॥ २ ॥  
 अर्थ ॥ १ ॥ जे पूरुप ॥ २ ॥ चारित्र प्रते ॥ ३ ॥ गृहण ॥  
 ॥ ४ ॥ संजम वेपारने विशे एटले पांच आश्रवणुं  
 जाय वे प्रकारे त्याग करवुं तेने विशे ॥ ५ ॥ ॥ ५ ॥  
 थायछे एटले होय ॥ ७ ॥ वली ॥ ८ ॥ जो ॥ ९ ॥  
 जावने विशे ॥ १० ॥ पडेछे एटले आ लोकने वि  
 निक थायछे ॥ ११ ॥ ते पूरुप परचवने विशे ॥  
 प्रते एटले कील्वीशिकपणा प्रते ॥ १२ ॥ पांम्बो  
 ॥ १३ ॥ सोच करे एटले पश्चातापमां पडेछे ॥ १४ ॥  
 मुद्या ५ ते ६ जियलोए १ ॥ निणवयणं २ जे ३ नरा ३ नयाणांवि १ ॥  
 मुद्याणवि १ ३ ते १ २ मुद्या १ २ जे ८ नाऊणं २ नवि १ ३ करंनि १ ॥ १ ॥  
 अर्थ ॥ १ ॥ आ जीव लोकने विशे ॥ २ ॥ जे ॥ ३ ॥  
 जिनवरना वचन प्रते ५ नथी जाणता ६ ते ७ पु  
 शोच करवा जोग्यछे एटले आ अविवेकी वचार  
 वचन जाणता नथी तेमनी सी गति थजे ए ४  
 नुकंषा करवा जोग्यछे ॥ ८ ॥ जे पूरुप ॥ ९ ॥ नि  
 वचन प्रते जाणीने ॥ १० ॥ नथिजा ॥ ११ ॥ करता ५  
 मादि पणा थकी नथी पाछा फरता १२ ते ७ पु

करवा जोग्य पुरुषोनी मध्ये पण ॥१४॥ विशेष  
 करवा जोग्यछे एटले विशेष प्रकारे अनुकंपा  
 वा जोग्यछे केमजे जाण पुरुषोने पण प्रमाद महा  
 यंत्रुं कारणछे ए हेतु माटे ॥२६०॥

विकल्पधननिर्हं ॥ तेभिः उपाडियाणि अर्थीणि ॥  
 जगति धननिर्हणं ॥ जे इह विहलंति ॥ धम्मधणं ॥ २६१ ॥  
 अर्थ ॥ १ ॥ जेम रांक पुरुषोने धनना चंडार प्रते ॥ २ ॥  
 डाडिने ॥ ३ ॥ ते रांक पुरुषोनां ॥ ४ ॥ नेत्र एटले आं  
 ॥ ५ ॥ उपाडि नाख्यां एटले काडी लीधां ॥ ६ ॥ तेम  
 संसारने विशेष ॥ ७ ॥ जे पुरुषा ॥ ८ ॥ जिन वचन प्रते  
 जांणिने पण ॥ ९ ॥ ० ॥ धर्म रूप धनप्रते ॥ १ १ ॥ न सेव  
 करवा थकि निरुफल करेछे ते पुरुषोनी पूर्व दृष्टांत  
 साये उपमा करवा ते कहेछे जेम ते रांक पुरुषो  
 धन देखाडिने आंख्यो काडी लीधी त्यारे ते धन  
 कामनुं तेम जिन वचन जांणिने पण पोतानी श  
 प्रमाणे समकीत सहीत धर्म जे पुरुषोये न क  
 तेमनुं जाणपणुं शा कामनुं ते माटे जांणिने जां  
 णा सहीत धर्मने विशेष उद्यम करवो एज सारछे ॥  
 अर्थ उच्यते ॥ मज्ञं हीणं च हीणतरं वा ॥

संसारमां जन्मजरा मरणना दुःखे करीने  
 मेंलो एहवो॥३॥एकपण ॥४॥ प्राणी प्रते  
 जीवने॥५॥जिन वचने करीने एटले जिनरां  
 एहवा जे तत्व तेमणे करिने॥६॥बोध करावे  
 समकित पमाडिछे॥७॥आ लोकने विशे रहे  
 ॥८॥ ते समकित पमाडनार पुरुष जे तेणे॥९  
 एहवो पण॥१०॥जिव लोकने विशे एटले  
 द राजलोकने विशे॥११॥अमारिपडो  
 ॥१२॥वगाडयो एटले अजयदान दीयां॥१३

संमत्तदायगाणं॥दुष्णडियारं॥भवेसु॥बहुणमु॥

सवगुणमेळियाहेवि॥उवयारमहस्सकोडिहि॥१४

अर्थ॥१॥घणाएहवा॥२॥जयोने विशे॥३॥

करीने सहीत एहवाय पण एटले वमणा

नुंक्रमे करिने जायतअनंत गुणोए करीने सव

य पण॥४॥उपकारनां हजार तेनी कोडीय

ने एटले करोडो उपगारे करीने॥५॥समकी

पुरुषोनां एटले समकित पमाडनार गुरुनां

उपगार न करी शकीए एटले तेमना उप

लो न वाली सकीए जे कारण माटे समकी

जे तेमणे समकीत पमाडवे करीने जे उपगार क  
छे ते उपगारनो वदलो अनंतगुणी उपगारनी को  
णे करीने वाली न शकीए ए कारण माटे समकी  
माडनार गुरुनो वणीज भक्तिं करवी ए जावा २६९

वन्नत्तंने उल्लेखे ॥ उल्लेखे ॥ नरयतिरिवदाराइं ॥

विज्ञानि भाषुत्तानि य ॥ मुखवदुहाइं चहीणाइं ॥ २७० ॥

र्या ॥ १ ॥ हवे समकितना फल प्रते कहेछे जीव जे ते  
सनकित ॥ २ ॥ पांमे सते ॥ ३ ॥ नरक तिर्यैचनां वारणां  
॥ रोक्यां एटले समकित पांम्यां पछी जीव नरकनुं

॥ तिर्यैचनुं आउखु बांधे नही केमजे समकित पांमे

॥ ननुप्य देवतानुं आउखु बांधेछे अने देवता मनु

॥ आउखु बांधेठे ए कारण माटे ए जावा ॥ ५ ॥ अने

॥ समकित पांमे सते देवता संवंधी सुखा ॥ ६ ॥ वली

॥ ननुप्य संवंधी सुखा ॥ ८ ॥ मोक्ष संवंधी सुखा ॥ ९ ॥

॥ जे आधीन थायछे एटले सनकितवंत पुरुष देव

॥ तथा मनुप्यना तथा जावत् मोक्षना सुख प्रते पां

॥ ए कारण माटे पेहलां सनकितनो उद्यम करवी

कुत्तमवदुइं पनहणं ॥ वन्नत्तं वस्तं सुद्वियं हियर ॥

वस्तं जगुद्योय करो नापं चरणं ॥ च भवमहणं ॥ २७१ ॥

अर्थ॥१॥जे पुरुपना॥२॥हृदयने विशे एटले  
 विशे॥३॥माठा दर्शनना सिद्धांतोनं सांजलुंते  
 श करनार एटले वीतरागनि आज्ञा रहित  
 रुपोनां रचेलं जे शास्त्र तेहनं जे सांजलुंते  
 करनार एहवुं॥४॥समकित॥५॥अतिशय स्थिर  
 ॥६॥ते पुरुपने॥७॥जगतने प्रकाश करनारुं  
 ज्ञानं केवलज्ञानं रूप होय॥९॥वली ते  
 जवनं एटले संसारनं नाश करनार एहवुं  
 त्र यथाख्यात् रूप होय केमजे समकितनो  
 सते ज्ञाननो अभाव अने ज्ञाननो अभाव सते  
 अभाव ए कारण माटे समकित सहित  
 एटले सर्व विरती पणाने विशे उद्यम करवो

सुपरिच्छिद्यसमत्तो॥१॥नाणेणालोइयथसभावो॥

निवणचरणाठत्तो॥२॥इच्छियमथ्यंपमाहेइ॥३॥

अर्थ॥१॥अतिशये करिने निश्चितछे एटले  
 ते जेहने एटले दृढ समकितवंत एहवो अने  
 ने करिने जाण्योछे जीवा जीवादिक पदार्थनो  
 एटले स्वरूप ते जेणे एहवो एटले परमायं  
 जीवाजीवादिक नव तत्वना स्वरूपनो जां

आतिचार रहित एटले निदोप एहवा चारित्रने  
 उपयोगवंत एटले दुपण रहित चारित्रे करीने  
 एहवो जे पुरुष ॥४॥ मनवंछित एहवो ॥५॥ अ  
 टले नोकरूप प्रयोजन एटले कारज प्रते ॥६॥ प्र  
 करीने साधेछे एटले पांनेछे ॥२७२॥

ह मुक्तापर पुंडरिनि ॥ दुवन्नरागवनेहि ॥

भञ्जा पडसोहा ॥ इय सम्मत्त पमाणहे ॥ २७३ ॥

॥१॥ हवे प्रमादे करीने समकित मलिन थायछे ते  
 छे जेमा ॥२॥ धोला एहवो ॥३॥ मूलतांणो एटले सूत  
 तांतणानो समूह तेहने विशे ॥४॥ दुष्ट एटले माठा  
 वरण तथा लाल वरण तेमणे करीने ॥५॥ वस्त्रनी  
 ॥६॥ अवरखाणवा जाग्य थाय तेहनो प्रगट अर्थ  
 देखाडीये छीए जे वखत कपडानो वणनारो वण  
 पडु वणवाने अर्थे पेहेजा सुतरनां धोला तांतणा  
 छे तेनी मध्ये काला वरणना तथा लाल वरणना  
 सुतरना तांतणामिलवे करीने जेम वस्त्रनी धोला  
 शीवर रहेती नथी उलटुं कावरचीतरुं थायछे ॥७॥  
 कारो ॥८॥ प्रमादे करीने एटले कुदेव कुगुरु कुधर्म  
 सेवन करवुं तथा तेमना भक्तलोकनी साथे सा

धर्मि पणुं करवुं ते रूप प्रमादे करीने॥१॥  
 लिन थायछे एटले नाश पामेछे ते कारण मा  
 तनो वैरीरूप प्रमाद त्याग करवा जोग्यछे  
 नरएसु१सुरवरेसु२अ३॥जो१बंधइ०सागरोनमं१इके॥  
 पलिउवमाण१बंधइ११॥कोडिसहस्राणि१०दिवसेपं॥  
 अर्थ॥१॥जे पुरुष सौ वरसना आउखावाले  
 कर्म प्रते आचरतो सतो तथा पुन्यकर्म  
 तो॥२॥ नरकने विशेषे॥३॥बली॥४॥देवलोकने  
 एक॥६॥सागरोपमना आउखा प्रते॥७॥वांधेछे  
 जे पाप कर्म करेछे ते नरकना आउखा प्रते  
 ने बली जे पुन्यकर्म प्रते करेछे ते देवलोकना  
 प्रते बांधेछे॥८॥ते पुरुष पाप कर्मनो करनासो  
 कर्मनो करनासो एक दिवशनी मध्ये॥९॥४॥  
 ॥१०॥कोटि सहस्र आउखा प्रते॥११॥वांधेछे  
 सो वग्मना आउखा वालो पापकर्म कर्मने  
 एक सागरोपमनुं आउखु बांधेछे ते पुरुष  
 शनी मध्ये पल्योपमनी हजारो कांडीकं  
 आउखा प्रते बांधेछे॥देवलोकने विशेषे एज गं  
 एवो गने एक दिवशनी मध्ये जीव पुन्य ११

करेछे ए कारण माटे प्रमाद त्याग करीने आ  
तने विशे उद्यम करवो ए उपदेश॥२७४॥

उद्यमसंखिजं ॥ भागं १ जो १ वंधइ ५ सुरगणेषु २ ॥

दिवसे वंधइ १ ॥ सवासकोडिअसंखिज्जा १ ॥ २७५ ॥

॥१॥ जे पुरुष सो वरसना आउखावालो ॥२॥ पु

प्रते आचरीने मनुष्यना भवने विशे रह्यो सतो

ओना समूहने विशे ॥३॥ पल्योपमना संख्यातमा

नाग आउखाप्रते ॥५॥ वांधेछे ॥६॥ ते पुरुष ॥७॥ ८॥

दिवशने विशे एटले निरंतर ॥९॥ वरसनी कोडि

यातिओ एटले असंख्याति कोडि वरसना आ

प्रते निरंतर ॥१०॥ वांधेछे एटले उपाजर्न करेछे

मो १ नरएसु १ वि १ ॥ ब्रुहेण १ नाउण १ नाम १ एयंपि १ ॥

पि १ २ कह १ ३ षमाउ १ ४ निमेसामित्तं १ पि १ ५ कायवो १ ॥ २७६ ॥

॥१॥ नरकने विशे ॥२॥ पण ॥३॥ आ ॥४॥ अनुक्रमछे

करनारो पुरुष निरंतर असंख्याता वरसनि

नरकना आउखा प्रते वांधेछे ॥५॥ ए अनुक्रम

॥१॥ पंडितपुरुष जे तेणे ॥७॥ जांणिने ॥८॥ निश्चो ॥९॥

मीचिने उघाडिये एटलो काल ॥१०॥ पण एटले

काल पण ॥११॥ धर्मने विशे एटले क्षमादिक द



श विध जति धर्मने विशे ॥ १२ ॥ पादपूर्णे ॥ १३ ॥

॥ १४ ॥ प्रमाद ॥ १५ ॥ करवा जोग्य होय एटले ॥

प पुन्य पापने उपार्जन करवाना स्वरूप ॥

ने धर्मने विशे प्रमाद क्यम करे अपितु नहि ॥

द्विबालंकाराविभूषणाइं ॥ रयणुज्जलाणि १५ १ घरा ॥

स्वं भोगसमुदयउं ॥ सुरलोगसमो १ कउ १ इह ॥ १६ ॥

अर्थ ॥ १ ॥ प्रधान एहवा अलंकार एटले ॥

त्रादिक अने विशेष भूषणादिक एटले ॥

दिका ॥ २ ॥ वली ॥ ३ ॥ रत्ने करिने उज्वल एटले ॥

हवा ॥ ४ ॥ घरादिक ॥ ५ ॥ रूप एटले शरीरनुं ॥

पणुं ॥ ६ ॥ देवलोक सदृश एटले देवलोकना ॥

हवो ॥ ७ ॥ जोगनी समुदाय एटले जोगनी सं ॥

आ लोकने विशे एटले आ मनुष्य लोकने ॥

क्यां थकि थाय एटले जो तुं धर्मने विशे ॥

छे तो पूर्वे कहेली वस्तुतने शायी मलशे ते ॥

टे प्रमाद छोडीने निरआशीजावे निर्जरा ॥

पयोग सहित धर्म करणी करवी ए उपदेश ॥

देवाण १ देवलोए १ ॥ मं १ सुख्यं १ तं १ नरो १ सुभाणउ १ वि ॥ १ ॥

१ नामसण १ वि १ ॥ जस्स १ १ वि १ ॥ जीहासयं १ १ हुन्ता १ ॥ १ ॥

॥देवलोकने विशेषे॥२॥देवताओने॥३॥जे॥४॥  
 छे॥५॥ते सुखा॥६॥ अतिशे करीने वाचाल  
 ॥पण॥७॥पुरुष॥८॥ सो वरसे करीने॥ १०॥  
 १॥ नहि॥१२॥ कही शके एटले सो वरस सु  
 णा सुखनो वर्णव करे तोये पण पार न पां  
 रली॥१४॥जे पुरुषने॥१५॥जीचनुं सो एटले  
 ॥१६॥होय ते पुरुष पण सैकडो वरसोत्रे  
 वताना सुखनो वर्णव करवाने अर्थे न समर्थ  
 बीजा पुरुषनुं श्युं केहवूं;केमजे जे पुरुष पर  
 आशा रहित वीतराग चापित धर्म प्रते सेवे  
 पने देवलोकादिकनां सुख सरागिभाव पणा  
 चे घासरुप उत्कृष्टां सुख निष्पन्न थायछे ते  
 गटे॥२७८॥

जाइं ५ अइं कख्खडाइं १॥ दुःख्खाइं ५ परमतिख्खा  
 ५ वनेही १ ५ ताइं ५ ॥ जीवंतो ५ वासकोडीहि १ ॥ २ ७ ९ ॥

॥नरकने विशेषे॥२॥अतिशय करकश एटले दु  
 रीने सहन करवा जोग्य एहवां॥३॥अने विपा  
 १ थकि उत्कृष्ट तिक्षण एटले अतिशय आकरा  
 १॥जे॥५॥दुख क्षुधा वृषा परवशपणा दिक वर्ते

छे॥६॥ते दुखो प्रते॥७॥वरसनी कोटि एटले  
 वर्षोए करिने पण॥८॥जीवतो एहवो॥९॥कोण  
 ॥१०॥वर्णववाने एटले केहवाने समर्थ थाय  
 इ कही शके नहीं॥२७ए॥

कखडदाहंसामलिअसिवणवेयरणिपहरणसयोहं॥

नाज्ञायणाउध्पावन्ति॥नारया२तं२अहम्मफलं॥२८॥

अर्थ॥१॥करकस एटले आकरो एहवो जे दाह  
 अग्नीनि मध्ये पचावा रू० सामलिशब्दे करिने  
 एहवेनामे वृक्ष तेहनां जे पांनां तेणे करिने  
 करवुं, असिवण शब्दे करिने खड्गना जेहवा  
 जेहने विशे एहवुं जे वन तेहने विशे भमवुं, वेप  
 करिने वैतरणीनां मे नदी तेहनुं तपेला तरुवा  
 पांणी तेहनुं पांन करवुं, पहरण शब्दे करिने  
 क जे शस्त्र तेमनां सइकडो एटले सइकडो  
 रीने शरीरादिकनुं छेदन करवुं. ए पुर्वे कदा  
 नां ए कारन॥२॥नरकने विशे नारकि एटले  
 जीव जे ते॥३॥जे॥४॥पीडाओ प्रते एटले  
 ॥५॥पांमेछे एटले जागवंचे॥६॥ते॥७॥अ  
 वीतराग जापित जथार्थ स्वदया परदया

अवलुं करवुं ते रूप जे पाप तेहनुं फल जाणवुं॥

या<sup>२</sup>कसंकुसारानिन्वायवहबंधणमारणसयाइं<sup>३</sup>॥

इहयं<sup>१</sup>पावंता<sup>२</sup>॥परस्थ<sup>३</sup>जइ<sup>४</sup>नियमीया<sup>५</sup>हुंता<sup>६</sup>॥२८१॥

॥१॥आ लोकने विशे॥२॥केटलाएक तिर्जेच हा

गोडा प्रमुख ते जे ते॥३॥कशा शब्दे करीने फ

अंकुश,आर शब्दे करीने गोचवानोपरुणो,निव्वा

ब्दे करीने भूमिने विशे पाडवुं,वध एटले जाक

दिके करीने कूटवुं,बंधन एटले दोरडा सांकोला

करीने वांधवुं,मरण एटले जीवथी जुटुं करवुं ते

सइकडो एटले पूर्वे कहेलां वध बंधन मरणादि

सइकडो वार पांमवुं ते प्रते॥४॥नहिजा॥५॥पांम

वा॥६॥जो॥७॥परजवने विशे॥८॥नियमवंत ॥९॥

हवा एटले जो परजवने विशे नियम करयोह

आ जवने विशे कोइ कर्मना उदयथी तिर्जेचप

म्या तोये पण पूर्वे कहेलां दुख प्रते न पांम्या

टे जाण पुरुपनी नीआये जाणपणा सहित वर्त

ने विशे उद्यम करवो ए उपदेश॥२८१॥

॥विचंकिलेसो<sup>१</sup>॥तुखवं<sup>२</sup>तुच्छं<sup>३</sup>उवहवा<sup>४</sup>वहुया<sup>५</sup>॥

॥अचिठ्यादिअ<sup>६</sup>॥अणिइवाचो<sup>७</sup>अ<sup>८</sup>मापुस्ते<sup>९</sup>॥२८२॥

अर्थ॥१॥मनुष्य जवने विशे जे दुखनां का  
 कहीए छीए॥२॥जावजीव सुधी संक्लेश एटले  
 बंधी चिंता॥३॥तुच्छ एटले असार एहवुं॥४॥  
 ले विशय संबंधी सुख॥५॥घणा एहवां  
 गिन चौरादिकथकी उत्पन्न थएला॥ निव  
 ले अधम लोक तेमना आक्रोशादि दुर्वचननुं  
 रवुं॥८॥बली॥९॥अनिष्ट स्थानकने विशे परव  
 रिने रेहेवुं.आ पूर्वे कहां एहवां जे दुखनां का  
 नुष्य जवने विशे धर्म रहित प्राणिने थायछे॥२

चारगरोहवहबंधरोगघणहरणमरणवसणाइं॥

मणसंतापो<sup>३</sup>अज्ञसो<sup>४</sup>विगोवणया<sup>५</sup>य<sup>६</sup>माणुस्से॥२॥३॥

अर्थ॥१॥बली मनुष्य जवने विशे जे दुखनां  
 थायछे ते कहेछे॥२॥बंधीखांनाने विशे कोइक  
 करीने पडवुं एटले रोकावुं,वध एटले  
 करीने ताडना, बंधन एटले दोरडा सांको  
 रीने बंधावुं,रोग एटले वात पित कफयकी  
 एली शरीरनी पीडा,धननुं हरण,मरण एटले  
 की जुटु थवुं,वासन एटले कटादिक॥३॥  
 प एटले चित्तने विशे उदवेगा॥४॥अपजश

॥५॥वली॥६॥ विगोवणा आ पूर्वे कहरां एहवां  
नां कारण मनुष्य जवने विशे धर्म रहित प्रां  
मेछे ते माटे धर्म रहित मनुष्य गति पांमवे क  
तुं अपितु कांड नहि॥२८३॥

संतविहिय १॥दाग्द्वस्तुआहिं ३दुष्पउत्ताहिं २॥

वि १माणुस्सं ५॥मरंति ८केई ५ सुनिविना ५॥२८४॥

॥१॥चिंता, कुटुंबनुं नरण पोपण करवादिकथी  
थएली;संताप,चौरादिकथकी उत्पन्न थएली ते  
करिनेअने वली॥२॥पूर्वजवने विशे करेलां एहवां  
कर्म तेमणे प्रेरणा करचां एटलेपूर्व जवने विशे  
तां जे कर्म ते कर्मनां उदयथकी निष्पन्न थयां  
॥३॥दलिद्रपणु एटले निर्धनपणुंअने रोग जलो  
ठोदर भगंदरादिक तेमणे करिने ॥४॥अतिशये  
खेद पांम्या सता एहवा॥५॥ केइक पुरुषा॥६॥  
पणा प्रते॥७॥ पांमीने पण॥८॥मरण पांमेछे ए  
धर्म रहित प्रांणी दूखी थया सता मनुष्यनोभव  
गमावेछे ते माटे प्रमाद छोडीने निर्देभपणे शु  
नि विशे उद्यम करवो ए श्रेयछे ए उपदेश॥२८४॥

१देवलोए २॥दिवाभरणानुरंजियसरिरा ३॥

जं<sup>१</sup>परिपडंति<sup>२</sup>तत्तो<sup>३</sup>तं<sup>४</sup>दुखं<sup>५</sup>दास्यं<sup>६</sup>तेसिं<sup>७</sup>॥२८॥

अर्थ॥१॥जे कारण माटा॥२॥देवलोकने विसे

व्य एटले प्रधान एहवां आभरण एटले परे

णे करीने अनुरंजित एटले शोभायमानछे शरीर

मनां एहवा॥४॥देवता जे ते पणा॥५॥ते

॥६॥पाछा पडेछे एटले अशुचि एहवा गर्भावा

शे आवेछे॥७॥ते॥८॥दुख॥९॥ते देवताओने॥१०

शये करिने दुखे सहन करवा जोग्यछे ते

देवलोकने विशेषे पण सुख नथी ए भावा॥२८॥

तं<sup>१</sup>सुरविमाणविभवं<sup>२</sup>॥चिंतिय<sup>३</sup>चवणं<sup>४</sup>च<sup>५</sup>देवलोकाउ<sup>६</sup>

यं<sup>७</sup>चिय<sup>८</sup>जं<sup>९</sup>नवि<sup>१०</sup>॥फुड्डइ<sup>११</sup>सयसकरं<sup>१२</sup>हिययं<sup>१३</sup>

अर्थ॥१॥ते प्रसिद्ध आश्चर्यकारि एहवां॥२॥

विमाननुं विभव एटले ठकुराइपणुं ते प्रते

रीने एटले मने करीने विचारीने ॥४॥वली

कथकी॥६॥चवन एटले पाछु गर्भावासने

आववुं ते प्रते विचारीने शी रीते विचारीने

क्यां विमाननुं ठकुराइपणुं ओने क्यां हमारे

नकने विशेषे अवतरवुं ए प्रकारे चिंतवता

ओनुं पणा॥७॥सो ककडा सहित

युं सतुं॥१०॥नथिज॥११॥फुटतुं एटले हृदयना सो  
 नथि थता ए कारण माटे ते देवताओंनुं हृदय  
 ॥अतिशय वळवंत एटलें अतिशय कठोरहिजछे  
 ॥निश्चे आ केहेवे करिने देवलोकने विशे पण मि  
 ष्टि प्राणियोने दुखज वर्तेछे एम देखाड्युं॥२८६॥

विनायमयकोहमाणमायालोभेहिं<sup>१</sup>एवमाईहिं<sup>२</sup>॥

३॥समाभिभूया<sup>३</sup>॥तेसिं<sup>४</sup>कत्तो<sup>५</sup>सुहं<sup>६</sup>नाम॥२८७॥

॥१॥इर्षा एटले मांहीमांहि मत्सर,विपाद एटले  
 नो करेलो पराभव,मद एटले अहंकार,क्रोध ए  
 अप्रितिरूप,मांन एटले पारका गुणनुं असहनक  
 या एटले सरलता रहितपणुं,लोचन एटले अ  
 णुं तेमणे करीने अने॥२॥ए आदिके करीने एट  
 तना विकारादिके करीने॥३॥पराभव पांम्या स  
 टले पुर्वे कह्या एहवा इर्षा विखाद कपायादिकने  
 डिजा एहवा सता॥४॥देवता जें ते पण देवलो  
 शे वर्तेछे ए कारण माटे॥५॥ते देवताओंने॥६॥  
 कि॥७॥सुखं होया॥८॥निश्चे अपितु मिथ्या द  
 ताओंने देव लोकने विशे पण सुख नहिंज हो  
 कारण माटे मोक्षना अर्थि प्राणिओये तत्वज्ञां



नीनी समीपे तत्व बोधनो खप करवो

धम्मं<sup>१</sup>पि<sup>२</sup>नाम<sup>३</sup>नाउण<sup>४</sup>॥कीस<sup>५</sup>पुरिसा<sup>६</sup>सहंति<sup>७</sup>पु<sup>८</sup>

सामित्ते<sup>९</sup>साहीणे<sup>१०</sup>॥को<sup>११</sup>नाम<sup>१२</sup>करिब्ज<sup>१३</sup>दास<sup>१४</sup>

अर्थ ॥१॥ पुरुष जे ते ॥२॥ नाम एटले

रना दूख निवारवे करिने मोक्षना सुख

प्रसिद्ध एहवा ॥३॥ धर्म प्रते ॥४॥ जाणिने ॥५॥

शाकारण माटे ॥६॥ बीजा पुरुषोना वचना ॥७॥

॥८॥ सहन करेछे एटले खमेछे एटले बी

ने वश वर्ति केम थायछे ॥९॥ पोताने आधि

पोताने वश एहवुं ॥१०॥ स्वांमिपणुं सते केम

रिने पोताने वशपणु थायछे माटे ॥११॥ को

रुप ॥१२॥ परना दासपणा प्रते ॥१३॥ करो

परपुरुषनी आज्ञामां जिम वर्तेछे तिम जि

ज्ञामां वर्ततो सतो स्वांमिपणा प्रते पांमे त

नराजनी आज्ञा पालवानो खप करवो ॥१४॥

संसारचारण<sup>१</sup>चारण<sup>२</sup>॥आवीलियस्स<sup>३</sup>बंधेहिं<sup>४</sup>॥

उविग्गो<sup>५</sup>जस्स<sup>६</sup>भणो<sup>७</sup>॥सो<sup>८</sup>किर<sup>९</sup>आसन्नसिद्धे<sup>१०</sup>

अर्थ ॥१॥ बंधीखाना तुल्य एहवा ॥२॥

धीखानाने विशेष ॥३॥ कर्मरूप बंधने करिने

तीत्रोत्रे करीने॥१॥समस्त प्रकारे पीडायेलो  
 मरुपी वेडीमां पडेलो एहवो ॥५॥जे पुरुष तेनुं  
 न एटले चित्त॥७॥उदविघ्न धयुं एटले क्यारे हूं  
 माररुप बंधीखांनाथकी छुटीने मोक्ष प्रते पांमी  
 ती रीते जेहनुं मन थयुछे॥८॥ते पुरुष ॥९॥  
 वर्तिछे सिद्धीपथ एटले मोक्षनो मार्ग ते जेहने  
 थोडा कालमां मोक्षमां जनारो एहवो जांणवो  
 कर इति सत्य हवे थोडाकालमां मोक्षजनार  
 लक्षण आगली गाथामां कहीत्रे छीत्रो॥२८९

कालभवतिद्वियस्स<sup>१</sup>॥जीवस्स<sup>२</sup>लख्खणं<sup>३</sup>इणमो<sup>४</sup>॥

हेसु<sup>५</sup>न<sup>६</sup>रज्जइ<sup>७</sup>॥सव्वथामेसु<sup>८</sup>उज्जमइ<sup>९</sup>॥२९०॥

॥१॥थोडा कालमांछे संसार थकि सिद्धी एटले  
 जेहनी एटले सीघ्र मुक्तिने विशे जनारा एहवा  
 वनुं एटले प्राणीनुं॥३॥आगल कहीशुं एहवुं॥४॥  
 जाणवुं केमजे लक्षणे करिने सीघ्र मोक्षगामि  
 लखायछे ए हेतुमाटे ते लक्षण प्रते कहेछे॥५॥वि  
 जेपांचइंद्रियो थकि उत्पन्न थया एहवा शब्दादि  
 यं तेमना सुखने विशे॥६॥ना॥७॥रीजे एटले आ  
 ही थाया॥८॥अने संजमादिक क्रिया अनुष्टान

ने विशे सर्व बले करिने एटले पोतानी कि

॥१॥ उद्यम करेछे पोतानी शक्ति गोपवतो न  
वा लक्षणे मोक्षगांमी पुरुष जाणवो॥२१॥

हुन्न १ व १ न ४ ४ देहबलं १ धिइमइसत्तेण १ २ जइ १ न १  
अधिहिंसि १ चिरंकालं १ ५ बलं १ च १ कालं १ च १ सोअंती

अर्थ ॥१॥ शरीरनु सामर्थपणुं॥२॥होया॥३॥

॥४॥नहोय एटले शरीरनुं सामर्थपणुं पोताने

होय कर्मने आधिनछे ए हेतु माटे ५१६

हे शिष्या॥७॥शरीरना सामर्थपणा प्रते॥८॥

कालप्रते॥१०॥नीश्रे॥११॥सोच करतो सतो

हारे शरीरनुं सामर्थपणुं नथी एम विचारतो

ने वली हमणां अवसर नथी एम विचारतो

॥१२॥धीरज एटले मननुं धैर्यपणुं मती

नी बुद्धि सत्व एटले पोतानुं साहसीकपणुं

नांए करीने एटले धीरजे करीने तथा

करीने तथा पोताना साहसीकपणाए करीने

थी॥१४॥उद्यम करतो एटले हमणां धर्मने

लसु यायछे परंतु पछी तुं॥१५॥घणा काळपु

आ संसारने विशे रहीश ते कारण माटे

शक्तीने अनुसारे समकीत सहित धर्मने विशे उ  
करवो ए उपदेश॥२९१॥

हृदियं च १ ॥ बोहिं २ ॥ अकरितो ३ ॥ नागयं ४ ॥ च ५ ॥ पथितो ६ ॥  
इंद्रो ७ ॥ बोहिं ८ ॥ लभसि ९ ॥ कयरेण १० ॥ मुत्तेणं ११ ॥ ॥२९२॥

॥१॥ आ जवने विशे पांमी एहवी ॥२॥ बोधी  
जैन धर्मनी प्राप्ति प्रते ॥३॥ न करतो एटले न  
तो सतो ॥४॥ वली ॥५॥ अनागत काल संबंधी ए  
नागामी जव संबंधी धर्मनी प्राप्ति प्रते ॥६॥ प्रा  
करतो एटले वांच्छा करतो सतो एहवो ॥७॥ हे  
तुं अन्य जवने विशे एटले आगामि जवने विशे  
बोधि एटले जैन धर्मनी प्राप्ति प्रते ॥८॥ कीया ॥  
मुल्ये करिने ॥९॥ पांमीज्ञ एटले हे मुख जो आ  
विशे पांमेलो एहवो जे धर्म ते प्रते नथी आ  
तयारे आगामि भवने विशे शी रीते पांमीज्ञ  
॥१०॥ निश्चे ॥११॥ ॥२९२॥

वयं कालवत्समाख्यालं व्रण्डं विचूणं ॥

वंधवियं नियमधुरं ॥ निरुद्धमाटं पमुच्चति ॥ ॥२९३॥

॥१॥ निरुद्धमि एटले आलसवंत एहवा जे प्रां  
॥ शरीरनुं संघयण कालवत्स दुसमकाळ रोगा

दिक आलंबन प्रते एटले हमणां तेहवुं संव  
 अने हमणां काल पण दुकाल वतें छे अने  
 ल एटले सामर्थपणुं पण तेहवुं नथी अने  
 एटले हमणां पांचमो आरौ वतें छे अने  
 रहितपणुं पण नथी ते माटे शी रीते धनं  
 कीए ए प्रकारे आलंबन प्रते ॥३॥ ग्रहण करि  
 संवयणाना बलादिकनो वांक काडीने ॥४॥  
 ॥५॥ नियम रुपधुरा एटले चारित्रनी क्रिया  
 ख जे नियम एटले अजिग्रह तेहना जास्तुं  
 रवुं ते रुप धूसरा प्रते ॥६॥ प्रकर्ष करिने  
 एटले जे आलशु पूरुप होयछे ते कालादि  
 काडीने पोताना ग्रहण करेलां व्रत प्रते मृ  
 ण उत्तम पूरुपोए तेम न करवुं पोतानी शक्ति  
 धर्मेने विशेष उद्यम करवो ए उपदेश ॥७॥

काळस्म'य' परिहार्णी ॥ संज्ञमतो गार्ड' वलि' मिन  
 सयणाई' वाद्रियज्यं ॥ नहु' ॥ सयणा' भंता' ॥ अने

अर्थ ॥३॥ बली ॥२॥ कालनी ॥३॥ ममन्त  
 नी एटले निरंतर कालनुं बटवापणुं वने  
 म निर्वाहने जाग्य एटले संजम पालवाने

॥क्षेत्र पण हमणां॥६॥नथि तारे शुं करवुं एवी  
 रु महाराजनी आगल शिष्ये प्रप्न करयुं त्यारे  
 हाराज उत्तर कहेछे॥७॥ हे शिष्य जतनाए क  
 टले द्रव्य भाव वे प्रकारे जतना सहित॥८॥वर्त  
 ले प्रवर्तवुं॥९॥जतना करवा मांडे सते एटले  
 ने विशे उद्यम करे सते ॥१०॥चारित्र रूप अंग  
 १॥ नहिजा॥१२॥ जागे एटले विनाश प्रते न  
 ए कारण माटे समकित सहित जतनाए करीने  
 ने शक्ति प्रमाणे चारित्रने विशे उद्यम करवो  
 मइकसायगारवइंद्रियमयवंभचेरगुत्तिसु१॥

भायविणयतवसत्तिय१॥जयणा सुविहियाणं१॥२९५॥  
 ॥१॥सुविहीत एटले जलुं विहित नाम आचरयुं  
 चरणते जेणे एहवा साधु जे तेमने ॥२॥ समिति  
 इर्या समितियादिक पांच समिति तेमनुं पाळ  
 णय एटले क्रोधादिक च्यार कपाय तेमनो त्या  
 वो, गारव शब्दे करीने रिद्धीगारव रसगारव  
 गारव ए त्रण गारवनुं निवारण करवुं, इंद्रिय ए  
 पांच इंद्रियोनुं वश करवुं, मद एटले जाति मदा  
 आठ मदनुं निवारण करवुं ब्रह्मचरज निगुप्ति



धुं मन ते जेणे एहवो, ए कारण गाटे उपयोग  
एले धर्म ध्यांन सहित एहवो॥७॥जे मुनि ते ॥

एटले चालवानो मारग अथवा मुनीनो आचार  
जे सावधान एटले सम्यक प्रकारे उपयोगवंत  
१॥ होय एटले इर्या समिति नो पालनार कहीए॥

१॥ भासं ॥ अपद्वन नकारणे १॥ भासइ ॥ ५॥

मुत्तियपरिवर्जित ॥ ६॥ भासइ ॥ भासणासमिड ॥ १॥ २॥ ७॥

॥१॥कारज एटले ज्ञानादिकारज उत्पन्न धये

॥ज्ञोपरहित एहवी॥ ३॥जापा एटले वचन प्रते

पण करेछे एटले बोले छे एहवो॥५॥वली॥६॥

विना॥७॥नहिज॥८॥बोले॥९॥वली॥१०॥विक

ले च्यार प्रकारनी विकथा तेणे करीने आगम

रुद्व वचननुं बोलवुं तथा चिंतवन करवुं तेणे क

हित एहवो॥११॥जे जति एटले जे साधु होय

१॥१२॥भापण करवाने विज्ञे एटले बोलवाने

नमित एटले सावधान होय एटले जापा समि

पालनार कहीए॥१३॥

१॥ भासं ॥ भासइ ॥ ५॥

१॥ भासं ॥ भासइ ॥ ५॥

१॥ भासं ॥ भासइ ॥ ५॥

१॥ भासं ॥ भासइ ॥ ५॥



अर्थ ॥१॥ बेतालीस प्रकारना ॥२॥ एटले  
 आहारना दोष प्रते ॥३॥ वली ॥४॥ पांच  
 जनादिक पांच ॥५॥ भोजनना दोष एटले  
 तीसखत लागेछे ते प्रते ॥६॥ जे साधुसोधेछे  
 छे ॥७॥ ते साधु ॥८॥ एपणाने विशेष  
 करवाने विशेष समित एटले सावधान होय  
 पणा समितिना पालनारो कहिये ॥९॥ जो  
 ले तो ॥१०॥ आजिविकानो करनारो एटले  
 ॥११॥ होय एटले दोष सहित आहार ग्रहण  
 रिते पोतानी आजिविका चलावेछे ते केवल  
 रण करवे करिने पेट नरनारो कहिये ॥१२॥

पुर्वि चख्यूपरिखिवय ॥ पमज्जिउं ॥ जो १० वे ॥  
 आयाणभंडनिखखेवणाइ समित १ मुणी होइ ॥ १२९ ॥

अर्थ ॥१॥ जे साधु ॥२॥ प्रथम एटले ग्रहण  
 कि पेहला ॥३॥ चक्षुत्रे करिने सम्यक प्रकार  
 कन करिने ॥४॥ पछि रजोहरणादिके करिने  
 करिने एटले पुंजिने हरेक कोइ वस्तु प्रते  
 विशेष स्थापन करेछे एटले मुके  
 थाके ग्रहण करेछे ॥८॥ ते मुनी ते साधु ॥९॥

मि थकि वस्तुनु ग्रहण करवुं॥भांड एटले उप  
 । नूमिने विशे निक्षेप एटले मुकवुं तेहने विशे  
 एटले सावधान॥१०॥होय एटले जतना पूर्व  
 ण करतो अथवा मुकतो एहवो जे साधु ते आ-  
 डनिक्षेपणा समितिनो पालनार कहियो॥२९९॥

पासवणखेळजल१॥सिंध्याणएय२पाणविही३॥

इए४एसे५॥निचिरंतो६होइ७तस्समिउ८॥३००॥

॥१॥उच्चार एटले वडिनीत एटले ठंडीजा॥पास  
 टले लघुनीत एटले मात्रु॥खेल एटले मुखनो  
 नह एटले शरीरनो मजा॥सिंध्याण एटले नासि  
 मल एटजा वानां प्रते॥२॥वली॥३॥परठववा  
 ग्य एहवो अशुद्ध आहार पांणिनो विधि ते प्र  
 । रुडी रीते जांणेलो एटले त्रसथावर प्रांणीये  
 रहीत एहवा॥५॥भूमि प्रदेशने विशे एटले स्था  
 विशे॥६॥परठवतो एहवो जे मुनी ते मुनी॥७॥  
 वाने विशे सावधान एटले पारिष्ठापनीका समि  
 पालनारो॥८॥होच॥३००॥

भाणो२भाया३॥लोभो४हासो५रई६अ७अरई८अ९॥

१०भयं११दुगंछा१२॥पच्चखकली१३इमे१४सवे१५॥३०१॥



एटले मांन करेछे ते पूरुप प्रते मांन हस्ती जे  
ए रूप करेछे एटले चार गतिमां जमावेछे. ए  
मांनरूपहस्तीनो स्पर्श न करवो एजाव॥३१२॥

श्रीमहागहनं १॥जो'पविस्इ'साणुवायफारेसविसं'॥

चिरेण'विणस्सइ'माया'विसवल्लीगहनसमा'॥३१३॥

॥१॥जे पुरुष ॥२॥ अनुकुल एहवो वायरो तेना  
थकीज उत्पन्न थयुं एहवुं जे विप तेहणे करीने  
एटले जे वनने विशे वायुना स्पर्श थकीज विप  
छे एहवुं॥३॥विपरूप वेला तेंमणे करीने मोहटुं  
घहन एटले सांकडुं एहवुं जे वन एटले विपरूप  
मोहटुं वन ते प्रते॥४॥प्रवेश करेछे॥५॥ते पूरुप  
ढा कालमां॥७॥विनाश प्रते पांमेछे॥८॥ए प्रकारे  
जे ते पण॥९॥विपवल्लीना वन सरखी जांणवी.

भयागरे'सागरंमि'॥तिमिमगरगाहपूरंमि'॥

विस्इ'सो'पविस्इ'॥लोभमहासागरे'भीमे'॥३१४॥

॥१॥जे पूरुष ॥२॥घोर एटले भयंकर एहवो॥३॥

स्थानक एहवो॥४॥मच्छ मघघर जीव विशेष तेम

ए ते जेहने विशे एटले विहांमणा एहवा जल

करीने पूरण एहवो॥५॥समुद्र तेहने विशे ॥६॥

न होय ॥९॥ सुसाधु जे तेमने पूर्वे कहा एहवा  
ना प्रकार नथी सेवन करवा जोग्य एटले  
होय ते पुद्गलभावने विशेषे रति करे नही ए ॥

उधेवउ<sup>१</sup>अ<sup>२</sup>अरणामउ<sup>३</sup>अ<sup>४</sup>॥अरमंतिया<sup>५</sup>य<sup>६</sup>अरइ<sup>७</sup>य<sup>८</sup>  
कलमलउ<sup>९</sup>अणेगगया<sup>१०</sup>य<sup>११</sup>॥रुत्तो<sup>१२</sup>सुविहियाणी<sup>१३</sup>

अर्थ ॥१॥ उद्वेग एटले धर्मनी समाधि थकी  
वापणुं ॥२॥ वली ॥३॥ पांच इंद्रियोना  
नुं जवुं ॥४॥ वली ॥५॥ धर्मने विशेषे मननुं नरमवुं  
धर्म थकी विमुखपणुं ॥६॥ वली ॥७॥ अरति  
शय चित्तनो उद्वेग ॥८॥ वली ॥९॥ विशयने  
व्याकुलपणुं ॥१०॥ वली ॥११॥ अनेकाग्रपणुं  
मिलतुं मनने विशेषे विचारवुं ए पूर्वे कहा  
ना संकल्प एटले अरतिना प्रकार ॥१२॥  
धुओने एटले उत्तम मुनीयोने ॥१३॥ कयांथकि  
पितु नहिंज होय ए जावा ॥१४॥

सोगं<sup>१</sup>संतावं<sup>२</sup>अधिइं<sup>३</sup>च<sup>४</sup>॥मनुं<sup>५</sup>च<sup>६</sup>वेमणस्सं<sup>७</sup>च<sup>८</sup>॥  
कारुन्नरुन्नभावं<sup>९</sup>॥न<sup>१०</sup>साहुधम्ममि<sup>११</sup>इच्छंति<sup>१२</sup>॥३१॥

अर्थ ॥१॥ शोक एटले पोताना संबंधी लो  
ए थये सते शोक धरवो ॥२॥ संताप एटले

करवो॥३॥वली॥४॥ अधिरज एटले हा इति खेदे  
 म हूं एहवुं गाम अथवा उपाश्र प्रते मुकुं ए प्रका  
 वेचारवुं॥५॥वली॥६॥मनुं एटले इंद्रियोनुं मोकलुं  
 वुं॥७॥वली॥८॥मननुं उदासीपणुं एटले शोके क  
 पोताना घातनुं विचारवुं॥९॥करुणापणुं एटले थो  
 गुं रोवुं, मोटा शब्दे करीने रोवुं॥१०॥साधु धर्मने  
 रहेला एहवा साधु जे ते आ पूर्वे कह्या एहवा  
 लोकना जेद तेहनी मध्येथी एक पण जेद प्रतो॥११॥  
 १२॥इछे एटले साधु मुनिराज जे ते पूर्वे कह्या ए  
 शोक प्रते न करे ए जाव॥३१९॥

१ संखोह विसाड १ मगाविभेड १ विभीसियाड १ अ १ ॥

मगादंसणाणि १ १ ॥ दढधम्माणं कड १ हुंति १ ॥ ३२ ॥

धि ॥१॥ भय एटले क्लीवपणे करीने अकस्मात  
 वुं॥२॥संक्षोज एटले चोरादिक देखीने नासवुं॥३॥  
 द एटले दिनपणुं॥४॥मार्गनो विजेद एटले मार्ग  
 वेशे सिंहादिक प्रते देखीने त्रास पांमवुं ॥५॥विजि  
 एटले वेतालादिक देवता प्रते देखीने जय पा  
 ॥६॥वली॥७॥परना एटले कुतीर्थीयोना जे मा  
 मनुं जय थकी वा अथवा पोताना स्वार्थ थकी दे

खाडवुं एटले परुपवुं अथवा परने एटले ११  
 लनार लोकोने जये करीने मारगनुं देखाडवुं  
 कह्या एहवा सर्वे पण भयना प्रकार ॥ ८॥ ११  
 म ते जेमने एहवा जे साधु तेमने ॥ ९ ॥ ५५५५  
 होय अपीतु नहीज होय ॥ ११ ॥ निश्चे ॥ ३२ ॥  
 कुच्छा<sup>१</sup>चिलीणमलसंकडेसु<sup>२</sup> ॥ उवेवउ<sup>३</sup>अण्डिसु<sup>४</sup> ॥  
 चखुनियत्तण<sup>५</sup>मसुभेसु<sup>६</sup> ॥ नथि<sup>७</sup>द्वेसु<sup>८</sup>दंताणं<sup>९</sup> ॥ ३२ ॥  
 अर्थ ॥ १ ॥ अपवीत्र एहवो जे मल तेंणे क  
 लां एहवां मुएलां कलेवर तेमने विशे एटले  
 ॥ २ ॥ जुगुप्सा एटले निंदा न करवी ॥ ३ ॥  
 विशे एटले मलिन देह वस्त्रादिकने विशे ॥ ४ ॥  
 ग न करवो ॥ ५ ॥ अशुभ एटले कीडायोए म  
 ला एहवा ॥ ६ ॥ द्रव्य मुयेलां कुत्रादिक द्रष्टि  
 आवे सते ॥ ७ ॥ आंख्योनुं पाळुं वालवुं एटले  
 ए करीने न जोवुं ए पुर्वे कह्या जे निंदाना ..  
 दांन्त पूरुपोने एटले इंद्रियो दमि छे जेमणे  
 रुपोने ॥ ८ ॥ न होय एटले दांन्त पूरुप जे ते ..  
 एहवी वस्तुनी निंदा न करे अपीतुं समभाव ..  
 एयंपिनाम<sup>१</sup>नाकण<sup>२</sup> ॥ मुद्रियंति<sup>३</sup>नून<sup>४</sup>जीवस्व<sup>५</sup> ॥

पञ्चत्तीरद्व०॥अतिवलीड०॥कम्मसंघाड०॥३२२॥

॥१॥प्रसिद्ध एटले जिनराजे कहेलो एहवो॥२॥

वै कहेलो कपायादिकनो नियह करवो एटले

खूं त्यारे शीष्य बोल्यो जे पूर्वे कहेला कपाय

रूप प्रते पण॥३॥जांणीने ॥४॥जीवने शुं ॥५॥

॥६॥मुझावुं जोग्यछे?एटलेमुंढपणे धवुं घटीतछे?

मुझावुं घटीत नथी त्यारे कपायादिकना स्वरूप

जांणीने पण क्येम मुझायछे क्येम दुर नथी क

नो उत्तर कहीये छीये॥७॥जीव जे तेंणे फेडवा

जे कपायादिक दूर करवाने॥८॥न॥९॥समरथ थ

ए एटले जीव जेते कपायादिक प्रते दूर करवा

र्थ थतो नथी तेहने विशेष कारण कहेछे जे कारण

१०॥कर्मनो समूह एटले आठ कर्मनो समूदाया॥

गतिशय बलवान वर्ते छे एटले जिहां सुधी कर्मनुं

नपणुं वर्ते छे तिहां सुधि जीव जे ते कपायादिक

करवाने समर्थ थतो ज नथी ए भाव॥३२२॥

इ०बहुसुउ०सम्मउ०य०॥सीसगणसंपरिवुडु०अ०॥धविणि

अ०समए०॥तह०॥तह०॥सिद्धंतपडिणीड०॥३२३॥

॥१॥जेमा॥२॥जेमा॥३॥बहुश्रुत थायछे एटले ब



हृश्रुत सांनल्युं छे जेंणे एहवो अथवा बहु पुता  
 नारो थायछे॥४॥वली॥५॥सम्मत् एटले थजा  
 लोकोने मान्य एटले वल्लभ थायछे॥६॥  
 प्यना समुहे करीने परवरेलो एटले बहु पर  
 ने परवरेलो एहवो थयो सतो पण जे वाद  
 जिनमारगने विशे एटले जिनराजना सिद्धांतने  
 ॥१०॥निश्चय रहित एटले नथी जाण्यो रहस्य  
 णे एहवो एटले अनुभवज्ञान रहित एहवो हे  
 तीमा॥१२॥तीमा॥१३॥सिद्धांतनो एटले जीन  
 प्रत्यनीक एटले वधरी भुत जाणवो.जाण्यो छे  
 जेंणे एहवो थोडुं भणेलो छे तोये ५५ मोक्ष मा  
 राधक जाणवो ए भावा॥३२३॥

पवराइं<sup>१</sup> वधपायासणोवगरणाइं<sup>२</sup> एस<sup>३</sup> विभवो<sup>४</sup> मे<sup>५</sup>॥  
 अवि<sup>६</sup> प्य<sup>७</sup> महाजननेया<sup>८</sup> अहं<sup>९</sup> ति<sup>१०</sup> इह<sup>११</sup> इदृगारविड<sup>१२</sup>॥

अर्थ ॥ १॥हवे रिधि गारवनुं लक्षणा कहिये  
 रो॥२॥आ॥३॥प्रधान एहवा॥४॥वस्त्र पात्र  
 करणादि रुपा॥५॥वैभव एटले संपत्ति वतं छे॥  
 ॥७॥हुं॥८॥महाजननो एटले मोहोटा शे  
 नेता एटले स्वांमिछुं॥९॥इहां॥ १०॥ए प्रकारे



बळ विद्याए करीने एटले वळे करीने अने ६  
 ने ॥१०॥वली ॥११॥तपे करीने ॥१२॥वली ॥१३  
 ना मदे करीने एटले कोइक वस्तु पांमवाना  
 रे करीने पर पुरुष प्रते निंदेछे तेने शुं फळ  
 आवती गाथाए करीने कहेछे ॥३३१॥

संसार ३ मणवयगं १ ॥ नीयठाणाइं ३ पावमाणो ५ ॥  
 भमइ ५ अणंतं ६ कालं ५ ॥ तद्वाउ ९ मए १० विवज्जिजा ११ ॥ ३३  
 अर्थ ॥१॥ अनंतो एटले नथी अंत ते जेहनो  
 ॥२॥ संसार एटले च्यार गतिमां भ्रमण रूप  
 शे पूर्वे कह्यो मदनो करनारो जे जीव ते ॥३॥  
 स्थानक प्रते एटले हीन जातीयादिक प्रते  
 तो सतो ॥५॥ अनंता ॥६॥ काल सुधी ॥  
 अनंतो संसार वधारेछे ॥८॥ नीश्रे ॥९॥ ते का  
 डाह्यो पुरुष ॥१०॥ मद प्रते ॥११॥ विशेषे  
 एटले मद प्रते न करे ए जाव ॥ ३३२ ॥

सुदुवि १ नद ५ जयंतो २ ॥ जःई मयाई सु ५ मुद्रइं ६ नोउ १ ॥

सो ५ मेअब्जरिसी ९ नहा ५ ॥ हरिए सबलुव १० परिहार १०

अर्थ ॥१॥ अतिशय करीने पण ॥२॥ संजमने

धम करतो एहवो ॥३॥ जे ॥४॥ जति एटले सा ५

दिकने विशेषे ॥६॥ मूझायछे एटले अहंकार क  
 ॥ते साधु ॥८॥ जेम ॥९॥ मेतारज रूपि जात्यादि  
 नपणा प्रते पांम्यातेम पांमिछे १०॥ हरिकेशीवल  
 पठम ॥११॥ प्रकर्षे करीने हीन थायछे ॥३३३॥

सुसंकिलिडं<sup>१</sup> ॥ वसहिं<sup>२</sup> इथिकहं<sup>३</sup> च<sup>४</sup> वज्जंतो<sup>५</sup> ॥

णसंनिसिब्जं<sup>६</sup> ॥ निरुवणं<sup>७</sup> अंगुवंगाणं<sup>८</sup> ॥ ३३४ ॥

॥१॥ मनुष्य संवांधि तथा देवता संबंधी स्त्री पशु  
 तिर्यच तेमणे करीने सहीत एहवी ॥२॥ वस्ती  
 उपाश्रय ते प्रते ॥३॥ वली ॥४॥ स्त्रीनी कथा ते प्र  
 र्जे ॥६॥ स्त्री जनना आसन प्रते वर्जे एटले जे  
 स्त्री वेठी होय ते ठेकाणेथी उठ्या पछी वे घ  
 धी भ्रमचारी पूरुप तीहां बेसे नहीं ॥७॥ स्त्री जन  
 गोपांग प्रते एटले चक्षु मुख हृदयादिक प्रते  
 राग बुधीए करीने एटले कांम चेष्टानी बुधीए  
 जुवे नहीं ॥ ३३४ ॥

णुसरणं<sup>१</sup> ॥ इथिन्नणविरहरूपविलवं<sup>२</sup> च<sup>३</sup> ॥

हुअं<sup>४</sup> अइवहुसो<sup>५</sup> ॥ विवज्जंतो<sup>६</sup> अ<sup>७</sup> आहारं<sup>८</sup> ॥ ३३५ ॥

॥१॥ शीलव्रत धारण करचाथी पेहेला ग्रहस्य  
 विशेषे जे कांम क्रीडा करी होय तेहनुं जे संजा

खुं ते प्रते न करे एटले संभारे . . .  
 जनना विरहरूप एटले विजोग रूप . . .  
 ते त्याग करवा जोग्य छे एटले स्त्री  
 विजोगे करीने चिंता करे नही क्येम जे  
 कारणछे ए हेतु मांटे ॥४॥ अतिशे बहु एटले  
 धी ठांसीने आहार खाय नही ॥५॥ वली ॥६॥  
 स्नीग्ध मधुरपणादिके करीने बहु प्रकारे  
 एविवार एहवा ॥७॥ आहार प्रते ॥८॥ वर्जे . . .  
 वजंतो १ अ १ विभूमं २ ॥ जइ वज १ इह १ बंभवेरगुत्तीमु  
 साहू १ तिगुत्तिगुत्तो ५ ॥ निहुड १ दंतो १ पसंतो १ यथा १ ३ ३ ॥  
 अर्था १ २ ॥ वली ॥ २ ॥ विभुपा प्रते एटले शरीर  
 प्रते ॥ ३ ॥ वर्जे एटले न करे ॥ ४ ॥ वली ॥ ५ ॥ त्रिए  
 करीने एटले मन वचन कायाना गोपववे क  
 करवाछे एटले रोक्यांछे मन वचन काया ते  
 यो ॥ ६ ॥ निश्चल एटले शांतपणे करीने  
 रहित एहवा ॥ ७ ॥ पांच इंद्रियोने दमवाने त  
 ॥ ८ ॥ प्रकर्षे करीने शांत एटले जीत्युंछे क  
 जेणे एटले ॥ ९ ॥ साधु जे ते ॥ १० ॥ आ ॥ ११ ॥  
 गुत्ताने विजे एटले आ पूर्व कही जे

विगे वृत्तनी रत्ना करवाने त्रयो॥१२॥ उद्यम करे  
छे आत्मन न करे ए उपदेश॥३३६॥

विद्यमान लक्षणो रंजने॥ नहः यं नरेः नहुं॥

इति च दिष्टिपानयः बंधः दिष्टिपानयः॥३३७॥

पं॥१॥ गुञ्जस्त्यान एटले त्रिनुं चिन्ह, उरु एटले

बलुं जुगल, वदन एटले मुख, काख एटले बगल,

एटले हृदय एटलां वांनांनां अंतर एटले मध्य

प्रते॥२॥ देखीने॥३॥ तेमजा॥४॥ स्त्रीना स्तनना न

नाग प्रते देखीने॥५॥ पूर्वे कल्यां एटलां वांनांय

॥६॥ पीतानी द्रष्टि प्रते॥७॥ ब्रह्मचारी पुरुष जे ते

जे एटले पाछी वाजे॥८॥ स्त्रीनी द्रष्टि साये॥९॥

॥१०॥ द्रष्टि॥११॥ नहीजा॥१२॥ वांये एटले मेखवे नु

राज जे ते कोइ कारण पडे सते निचुं मुख राखीने

प्रते बोखावे ए नाव गुप्तिद्वार सनातः॥३३७॥

विद्यमान लक्षणो रंजने॥ नहः यं नरेः नहुं॥

इति च दिष्टिपानयः बंधः दिष्टिपानयः॥३३८॥

पं॥१॥ स्वाध्याए करीने एटले वाचना पृच्छना

भक्तना अनुप्रेक्षा धर्म कथादि पांच प्रकारे करीने

प्रसन्न एटले रुहुं एहवुं॥३॥ ध्यान एटले धर्म ध्या

नादि ते प्रते सिद्धांतनो जणनार मुनि  
 लो सिद्धांत जणवे करीने॥५॥सर्व परमार्थ प्रते  
 वस्तूना स्वरूप प्रते॥६॥जाणोछे॥  
 एटले सिद्धांतना जणवा गणवाने विशेषे॥  
 हवो जे साधु तेहने॥९॥क्षण॥१०॥क्षणमां  
 डी थोडी वेलामां॥११॥वैराग्य एटले परमा  
 मपणुं॥१२॥थायछे एटले राग द्वेषरूप विषयना  
 वा थकी ते सम्यक् प्रकारे सिद्धांतनो जाणनार  
 निर्विष थायछे ए जाव ॥३३८॥

उद्ध महतिरियलोए॥जोइस वेमाणिया अय सिद्धी॥  
 मज्ञो॥लोगालोगो॥सज्ञायविउस्स॥पद्यस्सलो॥३३३॥

अथो॥१॥ स्वाध्यायनो जाण एटले सिद्धांतनो  
 एहवो जे मुनी तेहने॥२॥उर्द्ध लोकनुं स्वरूप  
 पणे वंत्तंछे॥३॥अथो लोक एटले अधो लोकनुं  
 प॥४॥ त्रिछा लोक एटले त्रिछा लोकनुं  
 ज्योतिष एटले चंद्र सूर्यादिका॥६॥वली॥७॥  
 एटले विमानवासि देवता॥८॥वली॥९॥मोक्षनु  
 ॥१०॥सर्व एहवो आ॥११॥ लोका लोक एटले  
 चोद राज प्रमाण लोक प्रमाण रहिन एहवो

॥१२॥ ए पूर्वे कक्षां एटलां वानां प्रत्यक्षपणे एट  
 साक्षात्पणे वत्तंछे एटले सिद्धांत नणवे करीने सा  
 ननीराज जे ते सर्व वस्तूना स्वरूप प्रते सम्यक्  
 रि जाणेछे ॥३३९॥

निघकाल तव संजमुब्जुउ ॥ नवि करेइ सद्गायं ॥  
 सं मुहशील जणं ॥ नवि तं ठावेइ साहुण ॥ ३४० ॥

॥१॥ निरंतर ॥ २ ॥ तप संजमने विशे एटले वार  
 तप अने सत्तर प्रकारे संजम तेमने विशे उद्यम  
 एहवो ॥ ३ ॥ जे साधु ॥ ४ ॥ स्वाध्याय प्रते एटले सि  
 भणवुं नणाववुं ते प्रते ॥ ५ ॥ नथिज ॥ ६ ॥ करतो ए  
 भणवा भणाववाने विशे उद्यम नथी करतो ॥ ७ ॥  
 सहित एहवो ॥ ८ ॥ ते ॥ ९ ॥ सुख शील जन एटले  
 लिक सुखने विशे लंपट एहवो साधु ते प्रते ॥ १० ॥  
 पदने विशे एटले साधु मारगने विशे ॥ ११ ॥ जि  
 मारगना जाण एहवा जे पूरुप ते नहीज ॥ १२ ॥ था  
 टले जिन सिद्धांतना परमारथना जाण एहवा जे  
 तथा श्रावक ते ज्ञान रहित पोताने छंदे क्रिया  
 आडंवरना करनार पूरुपने साधु पदमां न माने  
 वाव स्वाध्याद्वार समाप्तः ॥ ३४० ॥



विणउ<sup>१</sup>सासणे<sup>१</sup>मूलं<sup>१</sup> | विणोउ<sup>१</sup>संजउ<sup>१</sup>भवे<sup>१</sup> ॥

विणयाउ<sup>१</sup>विण्णमुक्कस्स<sup>१</sup> ॥ कउ<sup>१</sup>धम्मो<sup>१</sup>कउ<sup>१</sup>सतो<sup>१</sup> ॥

अर्थ॥१॥ जिन सासनने विशे ॥२॥ विनय

ता थकी सम्यक् ज्ञानादिक गुणे करीने

पोनो विनय करवो ते ॥३॥ धर्मनुं मूलछे एटले

त एहवो जे पूरुप होय ते साधु तथा आवक

॥४॥ साधु जे ते ॥५॥ विनीत ॥६॥ होया ॥७॥ विनये

॥८॥ रहित एटले गुणी पुरुपोनो विनय न कर

वो जे पूरुप तेहने ॥९॥ धर्म ॥१०॥ कयांथी होय

॥१२॥ कयांथी होय एटले विनय विना धर्म

अने तप पण नही ते माटे विनयने विशे उध

विणउ<sup>१</sup>अ. वहइ<sup>१</sup>सिरिं<sup>१</sup> ॥ लहइ<sup>१</sup>विणीउ<sup>१</sup> तमं<sup>१</sup> च<sup>१</sup>किंनि

न<sup>१</sup> कयाइ<sup>१</sup> दुविणीउ<sup>१</sup> ॥ सकइ<sup>१</sup>सिद्धिं<sup>१</sup> समणेइ<sup>१</sup> ॥

अर्थ॥१॥ विनय जे ते ॥२॥ लक्ष्मि प्रते एटले

अभ्यंतर रूप लक्ष्मि प्रते ॥३॥ पमाडेछे एटले

करीने वाज्य लक्ष्मि धन धान्यादिक तथा

लक्ष्मि ज्ञानादिक गुण पामीएछीए ॥४॥ वली

त पूरुप जे ते ॥५॥ जस प्रते सर्व दीशामां

स कहीए ते प्रत्ये ॥७॥ पांमो ॥ ॥१॥ ॥

एक दीशाने विशे व्यापे ते किर्ति कहीए ते प्रते  
 ॥१०॥दुर्विनीत एटले विनय गुणे करीने रहित  
 ॥११॥पोताना कारजनी सिद्धि एटले नि  
 ॥१२॥कोई दहाडो पण ॥१३॥नही ॥१४॥पामे  
 ॥१५॥अविनित पुरुपने पोताना कारजनी सिद्धि थाय  
 ॥१६॥कारण माटे गुणी पुरुपोनो विनय चूकवो नही.

बहः खमइ ॥ सरीरं ॥ ध्रुवजोगा ॥ जहा ॥ नहा ॥ नहायंति ॥ कम्म  
 ॥ अ ॥ विउलो ॥ विविक्तया ॥ इंदिअदमो ॥ १३ ॥ ३४३ ॥

॥१॥ जेमा ॥२॥ जेमा ॥३॥शरीर ॥४॥खमे एटले जे  
 ॥५॥करवे करीने बल रहीत थाय नही ॥६॥ जेम ॥६॥

॥७॥निश्चल वेपार एटले निरंतर पोताने करवा  
 ॥८॥प्रति लेपणा प्रतिक्रमण नणवा भणाववादि रू

॥९॥क्या ॥१०॥नही ॥११॥हांनि पामे एटले हीन न थाया ॥

॥१२॥बली ए प्रकारे तपना करनार पुरुपोने ॥१३॥विस्ता  
 ॥१४॥एहवो ॥१५॥कर्मनो क्षय थायछे एटले वणा काल

॥१६॥गंधेलां कर्मनो नाश थाय छे ॥१७॥बली ॥१८॥जुदा  
 ॥१९॥करीने एटले आ जीव शरीर थकी न्यारो छे अने

॥२०॥रजीव थकी न्यारो छे ए प्रकारनी जावनाए करीने  
 ॥२१॥इंद्रियोनुं दमवुं पण थायछे एटले इंद्रियो पोताना

विषयथकी पाछीवलेछे एटलेसमा ॥३॥ ॥३॥

माटे समंता सहीत तपने विपे उद्यम करवो ते

बद्धता असक्काणिज्जं ॥ न तरसि काउणधतो ॥

अप्पायत्तं न कुणासि ॥ संजमजयणं ॥ जइजोगं ॥

अर्थ ॥ १ ॥ जो ॥ २ ॥ प्रथम हे शिष्य ॥ ३ ॥ न करी

एहवो साधुनी प्रतिमा रूप जे तप ते प्रते ॥

॥ ५ ॥ नथी ॥ ६ ॥ समर्थ एटले तुं न करी ॥

॥ ८ ॥ प्रसिद्ध एहवी ॥ ९ ॥ अने पोताने वश एहवी ॥

धुने करवा जोग्य एहवी ॥ १ १ ॥ संजमने विपे

एटले पछवाडे कह्या एहवा को ॥ दिकना जपने

क्येमा ॥ १ ३ ॥ नथी ॥ १ ४ ॥ करतो एटले जो तारे ॥

नी शक्ति नथी तो पांच समिति अने ८ गुति

शुं जोर पडे छे ते माटे संजमने विशे उद्यम

नायंमि देहसंदेहयंमि ॥ जइणाइ किंचि संविज्जा ॥ अइ

मज्जो अ निसुद्धमो ॥ अ १ ५ ॥ तो संजमो कत्तो ॥

अर्थ ॥ १ ॥ देहनो संदेह ॥ २ ॥ थये सते एटले माटे

दि कट उत्पन्न थये सते ॥ ३ ॥ जतनाए करीने

रागनी आज्ञा सहित चित्तने विशे दाइ सहित

चित् एटले काइक सावद्य प्रते पण एटले अगुण

कप्रतेपण॥५॥साधु जे ते सेवे एटले ग्रहण करे॥६॥  
 पछी॥७॥वलीजो॥८॥साजो थयो सतो एटले निं  
 थयो सतो॥९॥पाद पूर्ण॥१०॥निरुद्यमी एटलेशु  
 आहारादिक प्रतेग्रहण नथीकरतो अने अशुद्धज ग्र  
 करेछे॥११॥त्यारे ते साधुने॥१२॥क्यांथकी॥१३॥  
 म होय अपितु न होय॥१४॥निश्चे शा कारण माटे  
 कहो छो उत्तर वीतरागनी आज्ञायी अवंली आ  
 ता छे ए हेतु माटे ॥३४५॥

मट१॥जइ१तिगिच्छं१॥अहियासेऊण१बइ१तरइ१सम्मं१॥  
 शासंतस्स१पुणो१॥जइ१से१जोगा१०न१हायंति१॥३४६॥  
 थो॥१॥जो॥२॥जति एटले साधु मुनिराज जंत त रा  
 ल्ये॥३॥सम्यक प्रकारे एटले समता सहीत॥४॥स  
 करवाने॥५॥समर्थ होय॥६॥वली॥७॥जो॥८॥सम  
 हीत सहन करतो एहवो॥९॥ते साधुने ज्या  
 एटले प्रतिलेपणप्रतिक्रमणादिक क्रियाओ॥१२॥  
 २॥हांनि पांमे एटले नाश नहीं थाय तो॥१३॥रा  
 उपाय प्रते॥१४॥न करे एटले औपध प्रते न करे  
 जो संजम जोग सीजाय एटले संजम साधनन वि  
 षांठो पडे तो स्थिवर कल्पी मुनि जे ते अपवादें

श्रौपत्र प्रते करे ए जाव ॥३४६॥

निधं<sup>१</sup>प्रवयणसोहा ॥ करण<sup>२</sup>घरणुञ्जुयाण<sup>३</sup>सात्तुणं<sup>४</sup>

संविग्गविहारीणं<sup>५</sup> ॥ सवपयत्तेण<sup>६</sup>कायवं<sup>७</sup> ॥३४७॥

अर्थ ॥१॥ निरंतरा ॥२॥ जि. ; । सतनी । मे.

एहवा ॥३॥ चारित्रने विशे उद्यमना करनारा

मोक्षना अभिलापे करीने विहारना करनारा

क्षना अभिलापना करनारा एहवा ॥४॥

सर्व प्रयत्ने करीने एटले जेटली पोतानि शक्ति

टली शक्ति बडे करीने ॥५॥ वियावच करवो ते

लस करवो नही ॥६॥

हीणस्स<sup>१</sup> विमुउ परुचगस्स<sup>२</sup> ॥ नाणाहियस्स<sup>३</sup> कायवं<sup>४</sup> ॥

जणचित्तगहणत्थं<sup>५</sup> ॥ करंति<sup>६</sup> वलिंगा<sup>७</sup> उवसेसे<sup>८</sup> रं<sup>९</sup> ॥३४८॥

अर्थ ॥१॥ चारित्रे करीने रहित एहवो एटले

आचारवंत एहवो ॥२॥ सम्यक ज्ञान गुणे करीने

एहवो एटले सिद्धांतना जाणपणायें करीने

एहवो ॥३॥ विशुद्ध प्ररूपक एहवो एटले विशेषे

द्धांतना अनुसारे स्यादवाद शीलिये करीने

पणाओ करनार एहवो जे पुरुष तेहना विष

वाद पारंगं करीने ज्ञानादि कारजने अरे

जोग छे केमजे क्रिया हीन एहवो पिण जे ज्ञा  
हनी वियावच करवी तें घटित छे॥५॥ वली॥६॥  
ना चित्त वश करवाने अर्थे एटले धन्य छे आ पू  
ने के गुणवंत सतापण उपकार बुद्धिये करीने नि  
नो पण वियावच करे छे ए प्रकारे लोकना चित्त  
सन्न करवाने अर्थे॥७॥केवल एक लिंग धारिनो  
थाइतर कारणे लोकापवाद टालवाने अर्थे कोइ  
बते कोइक देशमां॥८॥ संजमनो उपघात टाल  
अर्थे वियावच करे तेहनो विशेष विस्तार सि  
मी जाणवो ॥३४८॥

॥अंगुष्कफलं॥अणुसण्डनं॥गिहथकिच्चाइं॥

॥अडिसेवती॥इवेसंविडं॥गानवरं॥३४९॥

॥२॥असंजत एटले नाम मात्र जे साधु॥२॥ स

पाणिनुं पीवुं ते प्रतो॥३॥फुल फल प्रते एटले जा

फुल अने आंवादिकनां फल ते प्रतो॥४॥अनेपणि

टले आधाकर्मादिक दीपे करीने दुष्ट एहवा आ

दि प्रतो॥५॥ग्रहस्थना कारज प्रते एटले ग्रहस्थो

पापारादिक प्रतो॥६॥सेवन करेछे एटले आचरेछे

ते असंजत केवला॥८॥जतिवेष विडं॥क एटले मु

निराजना वेपने दूषित करनारा एहवा जा  
 लंगारे आतम साधन करनारा नहिं जाणव  
 उसनया भवोही १॥ पवयण उभावणा ५ य ३ बोहि फलं  
 उसनो विं वरं ९ विं हु १० ॥ पवयण उभावणा परमो १३  
 अर्थ ॥ १ ॥ ए पूर्वे कहा एहवा भ्रष्टाचारिये  
 पणुं एटले शिथिलपणुं ॥ २ ॥ अवोधिनुं कार  
 एटले समकित न पांमवानुं कारण जाणवुं  
 रित्रने विशे आलसु थइने पोताने विशे सा  
 न करता एहवा जे प्रांणी ते समकित पांमे  
 पूर्वे पांमेलुं होय ते पण हारी जाय ए जावा  
 ॥ ४ ॥ जिन सासननी उदजावना एटले  
 ॥ ५ ॥ समकित रूप फलनि पमाडनारीछे  
 शासननी उन्नति करघे सते समकित रूप  
 ए ए भावा ॥ ६ ॥ वली ॥ ७ ॥ जिनशासननी  
 ले शोचा वधारवाने विशे प्रधान एटले तप  
 पूरुपा ॥ ८ ॥ करम वशे करीने शिथील आचार  
 ॥ ९ ॥ श्रेष्ठे एटले वाख्यान चरचा वात  
 जिनशासननो शोचावनार एहवो जे  
 ने विशे शिथिल होय तोयें पण श्रेष्ठ जाणव

॥ जोग्य जाणवो ए चावा ॥१०॥ निश्चे ॥३५०॥  
 हीणो गुणरयणायरेसु ॥ जो कुणइ तुल मप्पाणं ॥  
 स्सिणो अ हीलइ ॥ सम्मत्तं कोमलं तस्स ॥३५१॥  
 ॥१॥ गुणे करीने एटले सम्यक् चारित्रे करीने  
 एटले रहित एहवो ॥२॥ जे वेश धारि ॥३॥ गुणना  
 एहवा साधुओनी साथे ॥४॥ पोताना आत्मा प्र  
 तुल्य एटले वरोवर ॥६॥ करेछे एटले अमे पण  
 छीए ए प्रकारे मानेछे ॥७॥ वली ॥८॥ रुडा एहवा  
 प्रस्वी एटले उत्तम एहवा जे मुनिराज ते प्रते  
 हीलना करेछे एटले तेमना श्रवणवाद बोलेछे  
 ते पुरुषनुं ॥११॥ समकिता ॥१२॥ असार थयुं एटले  
 लय मिथ्या दृष्टि थयो क्येम जे गुण अने श्रवगुण  
 रखा करचा ते माटे ॥३५१॥

अस्स गीहस्स व ॥ जिणपवयणतिवभावियमइस्स ॥

इ जं अणवजं ॥ इदमस्सत्तस्स वय्यामु ॥३५२॥

॥१॥ चारित्रने विशे सिथिल एहवो जे पुरुष तेह  
 वा अथवा ॥३॥ जिन एटले तीर्थकर तेमनुं प्रव  
 एटले सिद्धांत तेणे करीने तिव्र एटले निविड चा  
 एटले वासितछे मति ते जेहनी एटले जिनराज



ना सिद्धांतनो जाण एहवो अने व्रत पचतां  
 ने आलसु एहवो॥४॥द्रढे एटले निश्चलछे  
 ते जेहने एटले द्रढ समकीतवंत एहवो॥५॥  
 टले श्रावक तेहनुं कोइक कालने विशे॥६॥  
 वचा॥७॥अवस्थाने विशे एटले कोइक क्षेत्रनी  
 इक कालनी मध्ये॥८॥करीए ते॥९॥पाप रहित  
 दूषणरहित जाणवुं आ वात घाडतर कार जणे  
 पासथोसत्रकुसीळा।नीपसंसक्तं जणमहाछंदं॥  
 नाउण\*तं सुनिहिया॥समपयतेण वसंति॥३५॥  
 अर्थ॥१॥पासथो एटले ज्ञान दर्शन चा  
 मिये रहे ते पासथो कहीए एटले ज्ञान उ  
 त्रे करीने रहित एहवो, उसन्नो एटले चा  
 सिथिल आचारवालो एहवो, कुसील एटले  
 णाना आचारेकरीने रहित एहवो, नीच एटले  
 ये करीने जणवाथकी ज्ञाननो विराधक एह  
 एटले जिहां जेयो मिले तिहां तेनी मंगति  
 तेवो थाप ते संसक्त कहीये एटले रागीनी  
 थाप अने वैरागीनी साथे वैरागी थाप एह  
 था छंदं एटले पानानी मतिये करीने उम्

३॥३॥प्रसिद्ध एहवो॥४॥जन एटले लोक ते प्रते  
 ते तेमना स्वरूप प्रते॥५॥जांणीने॥६॥उत्तम साधु  
 ते पासध्यादिक पूर्वे कह्या तें प्रते॥७॥सर्व उद्य  
 करीने एटले द्रव्यज्ञाव वे प्रकारनी शक्तिये करीने  
 वजें एटले तेमनी संगति प्रते न करे चारित्र वि  
 करनारछे ए हेतु माटे॥३५३॥

माल्यमेसणाउ<sup>१</sup>॥न<sup>२</sup>रख्खइ<sup>३</sup>धाइसिद्धपीडं<sup>४</sup>च<sup>५</sup>॥

हारेइ<sup>६</sup>अभीख्वं<sup>७</sup>॥विगइउ<sup>८</sup>सन्निहिं<sup>९</sup>खाइ<sup>१०</sup>॥२५४॥

१॥१॥हवे पासध्यादिकनां लक्षण कहीएछीए.वेता

एपणा प्रते एटले आहारादिकना वेतालिश दोष

१॥३॥रक्षा करे एटले न निवारे॥४॥वली॥५॥

पिंड प्रत्ये एटले छोकरां रमाडिने पछी आहार

ते प्रते तथा सज्यात्तर पिंड प्रत्ये एटले निरंतर

न करीने आहार लेवो ते प्रते न निवारे॥६॥दुध

प्रमुखवि गयो प्रते कारण विना॥७॥निरंतर॥८॥

ए करेछे॥९॥सन्निधि एटले रात्रिनेविशेअथवारात्रे

ली वस्तू ते प्रते॥१०॥खायछे ते पासथ्यो कहीए.

पनापभोइ<sup>११</sup>॥आहारेइ<sup>१२</sup>अभिख्वं<sup>१३</sup>माहारं<sup>१४</sup>नय<sup>१५</sup>भंडली

मुजइ<sup>१६</sup>॥न<sup>१७</sup>२य<sup>१८</sup>भिख्वं<sup>१९</sup>हिंडइ<sup>२०</sup>अलसो<sup>२१</sup>॥३५५॥

अर्थ॥१॥सूर्यना प्रमाण सुधी एटले सूर्यना  
 मांडीने आथमतां सुधी चोजन करनारो॥२॥  
 दि आहार प्रते॥३॥निरंतरा॥४॥खाय॥५॥वली  
 धुनी मंडलीने विशे॥७॥ना॥८॥जीमे एटले  
 जन करे॥९॥वलि॥१०॥आलसु सतो॥११॥  
 एटले गोचरी प्रते॥१२॥ना॥१३॥जाय एटले  
 रमांथी घणों आहार ग्रहण करे॥३५५॥ ते  
 कीवो<sup>१</sup>न<sup>२</sup>कुणइलो<sup>३</sup>अं<sup>४</sup>॥लज्जइ<sup>५</sup>पडिमाइ<sup>६</sup>बल<sup>७</sup>  
 वाहणो<sup>१०</sup>अ<sup>९</sup>हिंडइ<sup>११</sup>॥बंधइ<sup>१२</sup>कडिपट्टय<sup>१३</sup>मकजे<sup>१४</sup>  
 अर्थ॥१॥क्लीव एटले दीनपणाए करी॥२॥  
 प्रते एटले केशना लोच प्रते॥३॥नथी ॥करतो  
 उसग्ग प्रतेकरतो सतो॥६॥लज्या पांमेछे॥७॥  
 मल प्रते॥८॥दुर करेछे हाथे करीने अथवा  
 रीने शरीरना मल प्रते दुर करेछे॥९॥वली॥१॥  
 डा मोजा सहीत॥११॥हीडेछे एटले साधु पडेते  
 तथा मोजा पेरेछे॥१२॥कारण विना॥१३॥  
 प्रते॥१४॥वांधे छे एटले कोइग्रहस्थ आंव्या  
 ल पट्टो पेहेरेछे॥३५६॥ ते पा०

गामं<sup>१</sup>देसं<sup>२</sup>च<sup>३</sup>कुलं<sup>४</sup>॥ममाण<sup>५</sup>पीठफलपडिबडो॥

सब्जइ<sup>१</sup>॥निहरइ<sup>२</sup>य<sup>३</sup>सर्किचणो<sup>४</sup>रिक्तो<sup>५</sup>॥३५७॥

॥१॥गाम प्रते॥२॥देशप्रते॥३॥वली॥४॥कुलप्र  
ममताए करीने॥६॥विचरे छे एटले आगम त  
॥ तथा कुल हमारं छे ए प्रकारे ममत्व चावे  
सहीत वीचरे छे॥७॥वली॥८॥वाजठ पाट पा  
तेने विशे प्रति बद्ध एटले चोमासाना काल वि  
॥ शेष कालने विशे राखे ॥९॥नवीन घर उपा  
देक कराववाने विशे॥१०॥प्रसंग प्रते कहेछे ए  
मिनी चिंता करे छे॥११॥सुवर्णादि द्रव्य सहीत  
१२॥हूं द्रव्य रहित एहयो निरग्रंथछुं ए रीते लो  
आगळ कहेछे॥३५७॥ ते पा०

तकेसरोमे<sup>१</sup>॥जमेइ<sup>२</sup>अच्छोलदोअणो<sup>३</sup>अजउ<sup>४</sup>॥

य<sup>५</sup>पालियंकं<sup>६</sup>॥अइरेगपमाण<sup>७</sup>पथरइ<sup>८</sup>॥३५८॥

॥१॥नख,दांत, केश,मस्तक संवंधी रोम शरीर  
रुवाडां ते प्रते॥२॥भुपित करे एटले शोचावे॥३॥  
पाणीए करीने हाथ पगादिकनुं धोवुंछे जेहने एटले  
पाणीये करीने हाथ पगादिक धुवे॥४॥अजतनाए  
सहीत एटले द्रव्य चाववे प्रकारे जतना करे नहिं  
जी॥६॥पल्यंकं प्रते एटले मांचा प्रते॥७॥वहन क

रेछे एटले ग्रहस्थनी ५. : नोगवेछे

एटले प्रमाण थकि अधिक संथारा उत्तर

॥९॥ पाथरेछे अटले सुख सज्या प्रते करेछे ॥३॥

सोवइ १५ १ सवराइं ३ ॥ नीसइ १ मचेयणो ३ न था १ अरइ ॥

मडंततो १ पविसइ १ ॥ निसिहियावस्सियं १ २ न १ १ करेइ ॥

अर्थ ॥ १ ॥ वली ॥ २ ॥ अतीशय ॥ ३ ॥ चेतना ॥

लाकडांती पठम ॥ ४ ॥ सर्व रात्रिने विशेषे एटले

च्यार पोहोर सुधी ॥ ५ ॥ सुइ रहे एटले १ ५ ॥

वली ॥ ६ ॥ न ॥ ७ ॥ स्वाध्याय करे एटले १ ३ ॥

लुंगणे नहिं ॥ ९ ॥ प्रमार्जन करतो सतो ॥ १

प्रवेश करे एटले रात्रिने विशेषे रजोहर्णादिके

भूमि प्रते अप्रमार्जन करतो शतो उपाश्रयने

वेश करे ॥ १ २ ॥ नीसहियावसहि प्रते एटले

मां पेसवाने अवसरे निसहि केहवि अते ॥

अवसरे आवस्सहि केहवि ते प्रते ॥ १ ३ ॥ न ॥

एटले आवस्सहि निस्सहि रूप साधु समा

नथी साचवतो ॥ ३ ५ ॥ ते पा ०

पाय १ पहे १ न १ पमडजइ ३ ॥ जुगमायाए १ न १ सोहए १ दोरे १

पुढवोदगअगणिमारुअ ॥ वणस्सइतसेमु १ निराविस्सो १

॥१॥मार्गने विशेषे चालतो सतो एटले गामनी सी  
 विशेषे प्रवेश करतो सतो अथवा गांम थकि निक  
 सतो॥२॥पग प्रते॥३॥न॥४॥प्रमार्जे एटले पूजे  
 ॥५॥जुग प्रनाण भुमिने विशेषे एटले साडात्रण हा  
 र्वा च्यार हाथ भुमिने विशेषे॥६॥इर्या प्रते एटले  
 ना नारग प्रते॥७॥ना॥८॥सोधे एटले जुवे नहि  
 थवीकाय, अपकाय, तेउकाय, वायुकाय, व  
 तेकाय, त्रसकाय, एटलां वानाने विशेषे॥९॥अपे  
 हित एटले पृथव्यादिक छकाय जीव प्रते विराध  
 तोसतो शंका पांमे नहि एटले बीहे नहि॥३६॥

येवं उक्तं ॥ नपेहए नय करेइ च्छायं ॥

ते शंकरो ॥ लहुड गणभयतमिद्धो ॥ ३६ ॥

॥१॥सर्व॥२॥थोडि॥३॥उपधि प्रत्ये एटले थोडा  
 डी उपधि केवल मुख वस्त्रिका प्रते पण ॥४॥न  
 डिलेहेवे एटले प्रतिपण करे नहि॥५॥स्वाध्या  
 ते एटले नणवुं नणवुं ते प्रते॥६॥नहिजा॥७॥  
 एटले नथी करतो॥८॥रात्रिने विशेषे सुतापछि घा  
 प्रते करे॥९॥कलह प्रते करे॥१०॥हलको हो  
 एटले गंजीर गुणे करीने सहित नहोय॥११॥गण

नो जेद करवाने विशे एटले साधुना  
करवाने विशे तत्पर होय ॥३६॥

खित्ताइयं भुंजइ ॥ कालाइयं तहेव आसिंरं  
गिण्हइ ॥ अणुइयसूरे ॥ असणाइ अहर ॥

अर्थ ॥ १ ॥ क्षेत्रा अतिक्रांत एटले वे

त क्षेत्र थकि आणेला आहारादिक प्रते

टले खाया ॥ ३ ॥ काला अतिक्रांत एटले वे

मां आणेलो आहारादिक प्रते त्रण

जोगवे एटले खाया ॥ ४ ॥ तेमजा ॥ अदत

पेलुं आहारादिक जोगवे ॥ ६ ॥ सूर्यन उगे

र्य उग्याविना ॥ अरानपांनखादिम

अथवा ॥ ९ ॥ उपगरण प्रते एटले वत्त

१० ॥ ग्रहण करे एटले अंगिकार करे ए पूर्ण

जे लक्षण तेणे करीने सहीत ए तेजे पूर्ण

कहिएवली आगल पासथानां लक्षण

टवणकुळे न टवेइ ॥ पागथेहि च मंगयं पुणं

निघमवभाणरउ ॥ न १२ य पेहरमात्रणमं

अर्थ ॥ १ ॥ स्थापना कुल प्रते एटले वृ

साधुने अर्थ अतिशे जकिनां करनारां ए

प्रते॥२॥ना॥३॥धापी राखे एटले कारणविना ते  
 विशे गोचरि जाया॥४॥वली॥५॥पासध्यात्रोनी  
 एटले भ्रष्टाचारिओनी साथे॥६॥संगतप्रते एटले  
 इ प्रत्ये॥७॥करोटा॥निरंतरा॥९॥अपध्यानने विशे एट  
 छ ध्यानने विशे रक्त एटले तत्परा॥१०॥वली॥११॥  
 करीने जोइने वस्तुनुं ग्रहण करवुं रजो हरणा  
 करीने प्रमाज्या विना वस्तुनुं भुमिने विशे स्था  
 रवुं ते वे वानां करवानुं शिल एटले आचारछे  
 एहवो॥१२॥न होय एटले जोया विना तथा  
 त्यां विना वस्तु ले मुके॥३६३॥

इति श्रीवदवाए मूढो परिभवइ तहय श्रायणीए॥

मिनिवंगिहइ॥निहुरभासी॥विगहसीलो॥१॥३६४॥

॥१॥वली॥२॥उतावलो उतावलो॥३॥चाले॥४॥

॥५॥मूर्खसंतो॥६॥ज्ञानादि गुण रुप रत्ने करीने

क एटले मोहटा एहवाजे पुरुष ते प्रते॥७॥परा

करे एटले उत्तम मुनियोनी उपर इप्यां करो॥८॥पा

अवर्णवाद् प्रते॥९॥ग्रहण करे एटले लोकोनी

करो॥१०॥निष्टुर एटले कठिण जाया प्रते बोले

विकया करवानो छे स्वभाव ते जेहेनो एटले रा



जकथा-देश कथादिक विकथाओ करे ॥ ३६ ॥

विद्यं<sup>१</sup> मंतं<sup>२</sup> योगं<sup>३</sup> ते गिच्छं<sup>४</sup> ॥ क्रुणइ<sup>५</sup> भुइकम्मं<sup>६</sup> च<sup>७</sup> ॥

अख्खरनिमित्तर्जावी<sup>८</sup> ॥ आरंभपरिग्गहे<sup>९</sup> रमइ<sup>१०</sup> ॥ ३७ ॥

अर्था ॥ १ ॥ विद्या प्रते देविए करीने अधिष्ठित

हित ते विद्या कहिए ते प्रते ॥ २ ॥ मंत्र प्रते

करीने अधिष्ठित एटले सहित ते मंत्र कहि

॥ ३ ॥ जोग प्रते एटले चूर्णादिक अंजन करवे

दश करवुं ते प्रते ॥ ४ ॥ चिकित्सा प्रते एटले

पाय प्रते ॥ ५ ॥ करे ॥ ६ ॥ वली ॥ ७ ॥ भूतिकर्म प्रते

रख्या प्रते मंत्रीने ग्रहस्थ लोकोने आपे ॥ ८ ॥

खववे करीने तथानिमित्त एटले शुनाशुननुं

करीने प्रकाश करवुं तेणे करिने आजीवीका

छे शिल ते जेहनं एटले अक्षर शिखववे करे

मित्त केहेवे करिने आजीविका चलावना

एटले पृथव्यादिक प्राणिनुं मरदन करवुं

ह एटले चौद उपगरण उपरांत राखवुं ते

ग्रहने विशेष ॥ १० ॥ रमे एटले आशक्त पाया

कड्ढेण<sup>१</sup> विणा<sup>२</sup> उग्गह<sup>३</sup> ॥ मणुजाणावेइ<sup>४</sup> धदिवसउ<sup>५</sup> सु-

अड्ढियत्ताभं<sup>६</sup> भुंजइ<sup>७</sup> ॥ इत्थिनिसिद्यासु<sup>८</sup> अ<sup>९</sup> ॥

१॥कार्य॥२॥विना एटले फोगटा॥३॥अवग्रह प्र  
 वे स्थान प्रते॥४॥जणावे एटले काम पड्या वि  
 स्थानि आज्ञा लेइने तेमनी भूमिका प्रते ग्रह  
 ॥५॥दिवसने विशेषे॥६॥सुइ रहे एटले कारण वि  
 से उंघे॥७॥साध्विना लाज प्रते एटले साध्वि  
 णेला आहारादिक प्रते॥८॥भोगवे॥९॥स्त्रीयोना  
 नि विशेषे॥१०॥समस्त प्रकारे क्रिडा करे एटले स्त्री  
 उठ्या पछी ततकाल ते स्थानकने विशेषे वेसे॥३६६॥

॥साधवणे॥॥खेले॥सिंघाणए॥अणाउत्तो॥॥

॥गडवहीणं॥॥पाडिकमइ॥सवासपाउरणो॥॥३६७॥

॥१॥ठंडिलने विशेषे॥२॥मुत्रने विशेषे॥३॥मुखना श्ले  
 विशेषे॥४॥नासिकाना मलने विशेषे॥५॥असावधान  
 उपयोग विना ठंडिलमात्रु श्लेष्म नासिकानुं म  
 ट्यां वानां प्रते परठवे॥६॥संधाराने विशेषे अथवा  
 नि विशेषे वेठो सतो॥७॥वस्त्रनुं ओढवुं तेणे करिने  
 न एटले वस्त्र ओढीने॥८॥पडिकमणुं करे॥३६७॥

॥इ॥वाहे॥नइणं॥॥तळियाणं॥॥तह॥करेइ॥परिभोगं॥॥

॥द॥अपुवदवासे॥॥नपख्वपरपख्वउमाणे॥॥३६८॥

॥१॥नार्गने विशेषे॥२॥जतना प्रते॥३॥ना॥४॥करे

एटले रस्ते चालतां इर्या समिति साचवे  
 मजा॥६॥खासडां तथा मोजाओनो ॥  
 ॥८॥करे एटले पगरखां प्रते तथा कारण  
 प्रते पेहरे॥९॥वर्षा कालने विशे पण॥१०  
 ॥११॥पोताना पक्षनी मध्ये एटले साधुओनी  
 ने परपक्षनी मध्ये एटले अन्य दर्शनियोनि  
 पमान थये सते अजोग्य सतो विहार करे॥  
 संजोअइ<sup>१</sup>अइबहुअं<sup>२</sup>॥इंगालसधुमगं<sup>३</sup>अणडाए<sup>४</sup>॥  
 भुंजइ<sup>५</sup>स्वन्नलडा<sup>६</sup>॥न९धरेइ<sup>१०</sup>अ<sup>११</sup>पायवुंछणयं<sup>१२</sup>  
 अर्थ॥१॥संजोजना करे एटले जुदांजुदा  
 हवा जे द्रव्य तेहने स्वादने अर्थे एकठा  
 तिसे बहू आहारादिक प्रते॥३॥जिमे॥४॥५॥  
 करीने रूडा आहारादिक प्रते राग बुद्धिये  
 मे सधूमगं एटले अनिष्ट आहारादिक प्रते  
 करिने एटले मुख मचकोडिने जिमे॥६॥  
 टले क्षुधा वेदनादि तथा वैयावचादिक छ  
 आहारपाणीवावरो॥६॥नत बलवधारवान  
 जन करे॥७॥वली॥८॥रजो हरण प्रते॥९॥ना  
 अइमछट्टचउथं<sup>१</sup>॥संवच्छरचाठमासपखवेसु<sup>२</sup>॥

३७०॥ सायबहुलो ॥ नद्यविहरइ ॥ मासकण्ठेणं ॥ ३७०॥  
 १॥ सुखशीलियो सतो ॥ २॥ संवत्सर पर्वने विशे  
 चोमासि पर्वने विशे तथा पस्वि पर्वने विशे ॥ ३॥  
 तप प्रते छठ तप प्रते तथा चतुर्थ ऋक्त तप प्र  
 ५॥ करे एटले संवत्सर पर्वने विशे सुखशीलि  
 करिने न करे ए रिते चोमासि पर्वादिकने विशे  
 जाण्णुं ॥ ६॥ वली ॥ ७॥ मास कल्पे करिने ॥ ८॥  
 विचरे एटले शिखाकाल एटले उनाला सीयाला  
 नव कल्पि विहार करे नहि ॥ ३७०॥

३७१॥ पिंडं ॥ एगागी ॥ अछए ॥ गिहथकहो ॥  
 १॥ अहिज्जइ ॥ अहिगारो ॥ लोगगहणंमि ॥ ३७१॥  
 १॥ नित्या ॥ २॥ पिंड प्रते ॥ ३॥ ग्रहण करे अमुक घे  
 आटलुं जेवुं एहवा निमपुर्वक ग्रहण करवुं ते नि  
 पिंड कहिये ॥ ४॥ एकजो ॥ ५॥ रहे एटले साधुना समु  
 विशे वसेनहि ॥ ६॥ ग्रहस्थ लोकोनि पठम प्रवर्ति  
 एटले व्यवहार चलावे ॥ ७॥ पापश्रुत प्रते एटले जो  
 वेदकशास्त्र, कोकशास्त्रादिक प्रते धर्मनी बु  
 करीने ॥ ८॥ भाणे ॥ ९॥ लोकनां मन रंजित करवाने  
 एटले मनावा पूजाववाने अर्थे लोकनां चित्त वश क

खाने विशेषे ॥१०॥ अधिकार प्रते करेछे एटले  
 थायछे पण पोताना अनुष्ठानने विशेषे अथेस  
 परिभवइ ४ उगकारी ३ ॥ सुदं ० मगं ५ निगुहए श्रालो ॥  
 विहरइ १ ० सायागुरुउ २ ॥ मंजमविगलेमु ८ खित्तिसु ९  
 अर्थ ॥१॥ अज्ञानि एटले अजाण एहवो  
 टले सुख तेहने विशेषे गुरुक एटले लंपट  
 लिक सुखने विशेषे लंपट थयो सतो ॥२॥ उभ  
 रनार मुनिराज प्रते ॥४॥ पराजव करे ॥५॥ शुद्ध  
 दर्पण एहवा ॥६॥ मार्ग प्रते एटले मोक्ष मार्ग  
 ओलवे एटले ढांके ॥८॥ संजमे करीने रहित  
 मना पालनार मुनियोयें करीने रहित एहवा  
 त्राने विशेषे ॥१०॥ विचरे ॥ ३७२ ॥

उग्गाइगाइ १ हसइ ३ य २ ॥ असंबुडो ४ सइ ५ करेइ ६ क  
 कडजचित्तगो ९ वि १ ० य ८ ॥ उसन्ने १ १ देइ १ २ गिणहइ १ ३ वा १  
 अर्थ ॥१॥ आक्राशपणे करीने एटले मोहोटा  
 ने गांन करे ॥२॥ वली ॥३॥ हांसिकरे ॥४॥  
 पोहलुं छे मुख ते जेहनुं एहवो सतो ॥५॥  
 कंदर्प प्रते एटले कामती चेष्टा प्रते ॥७॥  
 वली ॥९॥ ग्रहस्थना कार्य प्रते चिंतन करे ॥

साधुने एटले साधु मारग पालवाने वि  
 ह्वाने वस्त्र पात्रादि प्रते ॥१२॥ आपे ॥१३॥  
 पासे थकि ॥१४॥ ग्रहण करे ॥३७३॥

हिंइ ॥ घराघरं ॥ भमइ ॥ परिकहंतो ॥ य ॥

॥ य ॥ अइरित्तं ॥ वहइ ॥ उवगरणं ॥ ॥ ३७४ ॥

कथाओ प्रते केवल लोकना चित्तने रि  
 ॥ भणे ॥ ३ ॥ वली ॥ ४ ॥ धर्म कथाओ प्रते क

घरघर प्रते ॥ ६ ॥ जमे एटले धर्म कथा क  
 घर प्रते चिक्षाने अर्थे जमे ॥ ७ ॥ वली ॥ ८ ॥

माणे करीने एटले साधुना चौद उपकर  
 ना पच्चीस उपकरण जेटलां लांवां पो

कह्यां छे ते थकि ॥ ९ ॥ अधिक एटले सं  
 गांण थकि वधारे ॥ १० ॥ उपकरण प्रते ॥ ११

एटले राखे ॥ ३७४ ॥

तेनि ॥ य ॥ काइय ॥ उच्चार ॥ काल ॥ भूमीउ ॥ अंतो ॥

इयासे ॥ ॥ अणहियासे ॥ ३ ॥ न ॥ पडिलेहे ॥ १ ॥ ३७५ ॥

॥ वारा ॥ २ ॥ लघुनितिने जोग्य एटले मात्रु कर

ग्य एहवी ॥ ३ ॥ वारा ॥ ४ ॥ वडिनितिने योग्य ए

डिल करवाने जोग्य एहवी ॥ ५ ॥ वली ॥ ६ ॥ त्रयण

॥७॥कालग्रहणनेजोग्य एहवी॥८॥भुमिओ  
 न प्रते॥९॥उपाश्रयनी मध्ये॥१०  
 यनी बाहिर॥१२॥मात्रा ठंडिल प्रते सहन  
 मर्थ॥१३॥मात्रा ठंडिल प्रते सहन न करि  
 वा साधुने अर्थे॥१४॥न॥१५॥पडिलेहवे  
 त्रु ठंडिल सहन करि साकिएतो छेटे मः  
 ठववाने जोग्य एहवी भुमिओ प्रते नपडि  
 सम्यक प्रकारे जुवे नही अने जो सहन न  
 एतो समिप रहेली एहवी मात्रु ठंडिल ५१०  
 भुमि प्रते सम्यक प्रकारे जुवे नहिए प्रकारे  
 ठंडिलनी चुमीयो प्रते उपाश्रय मांहि तथा  
 पयोग सहित जुवे नहि॥३७५॥

गीयथ्यं संविगं १॥आयारेअं मुअइ वलइ  
 य अणापुच्छा १॥जं १० किंचिवि १ देइ १ गिण्हइ १ वा

अर्थ॥१॥गितार्थ एटले सूत्रना जाण एहवा  
 क्षना अभिलापि एहवा॥३॥पोताना यमा  
 ४॥मुके एटले कारण विना तजे॥५॥साधुना  
 ने शिखामणना देनारा एहवा॥६॥ गुरुप्रते  
 बोले॥८॥वली ॥९॥गुरुमाहाराजने

ना विना ॥१०॥ जे ॥११॥ कांइ पण वस्तु परने ॥१२॥  
 ॥१३॥ अधवा ॥१४॥ गुरुमहाराजनी आज्ञाविना प  
 सेयी ग्रहण करे ॥ ३७६ ॥

॥ ३७७ ॥ भुंजइ ॥ शिडजा संधार उवगरण जायं ॥

॥ ३७८ ॥ नृनंति भासइ ॥ अविणी उ ॥ गवि उ ॥ लूदो ॥ ३७९ ॥

॥ ३८० ॥ गुरु महाराजने जोगववा जोग्य एहवो ॥ २ ॥

॥ ३८१ ॥ एटले रहेवानी वसति, संस्तारक एटले त्रणादि

॥ ३८२ ॥ संधारो उपकरण कपडा कांवलियादिक तेमनो

॥ ३८३ ॥ एटले समुह ते प्रते ॥ ३ ॥ पोते जोगवो ॥ ४ ॥ गुरु महा

॥ ३८४ ॥ बोलाव्यो सतो ॥ ५ ॥ अविनीत एहवो ॥ ६ ॥ अहंकारी

॥ ३८५ ॥ विषयादिकने विशेषे लंपट एहवो थयो सतो ॥

॥ ३८६ ॥ ए प्रकारे टुकारे करिने ॥ १ ॥ गुरुमहाराज प्रते बोला

॥ ३८७ ॥ ए हे जगवन ए प्रकारे बहू मांन सहित नबोलावे.

॥ ३८८ ॥ खलवाणा गिलाण सेहनाला उलस्स ॥ गच्छस्स ॥

॥ ३८९ ॥ रेइ ॥ नेय ॥ पुच्छइ ॥ निदम्मो ॥ लिंग ॥ मुक्कीवि ॥ ३९० ॥

॥ ३९१ ॥ मोहटा पचखाणना करनारा एटले अनश

॥ ३९२ ॥ तपना करनारा ग्लान एटले रोगी ॥ शिष्य एटले

॥ ३९३ ॥ नित साधु, बाल एटले नाना साधुए पूर्वे कह्या ए

॥ ३९४ ॥ साधुओए करिने, व्याप्त एटले सहित एहवो ॥ २ ॥



जे गच्छ एटले साधुनो समुदाय तेहनि वेष .  
 ते पोते ॥३॥न॥४॥करे अने वलि जाणपुरुष ३ .  
 हिंजा॥६॥पुछे एटले हुंस्युं करुं ए प्रकारे पुछे न  
 धर्म रहित एहवो सतो॥८॥लिंगं प्रते एटले  
 मुहपत्ति प्रते॥९॥जीवाडनारो एटले लोकोनि  
 वल एक लिंगनी थापना करिने तेज लिंगे  
 जीविकानो चलावनारो एहवो होया॥३७८॥

पहगमणवसाहिआहारसुअणथंडिलविहिपरिठवणं॥  
 ना३यरइनेव६बाणइ॥अद्यावद्यावणं६चेव८॥३७९॥  
 अर्थ॥१॥मार्गने विशे चालवुं, रेहेवाने अर्थ  
 नुं जाचवुं, आहारनुं ग्रहण करवुं, शयन करवुं  
 वुं, थंडिलनुं सोधवुं एटले शुद्ध सुमिनुं जोवुं, ५३  
 एटलां वानांनो जे विधि ते प्रते॥२॥अशुद्ध  
 णिनुं परठववुं एटले तजवुं ते प्रते जाणतो  
 र्म रहित छे ए कारण माटे॥३॥न ॥४॥  
 सिद्धांतमां कह्या प्रमाणे विधि साचवे नहि  
 जाणवानो स्वप करेज नहि॥५॥साधिवने ३५  
 टले संजमने विशे उद्यम कराववो ते प्रते  
 नहिंजा॥७॥जाणे॥८॥निश्चो॥३७९॥

अथ ननु उटापसो अणो अपणेण चरणेण ॥

अथ ननु कनो गी ॥ बहुजीवखयं करो भनइ ॥ ३८० ॥

॥ पोताना छंदे करिने चाखवुं सुवुंछे जेहने ए

पोतानी इच्छाए करिने चाखनारो अने पोतानी

करिने उठनारो अने पोतानी खुशिये करिने

हेनारो एहवो ॥ १ ॥ पोतानि मति कल्पनाए करि

हेनारो एहवो ॥ २ ॥ चाचारित्र तेणे करिने चाखनारी ए

हेनारो एहवो ॥ ३ ॥ नानाधु नुनिराजना गुण ज्ञानादिक नेहने ए

हेनारो एहवो ॥ ४ ॥ जेणे एहले जेणे एहले ज्ञानादिक

करिने रहित एहवो ॥ ५ ॥ ध्यायणा जेदने एहवो

हेनारो एहवो ॥ ६ ॥ उतमारगनी देवनाए करिने एहवो

हेनारो एहवो ॥ ७ ॥ ननु उटापसो अणो अपणेण चरणेण ॥

अथ ननु कनो गी ॥ बहुजीवखयं करो भनइ ॥ ३८० ॥

॥ पोताना छंदे करिने चाखवुं सुवुंछे जेहने ए

पोतानी इच्छाए करिने चाखनारो अने पोतानी

करिने उठनारो अने पोतानी खुशिये करिने

हेनारो एहवो ॥ १ ॥ पोतानि मति कल्पनाए करि

हेनारो एहवो ॥ २ ॥ चाचारित्र तेणे करिने चाखनारी ए

हेनारो एहवो ॥ ३ ॥ नानाधु नुनिराजना गुण ज्ञानादिक नेहने ए

हेनारो एहवो ॥ ४ ॥ जेणे एहले जेणे एहले ज्ञानादिक

करिने रहित एहवो ॥ ५ ॥ ध्यायणा जेदने एहवो

मत प्रते एटले रागादि रूप रोगनुं उक्कप्टु  
 जिनराज चापित धर्म प्रते ॥ ३ ॥ न जाणतो  
 अहंकारि एहवो ॥ ५ ॥ ज्ञान रहित एहवो  
 रिध्रमण करेछे ॥ ७ ॥ वली ॥ ८ ॥ किंचित मात्र  
 पोताने तुल्या ॥ १० ॥ न ॥ ११ ॥ देखे एटले सर्व  
 प्रते त्रणा समांन गणे ॥ ३८१ ॥

सच्छंदगणणउठाणसोअणो भुंजइ गिहीणं च ॥

पासथ्याइठाणा ॥ हवंति एमाइया एए ॥ ३८२ ॥

अर्थ ॥ १ ॥ पोतानी खुशी प्रमाणे चालवुं

छे जेहने-आ विशेषणनुं फरिने ग्रहण करवुं

हनुं कारणजाणवुं जे गुरूनिआज्ञा ॥ ३ ॥

थाय नहि ए प्रकारे जणावाने अर्थे ॥ २ ॥

मध्ये ॥ ३ ॥ जोजन करे एटले ग्रहस्थानि साये

आहार पाणि करे ॥ ४ ॥ ए आदि देइने ॥ ५ ॥

जे सर्वते ॥ ६ ॥ पासथ्यादिकनां स्थानका ॥ ७ ॥

पूर्वे कहरां जे लक्षण ते सर्वे पासथ्यादिकनां

नो हुंजउ असमथ्यो रोगेण ॥ व ॥ पाल्लिउ प्ररियदेह

सवमापि जहाभणियं ॥ कयाइं ८ ॥ तरिइ १ ॥ काउं १ ॥

ए पासथ्यादिकना लक्षणनु द्वार समाप्त ५०

प्रभ करेते त्वारे स्युं साधु नथि ए प्रकारनि आशं  
दुर करवाने अर्थे गुरु महाराज उत्तर कहेछे॥

॥१॥ जे साधु॥२॥सन्नावे करिने असमर्थ एट  
रहित एहवो॥३॥होवा॥४॥अथवा॥५॥रोगे क  
एटजे खांति स्वास ज्वरादिके करिने॥६॥पिडा  
मो एहवो॥७॥जिरण थयोछे देह ते जेहनो एट  
एहवो सतो॥८॥कदाचित एटजे कोइक वखत  
पण एटले समस्त पण॥९॥जेम कह्युं तेम  
करवाने अर्थे॥१०॥ना॥११॥समर्थ थाय एटले न  
मके॥१२॥वाक्य शोभवाने अर्थे॥१३॥

॥१४॥ निवृत्तकर्मवत्तायधीइवलं अग्रहंतो ॥

॥१५॥ इति चरितं श्रीगुरु जयंतो अस्तु ॥ १६॥ ॥३८४॥

॥१॥ वली॥२॥ते पण एटले पूर्वे कह्यो एहवो  
॥३॥साधु॥४॥पोतानुं प्राक्रम एटले पोताना संघय  
बल । व्यवसाय एटले शरीरनों उद्यम । धीरज  
संतोष । बल एटले मननु बल एटलां वांनां प्र  
म ओलवतो एटले न गोपवतो सतो॥६॥ कुट  
प्रने एटले कपट सहित आचरण प्रतो॥७॥ मु  
एटले तजिने॥८॥वारित्रने विशे उद्यम करतो ए

हवो सतो ॥९॥ जरुरते ॥ १० ॥ साधु कहीये  
नो भगो संबंध जाणवो ॥३८४॥

अलसो १ सढो २ वलित्तो ३ ॥ आलंबणतत्परो ४

एवं ५ धिउवि ६ मन्नइ १ ॥ अप्यणं २ ० मुछिउ ४ मिंत्त ५ ३

अर्थ ॥१॥ हवे कपटी साधुनु स्वरुप कहे

रणीने विशे आलसु ॥२॥ मायावि एटले क

हंकारि ॥४॥ आलंबनने विशे तत्पर एटले

पे करिने प्रमाद सेववाने विशे तत्परा ५

मादि एटले निद्रा विकथा करनारो ॥६॥ ए

रहेलो एहवो सतो पणा ॥८॥ सुस्थितछुं

छुं ॥९॥ ए प्रकारनि बुद्धिये करिने ॥१०॥

॥११॥ मानेछे एटले पोताना आत्मा प्रते

ते कपटी समकित रहित जाणवो ए जाय

जो २ वि ५ य १ पाडेऊणं ६ ॥ मायामोमोहिं १ खाइ २ मुद्र प्रणं

निगाममझवामी १ सो ८ सो अइ १ कवडखवगुव १ ॥३

अर्थ ॥१॥ वली ॥२॥ ज मायावि ॥३॥ माया

ने एटले कपट सहित जुटु बोलवे करीने ॥

नेते पोताने वश करीने ॥५॥ अजाण लोक

निश्चो ॥८॥ ते पुरुषा ॥९॥ त्रयण गानने

एले त्रइण गामानि वचे रहेलि जे अटवि तेहने  
 वसतो एहवो॥१०॥कपट तपस्वी एटले कपट  
 मासखमण तपनो करनारो तेहनी पठेमा॥११  
 करणे एटले जेम ते कपटी तापस पोताना आ  
 ते शोच करतो सतो अतिशय दुःखनु भाजन  
 ए प्रकारे वीजोय पण जे पुरुष धर्मने विशे कप  
 छे एटले इह लोक परलोकना सुखने अर्थे त  
 म कित्यादिकने अर्थे धर्म करणि करेछे ते पुरु  
 नो सेवनार थायछे ते कारण माटे कपट दुर  
 जोग्यछे ए भावा॥३८६॥

१०।समथो १।सच्छंदो १।ठाणवासी १।उसन्नो १॥

११।संजोगा १।जह १।बहुआ १।तह १।गुरु १।हुंति १॥३८७॥

॥१॥ एकाकी धर्मनो बंधव एहवो जे शिष्य ते  
 रने रहित एहवो॥२॥ ज्ञानदर्शन चारित्र तेहने  
 रहेनारो॥३॥गुरुनी श्राज्ञाये करिने रहित एह  
 निरंतर एक स्थानकने विशे रहेनारो॥५॥प्रति  
 दि क्रियाने विशे सिधिल॥६॥ए पूर्वे कह्या ए  
 पासव्यादि दोष तेमनी मध्ये द्विकादिक संजो  
 एटले वे संजोगि त्रण संजोगि चार संजोगि

पांच संजोगि ते थकि॥७॥जे प्रकारे जे पु०  
॥८॥घणा दोपा॥९॥होयछे॥१०॥ते प्रकारे ॥  
करिने नारे थायछे एटले विराधक थायछे  
पनी वृद्धिना नांगा देखाडियेछे॥

## द्विकसंयोगी भांगा १०

## त्रिकसंयोगी भांगा १

एकाकी	पासथो	एकाकी	पासथो	
एकाकी	सछंदो	एकाकी	पासथो	३५
एकाकी	स्थानवासि	एकाकी	पासथो	३
एकाकी	उसन्नो	एकाकी	सछंदो	५
पासथो	सछंदो	एकाकी	सछंदो	७
पासथो	स्थानवासि	एकाकी	स्थानवासि	५
पासथो	उसन्नो	पासथो	सछंदो	५
सछंदो	स्थानवासि	पासथो	सछंदो	७
सछंदो	उसन्नो	पासथो	स्थानवासि	७
स्थानवासि	उसन्नो	सछंदो	स्थानवासि	७

## चतुसंयोगी भांगा ५

एकाकी	पासथो	सछंदो	३५
एकाकी	पासथो	सछंदो	३५
एकाकी	पासथो	स्थानवासि	३५
एकाकी	सछंदो	स्थानवासि	३५
पासथो	सछंदो	स्थानवासि	३५

पंचसंयोगी भांगो १

पासथ्यो | चछंदो | स्थानवासि | उत्तरो  
 रीते सर्व मलीने छविस भांगा जाणवा श्रेटले  
 एक साधु एकाकी होय अने पासथ्यो पण होय  
 एक साधु एकाकी होय अने पासथ्यो होय अने  
 पण होय कोइ एक साधु च्यारें पद सहीत  
 कोइक पांच पद सहीत होय ए रीते छवीस  
 दोपनी वृद्धीना जाणवा ॥३८७॥

अनुसंगी ॥ गुर्वेरी ॥ अनियवासि ॥ भाउत्तो ॥

संजोगी ॥ संजम आराहगा ॥ भणिया ॥ ॥३८८॥

॥१॥ हवे आराधक साधुनु स्वरूप केहेछे ॥  
 अने विशेषे रेहेलो ॥२॥ ज्ञानादिक सेवन करवाने वि  
 धनवंतो ॥३॥ गुरुनी सेवानो करनार ॥ ४॥ एक ठेका  
 हे नहि एटले मास कल्पादिके करिने विहारनो  
 लारो ॥ ५॥ प्रतिक्रमणादिक क्रियाने विशेषे उपयोग  
 ए पूर्वे कथां जे पांच पद तेमना ॥ ७॥ संजोगे  
 एटले पूर्वे गाथानि पठेम द्विकादिक संजोगे क  
 संजमना आराधक एहवा ॥ ९॥ कथाछे एटले  
 एक साधु गच्छ गत होय अने ज्ञानादिकनो सेव



नार पण होय ए रिते कोइक त्रइण पद सहित  
चार पद सहित कोइक पांच पद सहित ए रिते  
स भांगा जाणवा ॥३८८॥

निम्मम<sup>१</sup>निरहंकारा<sup>२</sup> ॥ उवउत्ता<sup>३</sup>नाणदंसणचरित्ते<sup>४</sup> ॥

एगाखित्तेवि<sup>५</sup>ठिया<sup>६</sup> ॥ खवंति<sup>७</sup>पोराणयं<sup>८</sup>कम्मं<sup>९</sup> ॥३८९॥

अर्थ ॥ १ ॥ ममत्व जावे करीने रहित एहवा ॥ २ ॥

कारे करीने रहित एहवा ॥ ३ ॥ ज्ञान दर्शन चारित्र्ये  
शे एटले विशेष बोध रूपज्ञानने विशेष तत्वनि  
न रूप दर्शनने विशेषे आश्रयनु रोकवुं ते रूप चारि  
विशे ॥ ४ ॥ उपयोगवंत एटले सावधान एहवाजे महा

राजा ॥ ५ ॥ एकक्षेत्रने विशेषे एटले एक देशने विशेषे

रह्या सता ॥ ७ ॥ पूर्वभवनुं उपार्जन करेलुं एहवां

वर्णादि कर्म ते प्रते ॥ ९ ॥ स्वपावेछे एटले विनाश

जिपकोइमाणमाया<sup>१</sup> ॥ जियलोहपरीसहा<sup>२</sup>य<sup>३</sup>ने<sup>४</sup>अर्थ ॥

बुद्धावासेवि<sup>५</sup>ठिया<sup>६</sup> ॥ खवंति<sup>७</sup>चिरसंचियं<sup>८</sup>कम्मं<sup>९</sup> ॥

अर्थ ॥ १ ॥ जित्याछे क्रोध मान माया ते

वा ॥ २ ॥ बली ॥ ३ ॥ जित्याछे लोभने परिसह

टले लोभ संज्ञा रहित एहवा क्षुधा

रिसहना सहन करनार एहवा ॥ ४ ॥ जे

साधु तो॥६॥वृद्धा अवस्थाने विशेषे पण॥७॥एक क्षेत्र  
विशेषे रह्या सता॥८॥घणाकालसुधी संचेलुं एटले  
कठुं करेलुं एहवुं जे॥९॥कर्म ते प्रते॥१०॥खपावेछे  
मजे सत आचारवंत साधु मुनिराजने कोइक कार  
करिने एक ठेकाणे रेहेवानी पण जिनराजनी आ  
छे ए हेतु माटे॥३९०॥

पंचसमिया प्रतिगुत्ता॥उद्युत्ता संयमे तवे चरणे॥

ससयंपि वसंता॥शुमुणिणो आराहगा भणिया॥३९१॥

अर्थ॥१॥पांच समितिये करिने समिता एटले साव  
न एहवा॥२॥त्रइण गुप्तिये करिने गुप्ता एटले मन  
चन कायाने अशुच वेपारथि निवारिने शुच जोगने  
विशेषे एटले शुच वेपारने विशेषे जोडता एहवा॥३॥सं  
जमने विशेषे एटले सत्तर प्रकारे संजमने विशेषे अथवा  
कायनी रक्षा रूप संजमने विशेषे॥४॥तपने विशेषे ए  
टले छ प्रकारे अभ्यंतर अने छ प्रकारे बाज्य ए वार  
कारे तपने विशेषे॥५॥चारित्रने विशेषे एटले पंच महा  
घनी क्रियारूप चारित्रने विशेषे॥६॥उद्यमवंत एहवा  
मुनिराज जे ते॥८॥सो वरस सुधी पण॥९॥एक  
त्रने विशेषे रह्या सता॥१०॥आराधक॥११॥कहाछे केम

जे जिन आज्ञाना पालनार साधुओने एक ठेकाणे  
पण दोष नथी ए कारण माटे आराधक कहा

तद्वा १ सवाणुजा २ ॥ सवनिसेहो ४ य ५ परयणे १ नथि ५ ॥

आयं १ वयं १ नुलिब्जा २ ॥ लाहाकंखि ४ व ५ वाणियउ ५ ॥

अर्थ ॥ १ ॥ ते कारण माटे ॥ २ ॥ प्रवचनने विशे

न शासनने विशे ॥ ३ ॥ सर्व वस्तुनि अनुज्ञा ५०

ज्ञा आज प्रमाणे करवुं ए प्रकारे ॥ ६ ॥

करिने सर्व वस्तुनो निषेध एटले आ न करवुं

रे ॥ ६ ॥ नथि केमजे स्याद वाद रूपपणुंछे ए

॥ ७ ॥ जेम ॥ ८ ॥ लाजनी आकांक्षि एटले लाजनी

॥ ९ ॥ वांणियो ॥ १० ॥ लाभ प्रते ॥ ११ ॥ हांनि प्रते

लना करे एटले विचारे तेम साधु जे ते शासन

णना लाज प्रते तथा ज्ञानादिक गुणनी

विचारे एटले जेम लाजनी अर्थि एहयो वांणियो

वस्तुने विशे लाज जाणे ते वस्तु प्रते ५०

तेहनी पठम साधु पण पोताना पदने

दैनपणे लाजालाज विचारे ए जाव ॥ ३९ ॥

धम्मंनि १ नथि १ माया १ ॥ न १ य १ क्वटं १ आणुअस्सिमादिं

दुदनागडं १ मकुटिलं १ ॥ धम्मवयणं १ मुहत्तयं १ ज्ञानं १ ॥

१॥ गुरु महाराज शिष्य प्रते कहेछे हे शिष्य  
 ने विशेष एटले सत्य एहवो जे साधु धर्म तेहने वि  
 २॥ माया एटले ठगाइपणुं॥३॥ नथी केंमजे माया  
 ने धर्मने अतिशय वैरिपणुंछे ए हेतु माटे ॥४॥ वली  
 ५॥ धर्मने विशेष कपट एटले परने ठगवुं॥६॥ नथि॥७॥  
 ८॥ अनुवृत्ति ए करिने बोलवुं एटले परने वश क  
 ने अर्थे मायाकारि एहवुं परनिंदा दाक्षणता ए करि  
 जे बोलवुं ते पण धर्मने विशेष पण नहोय॥९॥ प्रगट  
 अक्षर ते जेहना एहवुं अने प्रगट एटले लज्या र  
 त एहवुं ॥१०॥ अकुटिल एटले माया रहित एहवुं  
 १॥ सरल एटले मोक्षनुं कारण एहवुं जे वचन हो  
 २॥ धर्मनुं वचन॥१३॥ जाण्य एटले जाणवुं॥३९३॥  
 १॥ धम्मस्स २॥ भडक्का ३॥ उक्कोडा ४॥ वंचणा ५॥ कवडं ६॥ वा ७॥  
 ८॥ च्छंमो ९॥ किर १०॥ धम्मो ११॥ सदेवमणुआसुरे १२॥ लोए १३॥ ३९४॥  
 १॥ वलि॥२॥ अतिशय आडंबर देखाडवा थकि  
 ३॥ धर्मनुं साधन॥४॥ नहोय ॥५॥ जो आ वस्तु मने  
 ६॥ तो माहरि करिने राखुं ए प्रकारनी वृष्णाए क  
 ७॥ धर्मनुं साधन नहोय॥६॥ वलि॥७॥ परने ठगवुं  
 ८॥ करिने॥८॥ वलि॥९॥ कपटे करिने एटले मायानि

चेष्टाए करिने धर्मनुं साधन न थाय एटले धर्म  
 न्न न थाय॥१०॥ देव एटले वैमानिक देवता  
 एटले मृत्यु लोकना रहेनारा असुर एटले  
 वासी देवता तेमणे करिने सहित एहवो ॥११॥  
 तेहने विशे तिर्थकर महाराज जे तेमणे॥१२॥  
 हित एहवो॥१३॥ धर्म कह्योछे॥१४॥ किर एटले  
 भिष्म<sup>१</sup> गीय<sup>२</sup> मगोए<sup>३</sup>॥ अभिसेए<sup>४</sup> तह<sup>५</sup> य<sup>६</sup> चेत<sup>७</sup> रायणि<sup>८</sup>  
 एवं<sup>९</sup> तु<sup>१०</sup> पुरिसवधुं<sup>११</sup>॥ दवाइ<sup>१२</sup> चउविहं<sup>१३</sup> सं<sup>१४</sup>॥३॥  
 अर्थ॥१॥ पेहेली पुरुपनी श्रोलखाण करवी ते  
 केहेछे आ साधु॥२॥ गीतार्थ छे के॥३॥ अगीतार्थ  
 वली॥४॥ तेमज॥६॥ उपाध्याय छे अथवा ॥५॥  
 ॥७॥ निश्चे ॥ ८॥ रत्नाधिकछे॥९॥ ए प्रकारे ॥१०॥  
 ११॥ पुरुषरूप वस्तु विचारीने एटले प्रथम  
 ते श्रोलखीने॥१२॥ वाकि रहेलुं॥१३॥ च्यार  
 १४॥ द्रव्यादिक एटले द्रव्य क्षेत्रकाल जावप्रते  
 रे एटले लाजालान विचारे ए कारण माटे  
 पूर्ण विचार करवो ए जाव॥३९५॥

चरणायामो<sup>१</sup> दुर्वहो<sup>२</sup> ॥ मूळगुणे<sup>३</sup> खंभ<sup>४</sup> उन्नगुणे<sup>५</sup> ॥

अ<sup>६</sup> मूळगुणे<sup>७</sup> उट्टाणा<sup>८</sup> ॥ गढमो<sup>९</sup> पुण<sup>१०</sup> नवविहो<sup>११</sup> ॥ नय<sup>१२</sup> ॥

१॥ चारीत्राचार एटले चारीत्रनो आचार ॥ २ ॥ वि  
 ३ ॥ मूल गुणरूप ॥ ४ ॥ उत्तर गुणरूप ॥ ५ ॥ नि  
 ६ ॥ वली ॥ ७ ॥ मूलगुणने विशेष ॥ ८ ॥ छ स्थानक छे एट  
 ९ ॥ महाव्रतने छठुं रात्रिभोजन ते रूप छभेदछे ॥ १ ॥  
 १० ॥ ते स्थानकने विशेषण एटले पूर्वेकह्यां छ महा  
 ११ ॥ पेहेलुं महावृत ॥ १२ ॥ नव प्रकारे ए  
 १३ ॥ पांचवेरिंद्रियादिकचार एनव प्रकारे प्रा  
 १४ ॥ विपातयकि विराम पांमवुंते रूप नवचेद वालुं होय.

१५ ॥ सोत्तमाग्निमनहनड<sup>१</sup> वा<sup>२</sup> भवे<sup>३</sup> चउद्दाउ<sup>३</sup> ॥

१६ ॥ अरगुणणेगाविहो<sup>१</sup> ॥ दंसणनाणेसु<sup>२</sup> अठठ<sup>३</sup> ॥ ३९ ॥

१७ ॥ शेष एटले वाकि रह्यां पांच बीजां महावृता  
 १८ ॥ मूलगुण उत्कृष्ट मध्यम जघन्य चेदे करिने त्रण  
 १९ ॥ र वालां जाणवां ॥ २ ॥ अथवा द्रव्यक्षेत्रकाल भाव  
 २० ॥ करिने ॥ ३ ॥ च्यार प्रकारे ॥ ४ ॥ होय ॥ ५ ॥ उत्तरगुणने  
 २१ ॥ एटले गोचरि समिति जावनादिरूप तेहने विशेष  
 २२ ॥ प्रकारनो आचार जाणवो ॥ ६ ॥ दर्शन ज्ञानने वि  
 २३ ॥ आठआठ आचार जाणवा एटले दर्शनने विशेष  
 २४ ॥ समकितने विशेषे निरुसंकिय निकंखिय इत्यादि  
 २५ ॥ आचार जाणवा ज्ञानने विशेषे कालेविणये बहुमा

ए इत्यादि आठ आचार जाणवा ॥३९७॥

नं नयद् अगीयथो ॥ न च ॥ अनिस्सिउ जयद्  
वद्भवेद् गच्छं ॥ अणंतसंसारिउ ॥ होइ ॥ ३९८ ॥

अर्थ ॥ १ ॥ अगीतार्थ एटले सिद्धांतनो अजाण  
संतो ॥ २ ॥ जे कांड ॥ ३ ॥ तपक्रियाने विशे उद्यम  
४ ॥ वलि ॥ ५ ॥ अगीतार्थनी निश्रायें रह्यो सतो  
कांड ॥ ७ ॥ उद्यम करेछे एटले क्रिया अनुष्ठान  
टले अगीतार्थना हुकम प्रमाणे चाले  
तार्थ सतो गच्छ प्रते ॥ ९ ॥ प्रवर्तवि छे एटले  
नुष्ठानने विशे प्रेरे छे ॥ १० ॥ अनंत संसारि ॥ ११  
एटले पूर्वे कह्या जे त्रए पुरुष उत्कृष्ट जांगे  
लसुधि संसारने विशे परिभ्रमण करेछे गीत  
या अनुष्ठान मोक्ष फलदाइ थायछे ॥ ३९८ ॥

कहउ नयंतो साहु ॥ वद्भवेद् गच्छं तु ॥  
संनमनुत्तो ॥ होउ ॥ अनंतसंसारिउ होइ ॥ ३९९

अर्थ ॥ १ ॥ हवे शिष्यगुरु प्रते पुछेछे, हे नयंतो  
जमने विशे उद्यम करतो एहवो ॥ २ ॥

छे शी रीते ॥ ४ ॥ अनंतसंसारि ॥ ५ ॥

साधु ॥ ८ ॥ गच्छ प्रते ॥ ९ ॥ तपसंजमने विशे प्रवर्त

शो॥१॥वलि॥११॥संजमे करीने सहित एहवो॥११॥

ने केन अनंत संसारि थाय॥३९९॥

सं चित्तं कालं ॥ भावं भुरित्तपडित्तेवणाउ ॥ ५ ॥

वे प्राणइ अगीउ ॥ उत्सर्गववाइयं १० वेव १ ॥ ४०० ॥

शो॥१॥हवे गुरु तेनो उत्तर कहेछे, हे शिष्य अगी

एहवो जे साधु तो॥२॥द्रव्य प्रते॥३॥खेत्रप्रते॥४

प्रते॥५॥भावप्रते न जाणो॥६॥वलि॥७॥पुरुषप्रति

नाप्रते एटले आ पुरुष जोग्य छे के अजोग्य छे

प्रकारे अने प्रतिसेवना प्रते एटले पापना सेवन

आ पुरुषे पोताना वश पणे पाप शेव्युं छे अथवा

वश पणे शेव्युं छे ए प्रकारे॥८॥नहिंज॥९॥जाणो॥

उत्सर्ग अपवाद प्रते एटले सामर्थ्य पणुं सते जे प्र

सिद्धांतनां कह्युंछे ते प्रकारे करवुं ते उत्सर्ग कहि

रोगादिक कारण सतें थोडा दोषनुं सेववुं ते अपवाद

हिये; ते वे धर्मों प्रते न जाणो॥६१॥निश्चो॥४००॥

वेव १ ॥ ४०० ॥

वेव १ ॥ ४०० ॥

शो॥१॥जयार्थ एटले जेहवुंछे तेहवुं॥२॥द्रव्य प्रते

जे द्रव्यना स्वरूप प्रते॥३॥जाणो॥४॥सचित्त



अचित्त मिश्र प्रते न जाणे ॥६॥ निश्चये ॥७॥ वलिः  
 ल्प अकल्प प्रते एटले आ वस्तु कल्पवा  
 आ वस्तु नथि कल्पवा जोग्य ए प्रकारे न  
 वलि ॥१०॥ तेमज ॥११॥ जेने एटले वाल  
 ॥१२॥ जे ॥१३॥ जोग्य ॥१४॥ होय ते प्रते पण न  
 बहठियं १ खित्तं २ न ३ ज्ञाणाइं ४ अज्ञाणे ५ जणवए ६ अज्ञं  
 पि ७ य ८ न वि ९ ज्ञाणइ १० सुभिखुखदुभिखुखजं ११ कपं १२  
 अर्थ ॥१॥ वली अगीतार्थ एहवो सतो जथार्थ  
 ॥२॥ क्षेत्र प्रते एटले आ क्षेत्र रुडुंछे अथवा  
 ए प्रकारे क्षेत्रना स्वरूप प्रते ॥३॥ न ॥४॥  
 विहार करवा जोग्य एहवा मारगने विशे ॥६॥  
 ॥७॥ विहार करवा जोग्य एहवा देशने विशे  
 ॥९॥ कहुं विधिनुं स्वरूप ते प्रते ॥१०॥ हिज ॥  
 ए एटले मारग संबंधी तथा देश संबंधी  
 कहेलो एहवो जे विधि ते प्रते जाणे  
 ॥१३॥ काल प्रते पण एटले कालना स्वरूप  
 जाणे ॥१४॥ सुनिक्ष कालने विशे तथा दुर्निक्ष  
 विशे एटले सुकाल दुकालने विशे जे वस्तु  
 ल्पवा जोग्य अकल्पवा जोग्य प्रते न जाणे

हृदिगिलाणं१॥नवि३जाणइ३गाढागाढकप्पं९च९॥

महुगुरिस्त्वथं०॥वथू८मवथं१०॥च९नवि११जाणइ१३॥४०३

१॥आवाव द्वारने विशे॥२॥ निरोगी तथा ग्लानं

एटले आ साधु निरोगीछे ए कारण माटे एहने

स्तु आपवा जोग्य छे अने आ साधु ग्लानं छे

ए माटे एहने तो आहिज वस्तु आपवा जोग्य

प्रकारे॥३॥नहिं जा॥४॥जांणे॥५॥वलि॥६॥गाढा

कल्प प्रते एटले गाढ कारण सते एटले मोहटुं

पड्ये सते आ करवा जोग्य छे अगाढ कारण

एटले स्वभाविक कारज पड्ये सते आ प्रमाणे

जोग्य छे ए प्रकारे न जांणे॥७॥समर्थ शरिरवा

समर्थ शरिरवालुं एहवुं पुरुपरूप वस्तु प्र

ते समर्थ पुरुप प्रते तथा असमर्थ प्रते न जांणे

स्तु प्रते एटले आचारजना स्वरूप प्रते॥९॥वलि

अवस्तु प्रते एटले सामान्य साधुना स्वरूप प्र

॥नहिंजा॥१२॥जाणे॥४०३॥

१॥चउद्ध१॥आउड्विपमायदप्पकप्पे९च९॥

१॥अगीत१॥पच्छितं१०॥चेव११॥जं९तथ८॥४०४॥

१॥अगीतार्थ एटले नथी जांण्यो सिद्धांतनो र

करतो एहवोय पण॥३॥अगीतार्थ जे तेने  
 ह्या एहवा ॥५॥दोष लागे छे॥६॥  
 करिने एटले अगीतार्थना वचने करिने तप  
 शे उद्यम करतो एहवो जे बीजो पुरुष तेहने  
 वें कहेला दोष लागेछे ॥७॥वनि॥  
 त्वावतो एहवो जे अगीतार्थ तेने पण पूर्वे  
 लागेछे॥१०॥वली॥११॥जे पुरुष॥१२  
 गच्छ प्रते॥१४॥आपे एटले मूरखने  
 प्रते आपे ते पुरुषने पण पूर्वे कहेला एहवा  
 नी आज्ञानंगादिक दोष लागेछे॥१५॥

अबहुस्सुउ तवस्सी॥विहारिउंकामो अजाणिऊणपहं  
 अवरहपयसयाइ॥काऊणविउजो५न९जाणेइ१०॥४१  
 अर्थ॥१॥अबहुश्रुत एटले  
 वो॥२॥तपस्वी एटले घाड तपनो करतारो  
 मोक्ष मारग प्रते॥४॥जाण्याविना॥५॥विहार  
 एटले विचारवानीछे इच्छा ते जेहने  
 साधु॥७॥अपराधनां पद एटले स्थान तेमनां  
 प्रते एटले शइकडो दोष प्रते॥८॥करिने पण  
 शइकडो दोष सेवतो सतो पण॥९॥



का॥१॥नं॥१२॥होय एटले अज्ञान कष्ट  
 अपरिच्छिद्यसुयानिहसस्स॥किवल॥  
 सवुहत्तमेणवि॥कयं॥अत्राणतवे॥बहुं॥पडइ॥४१५॥  
 अर्थ॥१॥ नथि जाण्यो सूत्रनो सार ते ज  
 ॥२॥एक॥३॥ टिकादिके करिने रहित एहवुं  
 तेणे करिने चालतो एटले टीका जाण्यो  
 करिने रहित एहवुं केवल एक सूत्र तेहने  
 चालतो एहवोजे पुरुष तेणे॥४॥सर्वउद्यमे का  
 एटले घणि मेहेनते करिने॥५॥करयुं एहवुं॥  
 क्रिया अनुष्ठानादि ते ॥७॥अज्ञान तपने  
 अज्ञान कष्टने विशे॥८॥पडेछे एटले अज्ञान  
 पायछे ए उपर दृष्टांत कहेछे॥४१५॥

सह॥दायंमि॥पहे॥तस्स॥  
 किलिस्सइ॥धिय॥तह॥लिंगायार॥सुभमित्तो॥  
 अर्थ॥१॥जेम कोइक पुरुषे रस्ताना  
 ने॥२॥मार्गो॥३॥देखाडे सते पण ॥४॥  
 ॥६॥विशेष प्रते एटलेआ जमणी मारगछे  
 मारगछे ए प्रकारे॥७॥न जाणती एहवो॥  
 चालनारा॥९॥कलेश प्रते पांमेछे

गोहटा दुख प्रते पांमेछे ॥ १० ॥ निश्चे ॥ ११ ॥ तेम ए  
 ए ट्टांते करिने ॥ १२ ॥ केवल सूत्रना अक्षर मा  
 जाण एहवो ॥ १३ ॥ साधुनो वेश अने आचार ए  
 क्रिया ते बेनो धारण करनार एटले सूत्रना पर  
 अनो अजाण एहवो सतो पोतानि मतिये करिने  
 नोवेश लेइने क्रिया करतो सतो कलेश प्रते पांमेछे

१॥ कल्प १ ॥ सण २ ॥ मणे सण ३ ॥ चरणकरणे ४ ॥ सेहा विहिं ५ ॥

१॥ उत्तविहिं ६ ॥ ६ ॥ द्वाइ गुणे सु ७ ॥ अट समगं १० ॥ ११ ॥ ७ ॥

१॥ कल्प अकल्प्य प्रते एटले साधुने लेवा जो

अपवा अलेवा जोग्य प्रते ॥ २ ॥ आहारनि श्रुद्धि प्रते

आहारना दोष प्रते ॥ ४ ॥ चरणसितरि करण सितरि

एटले मूल गुण उत्तर गुण प्रते ॥ ५ ॥ शीष्यना विधि

एटले नवा दिक्षित साधुने शिखामण देवाना विधि

॥ ७ ॥ ७ ॥ प्रायश्चितना विधि प्रते एटले आलो

दिक दश प्रकारना प्रायश्चित आपवाना विधि

॥ ८ ॥ ८ ॥ ८ ॥ द्रव्यादि गुणने विशे एटले द्र

व्यकाल जावने विशे अने उत्तम मध्यम गुणोने

१० ॥ समग्र एटले संपूर्ण प्रते अजाणतो सतो एट  
 जाणतो सतो. (आपद सर्व ठेकाणे जोडवुं) ॥ ११ ॥ ७ ॥

पञ्चावणविहिं १ मुद्रावणं २ च ३ ॥ अङ्गाविहिं १ निरवसेसं ॥  
उत्सर्गाववायविहिं २ ॥ अयाणमाणो ३ कंहं ४ जयउ ५ ॥ ४१

अर्थ ॥ १ ॥ दिक्षा आपवाना विधि प्रते ५

पुरुषोने दिक्षा आपवाना व्यवहार प्रते न  
सतो ॥ २ ॥ वलि ॥ ३ ॥ उपस्थापना प्रते एटले

च्चारण कराववाना विधि प्रते ॥ ४ ॥ संपूर्ण ॥  
ना विधि प्रते एटले साध्विने

ते ॥ ६ ॥ उत्सर्ग अपवादना विधि प्रते एटले  
पालवो ते उत्सर्ग कहिए अने कारण पड्ये स

वुं पडे ते अपवाद कहिये ते वे व्यवहार  
गाथाने विशेष कहा एहवा सर्व प्रकार प्रते न

सतो एटले अवहुश्रुत एहवो लिंग धारण  
तो ॥ ८ ॥ शिरिते ॥ ९ ॥ मोक्ष मारग आराधवाने

म करि शके अपितु न करि शके ॥ १० ॥

सीमापरियक्रमेण १ यथा ॥ नणेण २ ॥ सिप्य ३  
नम्रांते ४ बहुविहाइं ५ ॥ न ६ चरुसुमित्तानुसरियाइं ७ ॥ ४१

अर्थ ॥ १ ॥ लोक जे तेंणे ॥ २ ॥ शिष्य आपा  
क्रमे करिने एटले जेम विद्यानो अर्थि विनय

जाचाजादिक प्रते प्रसन्न करिने विद्या प्रते ॥

ए प्रकारे विनय सहित गुरु पासै थकि एटले क  
 ारज पासैथि॥३॥ गृहण कर्यां एटले शिख्यां ए  
 ॥४॥नांना प्रकारनां एटले बहु प्रकारवालां एहवां  
 शिल्प शास्त्रादिक एटले चित्रामण वेपारादिकनि  
 श्रो॥६॥जांणीए छीए एटले लौकिकमां पण लो  
 नय सहित सिखे छे तो तेहने सम्यक प्रकारे जां  
 णुं थायछे॥७॥निश्चे॥८॥चक्षु दर्शन मात्रे करिने  
 तर्यां एटले पोतानी मेले शिख्यां एहवां जे शा  
 ॥९॥न शोभा पांमे एटले गुण नणि थाय नहि जे  
 ष माटे लौकिकमां पण ए प्रकारे छे तो लोकोत्त  
 रगनुं शुं कहेवुं ए भाव॥४१९॥

उद्यमिउं १जाणइ २॥नाणी ३तवसंयमे ४उवायविउ ५॥

६सुखमित्तदरिसण ८॥सामायारिं ९न १०याणंति ११॥४२०॥

११॥जेमा १२॥उपायनो जांण एटले कर्म रहित

१३उपाय प्रते जांणतो एहवो॥३॥ज्ञानी पुरुष॥४॥

संजमने विशे॥५॥उद्यम करवाने॥६॥जांणे छे ए

सिदांतना जांण पणे करिने जेहवी रीते उद्यम क

१४छे ते प्रकारे जांणे छे॥७॥तेम॥८॥केवल च

१५ते देखवे करिने॥९॥साधुनि समाचारि प्रते॥१०॥



ना॥११॥ जाणे एटले पोतानां जथार्थ जाण  
 ने जेहवुं ज्ञान थायछे तेहवुं केवल परना  
 रिने जाणपणुं थाय नहिं ए कारण माटे  
 पासे पोताने जथार्थ जाणपणुं करवानो  
 सिष्णाणि२य२सुत्थाणि४य८॥ ज्ञाणंतोवि९नय९जुंजइ  
 फलं१०न११दुंजइ१२॥ इय१३अजयंतो१५जई१६नाणी१७

अर्थ॥१॥जे पुरुष॥२॥शिल्प प्रते एटले  
 प्रते॥३॥वलि॥४॥शास्त्रप्रते एटले व्याकर  
 प्रते॥५॥जाणतो सतो पण॥६॥  
 प्रवर्त्तवि एटले ते शास्त्रमां कहेली क्रिया प्रते  
 रतो॥८॥पादपूर्णे॥९॥ते पुरुष ते शिल्पा  
 ॥१०॥फलधन लाजादिक रूप ते प्रते॥११  
 जोगवे एटले न पांमे॥१३॥ए प्रकारे॥१४  
 हवो॥१५॥साधु॥१६॥अजतना प्रते करतो  
 साधु थइने सिद्धांतमां कह्या प्रमाणे जतना  
 सतो मोक्ष रूप फल प्रते न पांमे॥४२१॥  
 गारवतियपडिबद्धा१॥संयमकरणुद्गमंभि२सीअंता१॥  
 निगंनूष्गणाड४॥हिडंति५पमायरन्नांभि६॥४२२॥  
 अर्थ॥१॥गारवनात्रिकने विशे एटले



नाणाहियस्स १नाणं २पुञ्जइ ३नाणा ४पवत्तए ५चरणं ॥  
 पुणं ६दुन्हइ ७कंपि ८नथिं ९तस्स १०पुञ्जए ११काइं १२  
 अर्थं ॥१॥ज्ञाने करिने अधिक एटले स  
 रिने पूरणं एहवो जे पुरुप तेहनुं ॥२॥ज्ञानं ॥३  
 एटले ज्ञानि पुरुप स ४क २ ॥ करिने पू  
 जे कारण माटे ज्ञान थकि ॥५॥ चारित्र  
 टले ज्ञानवांन पुरुप चारित्र प्रते प्रवर्तवि छे ॥  
 ॥८॥जे पुरुपने ॥९॥वेनि मध्येथी एटले ज्ञान  
 वे मांहिथी एके पण ॥१०॥नथी ॥११॥ते पुरु  
 ॥१३॥पूजनीक थाय एटले स्युं पूजवा जोग्य  
 पितु काइ नहि एटले ज्ञान चारित्र रहित  
 रुप ते मानया पूजवा जोग्य न जांणवो ५  
 नाणं ३चरित्तहीणं २ ॥लिंगगहणं ४च ५दंसणविणं ६च ॥  
 संयमहीणं ९च १३तवं १०जो १चरइ ४निरथयं १२तस्स १  
 अर्थं ॥१॥जे पुरुपा ॥२॥चारित्रे करिने रहित ५  
 नाव वे प्रकारे चारित्रे करिने रहित ६ह्युं ३  
 टले द्रव्य ज्ञान ते प्रते ॥४॥आचरे छे ॥५  
 र्शन विना एटले समकित विना ॥७॥लिंगनुं  
 प्रते एटले साधुना वेश प्रते धारण करे

मे करिने रहित एहवुं॥१०॥ तप प्रते आचरे छे ए  
 स्वदया परदया विना तप प्रते करेछे॥११॥ ते पु  
 १२॥ सर्व निरर्थक एटले निस्फल जाणवुं एटले  
 कया ज्ञान तपादिक, मोक्ष फलदायक थाय न  
 भाव॥१३॥ निश्चे॥१४२६॥

बहाखरो चंदणभारवाही१॥ भारस्त्रभागी१ नहु०  
 चंदणस्त्र१॥ एवं स्त्रुं नाणे१२ चरणेण१० हीणो११  
 कपस्त्र१३ भागी१४ नहु१ सुगईए१५॥१४२६॥

१॥ जेम॥२॥ चंदनना चार प्रते वहन करनारो ए  
 ३॥ गधाडो॥४॥ चारनो॥५॥ उपाडनार थायछे एट  
 केवल बोजानो उपाडनार होय॥६॥ चंदननो एट  
 चंदनना सुगंधनो॥७॥ नहिंज भोगी होया॥८॥ ए प्र  
 ९॥ निश्चे॥१०॥ द्रव्यजाव चारित्रे करिने॥११॥ रहित  
 १२॥ ज्ञानि एटले द्रव्य ज्ञान वांना॥१३॥ ज्ञाननो  
 द्रव्य ज्ञाननो॥१४॥ जागी थायछे एटले केवल  
 ज्ञाननो जाण थायछे॥१५॥ नहिंज॥१६॥ सुगति  
 एटले ज्ञाननो सुगंध रूप मोक्ष गतिनो भागी था  
 एटले केवल समकित रहित जाण पणायें करिने क  
 रहित थाय नहि ए कारण माटे शुद्ध क्रिया सहि

त जे ज्ञान ते श्रेष्ठ कहिये ॥४२६॥

संपागडपडिसेवी १ ॥ काएसु २ वएसु ३ जो ४ न ५ उज्जमई ॥

पवयणपाडणपरमो ६ ॥ समत्तं ७ कोमलं ८ ॥ तस्स ९ ॥४२७॥

अर्थ ॥ १ ॥ लोकने देखते निषेध करेला ॥ २ ॥

नारो एहवो ॥ ३ ॥ छकायने विशेषे एटले छकाय

ने विशेषे ॥ ४ ॥ वृत्तने विशेषे एटले वृत्तनी रक्षाने

नथी ॥ ५ ॥ उद्यम करतो एटले प्रमाद सेवे छे

जिनशासननी लघुता करा ६ ॥ विशेषे तत्पर

जे पुरुष ॥ ७ ॥ ते पुरुषनुं ॥ ८ ॥ समकित ॥ ९ ॥

एवुं एटले तेहने मिथ्यात्वज होया ॥४२७॥

घरणकरणपरिहीणो १ ॥ जइवि २ तवं ३ चरइ ४ सुटु ५ अटु

सो ६ तिलं ७ विकिणंतो ८ ॥ कांसिय ९ बुद्धो १० मुण्यवो ११ ॥

अर्थ ॥ १ ॥ चरण एटले महाव्रतनुं आचरण,

टले आहारादिकनी शुद्धि करवी तेमणें करिने

हवो सतो ॥ २ ॥ जोपणा ॥ ३ ॥ रुडि ४ ॥

तिशय मोहटुं एहवुं ॥ ५ ॥ तप प्रते ॥ ६ ॥ करे

ते पुरुष ॥ ७ ॥ दर्पणे करिने ॥ ८ ॥ तिल प्रते ॥ ९ ॥

अने तेल ग्रहण करतो एटले उंधा दर्पणने

करिने आपतो अने समा दर्पणने विशेषे तेल



साधु न कहिये ॥४॥ नहिंज ॥४॥ ग्रहस्थ एटले  
 स्थ पण न कहियें केंमजे मांथु मूडेलुं छे ५  
 ॥६॥ जति धर्म थकि ॥७॥ भ्रष्ट थयो सतो एटले  
 म थकि चुक्यो सतो ॥८॥ ग्रहस्थना दांन धर्म  
 चूके छे एटले जो गृहस्थ होयतो कोइक ५५  
 नियोने आहार पांणि वस्त्र पात्रादिक प्रते  
 तेटलार्थी पण चुक्यो जे कारण माटे तेहनुं  
 मुनियोने कल्पे नहिं ॥४३०॥

सवारगे १ जह १ कोइ २ ॥ अमघो १ नरवइस्स १ धिनूण १ ॥  
 आणाहरणे १ पावइ १ ॥ नहबंधणद्वहरणं १ च १ ॥ ४३१ ॥

श्रय ॥१॥ जेमा ॥२॥ कोइका ॥३॥ प्रधाना ॥४॥

सर्व वेपार प्रते एटले सर्व अधिकार प्रते ॥६॥  
 रिने ॥७॥ पछी राजानि आज्ञा हरण करे सते  
 गं सते एटले उलंघन करे सते ॥८॥ अध एटले  
 यादिके करिने मारवुं, बंध एटले सांकोर्यादि  
 बांधवुं, द्रव्यनुं हरण करवुं एटले पडावी लेवुं  
 नां प्रते ॥९॥ पांमे ॥१०॥ मरण प्रते पांमे ॥४३१॥

तह १ उक्कयमहय ॥ मगानवितीठ १ गिन्हडण १ जह १ ॥  
 एगमवि १ विराहंतो १ ॥ अमघरचो १ हणइ १ बोहि १ ॥ ४३२ ॥

१॥ जति एटले साधु ॥ ३ ॥ छकाय अने पां  
हाव्रत तेननि सर्वनी वृत्तियो प्रते एटले द्रव्य जा  
प्रकारे निम प्रते एटले छकायनुं रक्षण करवुं अने  
महाव्रतनुं पाजवुं ए प्रकारे निम प्रते ॥ ४ ॥ ग्रहणक  
५ ॥ जतिननि मध्येथि एक पण जीविकाय प्रते अथवा  
६ ॥ महाव्रत प्रते ॥ ६ ॥ विराधतो सतो ॥ ७ ॥ तीर्थकर  
८ ॥ एटले तीर्थकरनी आपेलि एहवी ॥ ८ ॥ समकितनि  
९ ॥ प्रते ॥ ९ ॥ नाशकरेछे एटले जिनरुप राजानि आ  
१० ॥ भंग करये सते समकितनो नाश थाय अने सम  
११ ॥ गये सते अनंत संसारि पणुं थाय ए जावा ॥ १३ ॥  
१२ ॥ कयावराहाणुत्तरि च धमियं भमियं ॥  
१३ ॥ अहिपाडिड ॥ भमइ ॥ जरामरणदुग्गामि ॥ १३ ॥  
१४ ॥ ल्यार पछि ॥ २ ॥ हाणि छे बोधि एटले समकि  
१५ ॥ एहवो सतो ॥ ३ ॥ पछि ॥ ४ ॥ करयो जे अपराध  
१६ ॥ जिन आज्ञानो भंग तेहने अनुसारे एटले जिन  
१७ ॥ नो भंग करवे कारिने ॥ ५ ॥ आ प्रत्यक्षा ॥ ६ ॥ प्रमाण  
१८ ॥ एहवुं फल प्रते पांमे छे श्युंफल ते कहेछे ॥ ७ ॥  
१९ ॥ जरा एटले वृद्धपणुं मरण एटले प्राणनो  
२० ॥ तेंमणे करिने दुर्ग एटले अतिशय उंडो एहवो



॥९॥ संसार रूप समुद्र तेहने विशे  
मे छे एटले संसारने विशे भमवा रूप फल

जइया १ णेणं १ चत्तं १ ॥ अण्णयं १ नाणदं सण चरित्तं १ ॥

तइया १ तस्स १ परेसु १ ॥ अणुकंपा १ नथि १ ॥ १ ॥

अर्थ ॥ १ ॥ ज्यारे ॥ २ ॥ आ जाग्य रहित एहवा  
णे ॥ ३ ॥ पोताना आत्माने हितकारी एहवा ॥

नचारित्रा ॥ ५ ॥ त्याग करयुं एटले जे अवसरे जे  
तकारि एहवुं ज्ञानादिक प्रते छांडेछे एटले

वरते छे ॥ ६ ॥ त्यारे एटले ते अवसरे ॥ ७ ॥ ते  
पर एटले पोताथि जिन एहवा ॥ ९ ॥ जीवोने

दया ॥ १ ॥ नथि एटले परजीवोनि उपर दया  
टले जे पुरुष पोतानो हितकारी न होय ते

हित शी रीते करे केमजे स्वदया सहित पर  
ए हेतु माटे अने स्वदयाना उपयोग विना जे

ते परमार्थे करिने दया कहेवायज नहिं  
छकायारे उण १ असंजयाणं १ ॥ लिंगावसे समेत्ताणं १ ॥

वहुअस्संघमपवहो १ ॥ खारो १ मइलेइ १ सुदुअरं १ ॥ ४३५

अर्थ ॥ १ ॥ छकायना शत्रु एटले छकायना  
हवा ॥ २ ॥ असंजत एटले मोकला मुक्याछे मप

ना जोग ते जैमणे एहवा॥३॥केवल रजोहरण तथा  
 ना थरवा वाला एहवा तेमनो॥४॥वालेला तिलनीर  
 सा सदृश एहवो॥५॥बहु असंजमनो प्रवाह एटले  
 ना अनाचार थकि उत्पन्न थयुंजे पाप तेहनो प्रवाह ए  
 पूरा॥६॥अतिशयें करिने आत्मा प्रते॥७॥मलिन  
 एटले ते वेष धारिनो अनाचार तेमना आत्मा प्र  
 तेमना सेवकना आत्मा प्रते अतिशे मलिन करेछे.  
 लिंगाविदुरिधारणेण॥कझामि१अडि१ठाणे॥  
 होइ१सयमेव॥धारयं८चामराडोवे॥४३६॥  
 १॥कार्ज एटले संजमनी जतना रूपकारजा२।  
 हे सते एटले संजमनी जतना रूप कार्य न थये स  
 लिंग एटले जतिनो वेष तेहनो आडंबर तेहनुं  
 करवुं तेणे करिने एटले केवल वेषना आडंबरे  
 १॥स्यु होय अपितुं कांइ नहिं ज्यारे वृत जेइ  
 थकि पालतो ज नथि त्यारे वेषना आडंबरे क  
 स्युं ते उपर दृष्टांत कहेछे॥५॥स्थानने विषे एट  
 सिंहासनने विशेष॥६॥बैठो एहवो एकलो पोता  
 ॥७॥आचामरना आटोप प्रते॥८॥धारण करतो ए  
 पोतानी मेले चामर उडाडतो एहवो सतो॥९॥रा

जा॥१०॥ना॥११॥होय एटले जेम प्रधान

सेनादिक विना राजा कहेवाय नहिं तेम

धु कहेवाय नहिं॥४३६॥

जो मुत्तथाविणिच्छियकयागमो मूलोत्तरगुणोहं॥

उबहइ सया खलिउ॥सो ॥ २७४ ॥ ३७

अर्थ॥१॥जे साधु॥२॥सूत्र अर्थने विशे विशे

कारिने करु

एटले सूत्र अर्थनी प्रतिते करिने जाण्युंछे

णे एहयो॥३॥मूल उत्तर गुणना समुह

रा॥५॥अतिचार रुप दुपणे करिने रहित एहवो

वहन करेछे एटले धारण करेछे॥

खाने विशे एटले साधुनी गणतरिने विशे॥

छिये एटले साधुनी पंक्तिमां गणाय छे॥६॥

बहुशेससंकलिद्यो॥नवरं१०मइलेइ११चंचलसइसो

सुइविवायामनो॥कायं१नकरेइ१किंचि॥॥

अर्थ॥१॥बहु राग द्वेष रुप दोषे करिने

टले नरेलो एटले दुष्ट चित्त वालो

जाववालो एटले विषयादिकने विशे

निप्राय ते जेहनो एहवो सतो॥३॥कायापे

निराय करिने पण ॥५॥परिषहादि दुख प्रते सहन  
 नो॥६॥योडोपणा॥७॥गुण प्रते॥८॥ना॥९॥करे एटले  
 भयादि रूप गुण प्रते न पांमे॥१०॥केवल ॥११॥  
 मा प्रते मलिन करेछे॥१३॥

॥१३॥च॥वरं॥मरणं॥जीविच॥मन्नेसि॥मुभय॥मन्नेसि॥  
 ॥१४॥देविच्छाए॥अहियं॥केसि॥च॥उभयंपि॥१५॥१३५॥  
 ॥१६॥दुर्दुराकनांमे देवतानि इच्छा सते एटले अ  
 प्राय सते जे प्रकारे कह्युं ते प्रकारे कहेछे॥१७॥संसा  
 विषे केटलाएक पुरुपोनुं॥१८॥मरवुं॥१९॥श्रेष्ट छे॥  
 ॥२०॥अन्य एटले विजा केटलाएक पुरुपोनुं॥२१॥जी  
 श्रेष्टछे॥२२॥केटलाएक बीजा पुरुपोनुं॥२३॥जीववुं म  
 वेय श्रेष्टछे॥२४॥वलि ॥२५॥केटलाएक पुरुपोनुं  
 ॥२६॥जीववुं मरवुं वे पण॥२७॥अहितकारिछे ए रीते  
 देवतानोअभिप्राय सतेप्रचुए कह्युं एम जाणवुं॥

॥२८॥चिद॥परलोगो॥अन्नेसि॥इत्थ॥हेइ॥इहलोगो॥  
 ॥२९॥दुन्नविलोगो॥नोदि॥हया॥कस्त्ववि॥लोगा॥३०॥  
 ॥३१॥केटलाएक पुरुपोनो॥३२॥परलोक रुडोछे॥३३॥  
 ॥३४॥अन्य केटलाएक पुरुपोनो॥३५॥इहांजा॥३६॥आ  
 रुडो॥३७॥होया॥३८॥कोइक पण पुरुपना॥३९॥वेय

पण लोक रुडा होय एटले कोइक पुन्यवंत  
 हलोक परलोक बे . . . जोय ले  
 पण पाप कर्मतो करनार एहवो जे  
 वे पण॥१२॥लोक एटले इह लोक पर  
 या एटले नाश पांम्या एटले बगडया॥४४॥

छबजीवकायविरड १॥कायकिलेसेहि सुदुगुरएहि ॥  
 नहु तस्स इमो खोगो ॥हवइ स्सेगो परेलोगो ॥  
 अर्थ ॥ १॥छ जीवनि कायनि एटले  
 वोन विराधनाने विशे विशेषे करिने रक्त ५०  
 एहवोज पुरुपा २॥ते पुरुपतो ३॥अतिशय  
 करा ४॥काय कलेशे करिने एटले ५॥चाप्रि  
 णादिक कष्ट करवे करिने ६॥आ प्रत्यक्ष  
 हवो ६॥लोक ७॥नहिंज ८॥रुडो होय एटले  
 कष्ट क्रियाना करनार तापसादिकनो आ जव  
 होय ९॥ते तापसादिकने एका १०॥परलोक  
 एटले राज्यादिक सुखनि प्राप्तिये करिने रुडो  
 पुद्गलिक सुखनि अपेक्षाए करिने ११॥व  
 जाणवुं परमार्थे करिने तो ते पण दुखरूपज  
 नरयनिरुद्धमदंण १२॥दंडियमाइण १३॥जीवियं १४॥सेयं १५॥

१॥१॥वि०देहे॥विसृष्टमाणस्तत्वरं१०मरणं॥४४२॥

१॥१॥नरकने विशे थापन करिछे मति ते जेमणे

१॥२॥मंत्रि प्रमुख एटलेराज्यनीचितानाकरनारा

१॥जे पुरुष तेमनुं ॥३॥जीववुं॥४॥श्रेयछे एटले रु

१॥केमजे पाप कर्म आचरवें करिने परजवने विशे

१॥दिक दुखनि प्राप्तिछे ए हेतु माटे॥५॥बहु उत्प

१॥योछे रोग तें जेहने विशे एहवो॥६॥देह सते एटले

१॥सहन करवाने असमर्थ एहवुं शरिर सते॥७॥

१॥८॥विशुद्ध मांनछे ध्यांन ते जेहने एहवो जे पुरुष

१॥९॥मरण॥१०॥श्रेष्ठछे जे कारण माटे ते पुरुष

१॥परजवने विशे सदगतिनि प्राप्ति थायछे॥४४२॥

१॥१॥नयमसुठियापं१॥कह्जाणं४जीविअंपि२मरणांपि३॥

१॥२॥जंति१॥४४३॥

१॥१॥तप एटले वार भेदे तप, नियम एटले ग्रह

१॥रेलुं जे वृत्त तेमने विशे अतिशयें करिने दृढ एहवा

१॥साधुआनुं॥२॥जीववुं पण॥३॥मरवुं पण ॥४॥ क

१॥कारि छे॥५॥जीवता सता॥६॥ज्ञान दर्शनचारीत्र

१॥गुणो प्रते॥७॥उपार्जन करेछे॥८॥वलि ॥९॥ मरण

१॥या सता पण॥१०॥सद्गति प्रते एटले स्वर्ग मोक्षा

पण लोक रुडा होय एटले कोइक पुन्यवंत  
 हलोक परलोक वे . . . एवाजोय हे . . .  
 पण पाप कर्मनी करनार एहवो जे . . .  
 वे पण॥१२॥लोक एटले इहलोक . . .  
 या एटले नाश पांम्या एटले बगडया॥१३॥

छब्जीवकायविरउ ५॥कायकिलेसेहि सुदुगुरुएहि॥

नहु तस्स इमो लोको ५॥हवइ स्सेगो परेलोको ५॥

अर्थ॥१॥छ जीवनि कायनि ५॥जे . . .

वोनि विराधनाने विशे विशेषे करिने रक्त ५८

एहवोज पुरुपा॥२॥ते पुरुपनो॥३॥अतिशय

करा॥४॥काय कलेशे करिने एटले नंचानि

णादिक कष्ट करवे करिने॥५॥आ प्रत्यक्ष व

हवो॥६॥लोका॥७॥नहिंज॥८॥रुडो होय

कष्ट क्रियाना करनार तापसादिकनो आ नव

होय॥९॥ते तापसादिकने एका॥१०॥परलोक

एटले राज्यादिक सुखनि प्राप्तिये करिने रुडो

पुद्गलिक सुखनि अपेक्षाए करिने ०५॥

जाणवुं परमार्थे करिने तो ते पण दुखरूपज

नरयनिरुद्धमईणं ५॥दंडियमाइणं जीवियं संयं ॥

१॥ विदेहे ॥ विसुशमाणस्तत्वरं १ मरणं १ ॥ ४४२ ॥  
 १॥ नरकने विशेषे धापन करिछे मति ते जेमणे  
 २॥ मंत्रि प्रमुख एटले राज्यनी चिताना करनारा  
 ३॥ जे पुरुष तेमनुं ॥ ३ ॥ जीववुं ॥ ४ ॥ श्रेयछे एटले रु  
 ४॥ मजे पाप कर्म आचरवें करिने परजवने विशेषे  
 ५॥ दिक दुखनि प्राप्तिछे ए हेतु माटे ॥ ५ ॥ बहु उत्प  
 ६॥ पोछे रोग तें जेहने विशेषे एहवो ॥ ६ ॥ देह सते एटले  
 ७॥ सहन करवाने असमर्थ एहवुं शरिर सते ॥ ७ ॥  
 ८॥ विशुद्ध मानछे ध्यान ते जेहने एहवो जे पुरुष  
 ९॥ मरण ॥ ९ ॥ श्रेष्ठछे जे कारण माटे ते पुरुष  
 १०॥ परजवने विशेषे सदगतिनि प्राप्ति थायछे ॥ ४४२ ॥  
 १॥ कल्याणं १ जीविअंपि १ मरणंपि १ ॥  
 २॥ गुणा १ मया वि १ पुण १ सुगदं १ जंति १ ॥ ४४३ ॥  
 ३॥ तप एटले वार भेदे तप, नियम एटले ग्रह  
 ४॥ जे वृत्त तेमने विशेषे अतिशयें करिने दृढ एहवा  
 ५॥ साधुश्रोतुं ॥ २ ॥ जीववुं पण ॥ ३ ॥ मरवुं पण ॥ ४ ॥ क  
 ६॥ मरि छे ॥ ५ ॥ जीवता सता ॥ ६ ॥ ज्ञान दर्शन चारीत्र  
 ७॥ प्रती ॥ आउपार्जन करेछे ॥ ८ ॥ वलि ॥ ९ ॥ मरण  
 १०॥ सता पण ॥ १० ॥ सद्गति प्रते एटले स्वर्ग नीजा



पण लोक रुडा होय एटले कोइक पुन्यवंत  
हलोक परलोक बे वखां. : ह.

पण पाप कर्मनो करनार एहवो जे पुरुष  
बे पण॥१२॥लोक एटले इहलोक परलो

या एटले नाश पांम्या एटले बगड्या॥४॥

छब्जीवकायविरड१॥कायकिलेसेहिं सुदुगुरुएहिं॥

नहु०तस्स२इमो०लोगो०॥हवइ०स्सेगो०परेलोगो०

अर्थ॥१॥छ जीवनि कायनि एटले

वोनि विराधनाने विशे विशेषे करिने रक्त

एहवोज पुरुषा॥२॥ते पुरुषनो॥३

करा॥४॥काय कलेशे करिने एटले पंचाग्नि

णादिक कष्ट करवे करिने॥५॥आ प्रत्यक्ष

हवो॥६॥लोका॥७॥नहिंज॥८॥रुडो होय

कष्ट क्रियाना करनार तापसादिकनो आ जब

होय॥९॥ते तापसादिकने एका॥१०॥परलोक

एटले राज्यादिक सुखनि प्राप्तियें करिने रुडो

पुद्गलिक सुखनि अपेक्षाए करिने ०५

जाणवुं परमार्थे करिने तो ते पण दुखरूपज

नरयनिरुद्धमईणं१॥दंडियमाइणं२जीवियं३सेयं॥

विदेहे १॥ वितुझमाणस्तवरं १० मरणं १॥ ४४२॥

१॥ नरकने विशे थापन करिछे मति ते जेमणे

२॥ मंत्रि प्रमुख एटले राज्यनी चिताना करनारा

जे पुरुष तेमनुं ॥ ३॥ जीववुं ॥ ४॥ श्रेयछे एटले रु

केमजे पाप कर्म आचरवें करिने परजवने विशे

दिक दुखनि प्राप्तीछे ए हेतु माटे ॥ ५॥ बहु उत्प

योछे रोग ते जेहने विशे एहवो ॥ ६॥ देह सते एटले

ना सहन करवाने असमर्थ एहवुं शरिर सते ॥ ७॥

८॥ विशुद्ध मानछे ध्यान ते जेहने एहवो जे पुरुष

९॥ मरण ॥ १०॥ श्रेष्ठछे जे कारण माटे ते पुरुष

परजवने विशे सदगतिनि प्राप्ति थायछे ॥ ४४२॥

१॥ कलाणं १॥ जीविअं पि १० मरणं पि १॥

१॥ गुणा १॥ मया वि १० पुण सुगइं १० जंति १॥ ४४३॥

१॥ तप एटले वार भेदे तप, नियम एटले ग्रह

रेलुं जे वृत्त तेमने विशे अतिशयें करिने दृढ एहवा

साधुअनुं ॥ २॥ जीववुं पण ॥ ३॥ मरवुं पण ॥ ४॥ क

कारि छे ॥ ५॥ जीवता सता ॥ ६॥ ज्ञान दर्शन चारीत्र

गुणो प्रते ॥ ७॥ उपार्जन करेछे ॥ ८॥ वलि ॥ ९॥ मरण

या सता पण ॥ १०॥ सद्गति प्रते एटले स्वर्ग मोक्षा

पण लोक रुडा होय एटले कोइक पुन्यवंत  
 हलोक परलोक बे वखांणवाजोग्य होया॥१॥  
 पण पाप कर्मनो करनार एहवो जे पुरुष तेह  
 बे पण॥१२॥लोक एटले इहलोक परलोक॥१॥  
 या एटले नाश पांम्या एटले बगडघा॥४॥

छन्मीवकायविरड<sup>१</sup>॥कायकिलेसेहिं<sup>२</sup>सुदुगुरुहिं<sup>३</sup>॥

नहु<sup>४</sup>तस्स<sup>५</sup>इमो<sup>६</sup>लोगो<sup>७</sup>हवइ<sup>८</sup>स्सेगो<sup>९</sup>परेलोगो<sup>१०</sup>॥१॥

अर्थ॥१॥छ जीवनि कायनि एटले ८

योनि विराधनाने विशे विशेषे करिने रक्त  
 एहवोज पुरुषा॥२॥ते पुरुषनो॥३॥अतिशय  
 करा॥४॥काय कलेशे करिने एटले पंचाग्नि  
 णादिक कष्ट करवे करिने॥५॥आ प्रत्यक्ष  
 हवो॥६॥लोक॥७॥नहिंज॥८॥रुडो होय ९  
 कष्ट क्रियाना करनार तापसादिकनो आ जव  
 होया॥१॥ते तापसादिकने एका॥१॥परलोक ८  
 एटले राज्यादिक सुखनि प्राप्तिये करिने रुडो  
 पुद्गलिक सुखनि श्रपेक्षाए करिने १५५०॥१॥  
 जाणवुं परमार्थे करिने तो ते पण दुखरूपन  
 नरएनिन्दमइणं<sup>१</sup>॥दिंदियमाइणं<sup>२</sup>भीतियं<sup>३</sup>सेयं<sup>४</sup>॥

१॥ विद्महे ॥ विसुद्धमाणस्तत्वरं १० मरणं ॥ ४४२ ॥  
 १॥ तरकने विशे थापन करिछे मति ते जेमणे  
 २॥ मंत्रि प्रमुख एटले राज्यनी चिताना करनारा  
 ३॥ पुरुष तेमनुं ॥ ३ ॥ जीववुं ॥ ४ ॥ श्रेयछे एटले रु  
 ५॥ मजे पाप कर्म आचरवें करिने परजवने विशे  
 ६॥ दिक दुखनि प्राप्तिछे ए हेतु माटे ॥ ५ ॥ बहु उत्प  
 ७॥ रोगे ते जेहने विशे एहवो ॥ ६ ॥ देह सते एटले  
 ८॥ सहन करवाने असमर्थ एहवुं शरिर सते ॥ ७ ॥  
 ९॥ विशुद्ध मानछे ध्यान ते जेहने एहवो जे पुरुष  
 १०॥ मरण ॥ १० ॥ श्रेष्ठछे जे कारण माटे ते पुरुष  
 ११॥ मरणे विशे सदगतिनि प्राप्ति थायछे ॥ ४४२ ॥  
 १२॥ कलाणं १॥ जीविअं पि १० मरणं पि १॥  
 १३॥ मयादि पुण सुगदं १० जंति १॥ ४४३ ॥  
 १४॥ तप एटले वार भेदे तप, नियम एटले ग्रह  
 १५॥ जे वृत्त तेमने विशे अतिशयें करिने दद एहवा  
 १६॥ आयुआनुं ॥ २ ॥ जीववुं पण ॥ ३ ॥ मरवुं पण ॥ ४ ॥ क  
 १७॥ रि छे ॥ ५ ॥ जीवता सता ॥ ६ ॥ ज्ञान दर्शन चारीत्र  
 १८॥ प्रते ॥ आउपार्जन करेछे ॥ ७ ॥ वलि ॥ ८ ॥ मरण  
 १९॥ सता पण ॥ १० ॥ सद्गति प्रते एटले स्वर्ग नोना



॥१३॥ सुलस परजीवनी पीडा प्रते न करतो हवोतेम  
 छे जेम सुलस जे तेणे परजीवनी पीडा न करितेम  
 ॥ उत्तम पुरुषो पण जीवने पीडा नथी उपजायता.

प्रकुदं हगादामगाणि १ ॥ उच्छूलघंटियाड १ य १ ॥

॥ अरितंतो ॥ चउपयानथि १ अ १ पसूवि १ ॥ ४४६ ॥

॥१४॥ पशु बांधवाने अर्थे मूलकिलक एटले मोह  
 सुंटा, कुदंडग एटले नाना वाछडा बांधवाने अर्थे  
 ॥ स्त्रिला, दामग एटले पशुने बांधवानां दांमण ते

॥ वलि ॥ १३ ॥ पशुने गले बांधवानां दोरडां तथा गं

॥ इत्यादिक पशुने जोग्य एहवां उपकरण प्रते

॥ स्तेद रहित सतो ॥ १५ ॥ एकटां करेछे एटले मेलवेछे

॥ पण घरने विषे गाय भेसादिक नथि ॥ १७ ॥ वलि

॥ नकारे घेटा पण नथि जेम पशु विना पशुना उप

॥ नुं मिलववुं ते फोगट छे ॥ ४४६ ॥

॥ न्य १ पाय १ इंडगडवगरणे १ नयणकड १ मुझूत्तो १ ॥ जस्सडाए १

॥ स्सड १ ॥ तं १ धनिय १ १ मूढो १ १ नवि १ १ करेइ १ ॥ ४४७ ॥

॥१५॥ तेम अविवेकी पुरुषा ॥ २ ॥ जतना करवाने अर्थे

॥ एटले कपडादिक ॥ ४ ॥ पात्रां ॥ ५ ॥ डांडो इत्यादि

॥ रणने विशेष एटले उपकरण मेलववाने विशेष ॥ ६ ॥

उद्यमवंत सतो उपकरण प्रते मेलवे छे॥

एटले जे जतना पालवाने अर्थे॥८॥केश

एटले कष्ट पांमे छे॥९॥ते जतना

॥११॥नहिज॥१२॥करे एटले जतना प्रते

॥१३॥निश्चे॥४४७॥

अरिहंता भगवंतो॥अहियं॥व॥१॥हियं॥व॥१॥

वारंति॥कारवंति॥०५॥१॥घित्त्तुणं॥१॥अणं॥१॥बला॥१॥

अर्थ॥१॥ज्ञानवंत एहवा॥२॥अरिहंत एटले

रहित एहवा तिर्थकर महाराज जे तो॥३॥आ

विशे अहित आचरनारा पुरुपोनुं॥४॥थोडुंय

अहित प्रते एटले अहितकारी आचरण

जा॥७॥निवारण करो॥८॥अथवा॥९

रुपोनां पासे हित प्रते एटले हितकारी आ

॥१०॥नहि करावे स्युं करिने न करावे ते

बलानकारे करिने॥१२॥लोक प्रते॥१३॥

हाथने विज्ञे॥१४॥गृहण करिने एटले

जेम राजा लोकने पकडिने जोरावरिणी

निवारण करावे अने भला कारज प्रते करावे तेम

देव बलाकारे करिने अकारज प्रते

भारज प्रतेकरावे नहि ॥१५॥ निश्चो ॥१६॥ पादपूर्ण.

१॥ पुण ॥ १॥ जेण ॥ चरिएण ॥ कित्ति ॥ निलयाइं ॥ देवा

१॥ पुण ॥ १॥ मंग ॥ १॥ पुण ॥ १॥ मणुअमित्तणं ॥ १॥ ४४२ ॥

॥ १॥ वलि त्यारे ते तिर्थंकर महाराजस्युं करेछे

गायानां कहेछे ॥ २॥ उपदेश प्रते एटले तेहवाते

उपदेश प्रतो ॥ ३॥ दे छे ॥ ४॥ जे उपदेश ॥ ५॥ आचरवे

एटले जे उपदेश आचरें सते ॥ ६॥ कीर्तिना रथा

एटले कीर्ति करवा लायक एहवा ॥ ७॥ देवताओ

॥ ८॥ स्वांमि ॥ ९॥ होय एटले ठाकोर धायछे ॥ १० ॥

॥ ११ ॥ हे शिष्य ॥ १२ ॥ मनुष्य मात्रनो एटले मनु

स्वांमि धाय तेहमां ॥ १३ ॥ स्युं आश्रय ॥ १४ ॥

॥ १५ ॥ किकेरीडधरो ॥ १६ ॥ चिचइउं ॥ चवळकुंडलाहरणो ॥

॥ १७ ॥ हिउएना ॥ १८ ॥ एरावणवाहनो ॥ जाट ॥ १९ ॥

॥ २० ॥ हितोपदेशधकि एटले हितकारि एहवा जि

ना उपदेशयकि ॥ २१ ॥ श्रेष्ठ एहवोछे आगल्यो जा

नेहनो एहवो जे मुगट तेहनो धारण करनारो

॥ २२ ॥ वानुबंधादिक आचरणे करिने शोभायनांन

॥ २३ ॥ कानने विशे देदिप्यमांन कुंडलरूप आज्ञ

नेहने एहवो ॥ २४ ॥ एरावण नामे हायिछे वाहन

॥ २५ ॥



ना॥८॥थाया॥९॥तेमा॥१०॥ते नणेलु॥११॥

नणेलुं केवुंथायछे तेकेहेछे॥१२॥सर्वपण॥१३॥

भणवा जेवुंथायछे एटले जेमनटनुंनणेलुं नि

छे तेम मिथ्या द्राष्टिनुं सूत्रनुं भणवुं ते पण

॥१४॥एकारण माटे लघु कर्मिजिवनुं नणवुं

पदद्वयं नडो विरगं २॥ निविज्जिज्जाउ १ बहुजणो १ जेण

उण १ तं १ तह १ सढो ८॥ जालेण १ जलं १ समोअरद १॥

अर्था॥१॥जेम नट इटलेन १ किय

वैराग्यनीवार्ताओ प्रत्ये॥३॥भणेछे एटले लो

गल केहेछे॥४॥जे वैराग्यनां वचन बोखवे का

घणा लोका॥६॥निर्वेद प्रते एटले वैराग्य प्रते

एटले संसार प्रते खोटो जाणेछे॥७॥ते नट मू

वो सतो॥८॥नणिने पण पछि पोते॥९॥ते

ले पोताना बोल्या प्रमाणे॥१०॥ते आचरणा

करतो एटलेज पोताने विशे जुठो फटा टोप

ने लोकोनि पासेयी धन लेवानी लालचे

ला लोकोने धर्म देखाडिने रिझवेछे तेम

ए रहीत एहवो केवल वेश धारि पोताने

पणानो मद धारण करतो सतो पोताना पू

अर्थे मुग्ध लोकोनि आगल वैराग्यनि वार्त्ताओ क  
 ते लोकोने रिझवेछे ते केवि रिते करेछे ते कहेछे  
 ॥जेम मछिगर जाल ग्रहण करिने एटले हाथमां  
 लेइने मछ ग्रहण करवाने अर्थे एटले माछला  
 वाने अर्थे ॥१२॥ जल प्रते एटले पांणि मध्ये  
 ॥ उतरेछे एटले प्रवेश करेछे तेम फकत वेश  
 एटले रजो हरण मुख वस्त्रिका रूप वेशनो धा  
 र सिधांतनो अजाण एहवो सतो विपरित आ  
 करवे करिने एटले सिद्धांतथी उलटु आचण क  
 करिने एटले सुत्रनुं जे नणवु ते प्रते व्यर्थ करेछे  
 निष्फल करेछे केमके पोते सम्यक् प्रकारे चा  
 पालतो नथी अने शुद्ध परुपणा करिने लोकोने  
 मार्ग प्रते देखाडतो नथी एकारण माटे ॥४७४॥

कहकह<sup>१</sup>करोमि<sup>२</sup>कह<sup>३</sup>वा<sup>३</sup>न<sup>५</sup>करोमि<sup>६</sup>॥कह<sup>७</sup>कह<sup>८</sup>कयं<sup>९</sup>

बहुकयं<sup>१०</sup>॥जो<sup>११</sup>हियइवहुसंपसारं<sup>१२</sup>॥करेइ

सो<sup>१३</sup>अइ<sup>१४</sup>करेइ<sup>१५</sup>हियं<sup>१६</sup> ॥४७५॥

॥ आत्म हितवंचक पुरुपोनुं लक्षण ॥

॥१॥हूं केवी केवी रीते ॥२॥ धर्म अनुष्ठान प्रते

॥३॥ वली ॥४॥केवी रीते ॥५॥ना ॥६॥करु अने ॥७॥

केवी॥८॥केवी रीते॥९॥धर्म अनुष्ठानादिकरु  
 माहरे॥११॥बहू करेलु थाय एटले घणु गु  
 य ए प्रकारे॥१२॥जे पुरुषा॥१३॥रुदयने विशे  
 प्रसार प्रते एटले श्रालोचन प्रते एटले वि  
 ॥१४॥करेछे एटले विचारेछे॥१५॥ते पुरुषा॥  
 शये करिने॥१७॥पोताना हित प्रते॥१८॥जे  
 जे पुरुष नीरंतरहेयज्ञेयउपादेयनो एटले  
 करवा जोग्यछे आ नथी करवा जोग्य आ  
 ग्यछे ए रीते नीरंतर विचार करेछे ते पुरुष  
 त करी शकेछे एटले पोताना आत्माने च्या  
 उधरीने पांचमी गति पांमवाने जे :करेछे :  
 सिद्धिलो अणायरकठ॥अवस्सवसकठ ॥१९॥  
 मययं पमत्तसीलस्स॥मंजमो केरिसो हुत्ता ॥२०॥  
 अर्थ॥१॥सीथल एटले संजम अनुष्ठान ५  
 शे आलसु एटले पंचमाहावृत पांच समिति  
 पालवाने विशे आलसु एहवो ॥२१॥अनादरया  
 संजम पालवाने आदर रहीत एहवो एटले  
 ना कांडक अनुष्ठानादिक प्रते करतो एवो  
 परवशपणे करीने करतो एटले गुरुनी प्रे

पोताना उत्साह विना धर्म अनुष्ठानादी उपर उ  
 करतो एहवो॥४॥कांडक पोताना वशे करीने कर  
 एटले जो हूं नही करु तो लोक मने मानसे पूज  
 नही एवु धारीने प्रतीक्रमण प्रतिलेषणादिक लो  
 ग्निववाने पोतानी मेले करतो एहवो॥५॥ते प्रका  
 ङक अनुष्ठान संपुरण करतो अने कांडक विराध  
 एटले धर्म अनुष्ठानादिकने वीशे गडवड सडवड  
 तो एहवो जे पुरुषा॥६॥अने निरंतर॥७॥ प्रमादी  
 से प्रमाद आचरवानो स्वभाव ते छे जेनो एटले  
 पादीकनुं चींतवन करतो एवो जे पुरुष होय ते  
 सासंजम एटले पांच आश्रवथी वीराम पामवुं॥  
 ते केवुं॥१०॥होय एटले सीरिते होय अपितुं स  
 प्रकारे ते पूर्वे कहेला लक्षणोए करीने सहीत ए  
 पुरुषने सर्वथा प्रकारे चारित्रनज होय केमके प्रमा  
 विशेषे वर्ततो सतो पोताने विशेषे साधुपणु देखाड  
 सतो घणा लोकने प्रवाह मारगने विशेषे प्रवर्त्तविछे  
 कारणने माटे॥४७६॥

१॥काल्यखत्वे॥परिहाइ ३पए ५पएपमायपरो १तह ४॥उग्वर ०

१॥परिवे १निरंगणो १०॥अ ६नय १२इच्छियं १२लहइ १३॥४७७॥

अर्थ॥१॥ऋणपक्ष संबंधी एटले अंधारा ...  
 बंधी॥२॥चंद्रमा जेमा॥३॥हानी पामेछे एटले ...  
 रा पखवाडा संबंधी चंद्रमा नीरंतर हानी प...  
 छे॥४॥तेमा॥५॥प्रमादने वीशे तत्पर एवो :  
 गले पगले हानी पामेछे एटले थोडे थोडे सं  
 त थायछे अने॥७॥ग्रहस्थपणानु घर मुक...  
 दीक रहित सतो एवो॥९॥वली॥१०॥स्त्री प्रते  
 एटलेस्त्रीआदीक कुटुंब रहित सतो॥११ ॥  
 १२॥नहिज॥१३॥पामे एटले घरकुटुंबादीक  
 ... त सुख प्रते न ... पां  
 ... रहि ... पुनधर कुटुंब ... त्यागक...  
 भीव १॥विग्ग २॥निलुको ३॥पागडपच्छन्नदोससयकारि  
 अपच्चयं ४॥जणंतो ५॥जणस्स ६॥धी ७॥जीवीअं ८॥अइ  
 अर्थ॥१॥व्हीनेलो एटले हवे केम थशे ...  
 रनारो एवो अने वली॥२॥मननी समाधि...  
 ॥३॥पोताना पापने ढांकनारो एवो अने ...  
 ट अने छानां दोपनु सैकडो तेनो करनारो ५  
 डां अथवा छाना सैकडो दोपनो सेवनारो  
 वली॥५॥लोकोने॥६॥अविस्वास प्रते ...

सतो जे पुरुषा॥८॥जीवेछे तेना॥९॥जीवीत प्रते॥  
 अधिकार पडो एटले पूर्वोक्त लक्षण सहित पुरुष  
 जीवुं निष्फल जाणवुं एज॥४७८॥

दीवसादिक् पख्वा॥मासावरिचावीसंगणिज्जांति॥

पुरुषउत्तरगुणा॥अस्त्रिखलियाते॥गणिज्जांति॥४७९॥

१॥नही॥२॥ते॥३॥दीवस आनकार सर्वत्र जोड  
 नही ते पखवाडीआं॥५॥नही ते महीना॥६॥

ते वर्ष पण॥७॥सम्यग् प्रकारे गणीए एटले ध  
 र्मासहित एहवा ते दीवस पखवाडा महीना अने वर

प्रमाण पणे करीने न गणीए एटले सुद्ध धरम रही  
 दीवसादिक निष्फल जाणवा॥८॥जे॥९॥मुल उत्तर

गणे करीने॥१०॥अस्त्रिखलीत एटले नीरअतिचार ए  
 जे दिवसादिक ते दिवसादिक॥११॥गणीए एट

प्रयाणपणे करीने मानीए एटले सुद्ध धरमे  
 नि आराधन कर्या एहवा दीवस पक्ष मासा

जे तेज लेखे गणवा जोग्यछे ते कारण माटे  
 मय जीवो आजस्य प्रमाद छांडीने धर्मना अव

ने करीने दीवस गमाववा पण वीकथाये करीने  
 स गमाववा नही एभाव॥४७९॥

जो नवि दिणेदिणे संकले अ॥ के अजं  
 मि गुणा अगणेषु ११ अ १० नऊ १२ खलिड ११ कह  
 १६ सो १४ अ १८ करिद्र १० अप्यहियं १५ ॥ ४८० ॥

अर्थ ॥ १ ॥ जे पुरुषा ॥ २ ॥ नीरंतरा ॥ ३ ॥ नहि  
 ना प्रते करे एटले विचार नथीज करतो ॥  
 आज ॥ ७ ॥ कीआ ॥ ८ ॥ गुण एटले ज्ञानादीक  
 उपार्जनकर्या एटले आज ॥ ९ ॥ कीआ ज्ञान  
 नीरूपन थयो ए प्रकारे नीरंतर जे सम्यग्  
 थी विचारतो अने ॥ १० ॥ वली ॥ ११ ॥ प्रमाद  
 अवगुणोने विशेष ॥ १२ ॥ नहीज ॥ १३ ॥ ... ७ ना  
 द अतिचाररूप माहा चेष्टीतने विशेषत्पर  
 प जे होया ॥ १४ ॥ ते पुरुषा ॥ १५ ॥ सरिति ॥ १६ ॥  
 हीत प्रते ॥ १७ ॥ करे एटले अपितु नहीज  
 जे पुरुषने कांड सम्यग् विचारणानथीते  
 ल्महीत थइ शके नही ॥ १८ ॥ नीश्रे ए कारण  
 ल्मार्थि पुरुषो ए उत्तम पुरुषोनी नीश्राए  
 र सारा सारा विचार करवा ए भावा ॥ ४८० ॥

इय १ गणिअं २ इय ३ तुलिअं ४ ॥ इअं ५ बहुहा ६ दा ७  
 नियमयं ८ घ ९ जह १० तहवि ११ न १२ पडिनुअइ १३ ॥

किं कीरदं नुणं भवोयव ॥४८२॥

॥१॥ आ प्रकारे करिने एटले पूर्वोक्त प्रकारे करी  
 रीखन तीर्थकरनी पठम धर्मने विज्ञे उद्यम क  
 ए रीते ॥२॥ प्रमाण करचुं छे एटले रीखम  
 स्वामीनी पठम धर्मने विज्ञे उद्यम करवो एज  
 छे ॥३॥ आ प्रकारे करिने एटले पूर्वोक्त  
 करिने ॥४॥ तुलना करिछे अवंती सुकुमालादीक  
 प्राणनो अंत घये सते पण धर्मनो त्याग न  
 ए प्रकारनी तुलना करवी एवी रिते पूर्वे जणा  
 ॥५॥ ए प्रकारे एटले पूर्वोक्त प्रकारे करिने आ  
 गीरी प्रमुख पुरुषोनां द्रष्टांत कहेवे करिने ॥६॥  
 प्रकारो ॥७॥ देखाड्युंछे ॥८॥ वली बहु प्रकारे करिने  
 नयंत्रोत कर्युंछे एटले समिती कपायादिकना स्व  
 देखाडवे करिने पूर्वे जणाव्युंछे ॥९॥ तोय पण ॥  
 जीव ॥१२॥ नयी ॥१३॥ प्रतीबोध पानतो त्या  
 ॥१४॥ स्त्रु ॥१५॥ करीण ॥१६॥ नीश्रे ते जीवनी ॥१७॥  
 निव्यता एटले जे जीव जे घणा काल संनारनां  
 करवुं होय तेने सुद्ध धरमनो उपदेश जा  
 ही अने उजटो सुद्ध धरमना अजिजापी पुन्यो



ने देखीने हासी करेछे अने वली एवं बो  
 कालने विशेष सुद्ध धरमनी खोल करवा जइ  
 र्व मार्ग उठी जाय एवं बोलिने घणा जोला  
 शल्य घालीने सुद्ध मारग उपर अरुची  
 रण माटे एम जाणवुं के ए पुरुपने दरशन  
 रमनो तीव्र उदय वरतेछे अने संसारमां ध  
 रुलवुंछे ते कारण माटे तेने सुध वारता  
 तेमां कोइनु जोर नथी ए जाव ॥४८१॥

कि० मंग० १ तु० पुणो० २ जेण० ॥ संजमसेढी ५ सीढिली ६ कया  
 तं १ २ चिअं १ १ पडिवबनुइ १ १ दुखवं १ १ पच्छा १ १ कउउ  
 अर्थ ॥ १ ॥ पादपूर्णे ॥ २ ॥ वली ॥ ३ ॥ हे शिष्या ॥ ४  
 ॥ ५ ॥ संजमनी श्रेणी एटले ज्ञानादिक गुणनी  
 सीथील ॥ ७ ॥ करी ॥ ८ ॥ होय एटले संजम  
 शे ढीलास करी होय ते पुरुपे करीने ॥ ९  
 ते पुरुप स्याकामनो अर्पितु कांइ कामनो  
 ॥ १० ॥ ते पुरुपा ॥ ११ ॥ नीश्वे करीने ॥ १२ ॥ ते  
 प्रते ॥ १३ ॥ अंगीकार करे एटले सीथीलपणा  
 म करेछे ॥ १४ ॥ पछी ॥ १५ ॥ दूखे करीने ॥ १६  
 एटले सीथीलपणुं अंगीकार करी पछी

करवो ते घणोज कठणछे ए कारण माटे हीत  
पुरुषोए प्रथमधीज सम्यग् प्रकारें संजम पा  
वीशे आलसु न धवुं ए उपदेश॥४८२॥

सर्व उवलदं ॥ जइ ॥ अप्पाभाविउ ॥ उवसमेण ॥ कायं  
वचनं ॥ उपहेणं ॥ जह ॥ न ॥ देही ॥ ॥ ४८३ ॥

आत्माधिं पुरुष प्रते गुरुनो उपदेश कहेछे

॥ १ ॥ हे भव्य जीव जो तें पूर्वे कहेलुं ॥ २ ॥ सर्व

पाम्युंछे एटले तने पाप ध्युछे अने वली ॥ ४ ॥ जो

उपसमे करीने ॥ ६ ॥ आत्मा जाव्योछे एटले जो

उपसमजावे करीने आत्मा वासीत कर्यो छे एटले

करिने सहित कर्यो छे त्यारे तुं हे भव्य

॥ ७ ॥ काया प्रते ॥ ८ ॥ वली ॥ ९ ॥ वचन प्रते

॥ १० ॥ मन प्रते एटले मन वचन कायाना व्यापा

॥ ११ ॥ उन्मारगे करिने एटले सीद्दांतथी उलटा

विशे ॥ १२ ॥ जेमा ॥ १३ ॥ न जाय तेमा ॥ १४ ॥ प्रवर्त्ता

॥ १५ ॥ मन वचन कायाना जोग सुध मारगने वि

केमके सुध मारग पामवानुं एज सारछे ॥ ४८३ ॥

कायं निखिद्वे ॥ कायं चालिद्वं ॥ तां पि कब्जेण ॥

॥ अंगे ॥ ॥ अंगोवंगाइ ॥ गोविज्ञा ॥ ॥ ४८४ ॥

नथी तेवा पुरुपने एटले पूर्वे कहरां लक्षण सह  
 रुपने॥७॥अनंतो॥८॥संसार होय एटले अनंत  
 रीपणु जाणवुं॥९॥नीश्वे ए कारण माटे जीनराजनी  
 ज्ञानुं पालवुं एज चरित्र धर्म अने जीनराजनी  
 नु सदहवुं ए समकीत धर्म जाणवो॥५०६॥

नकरेमिच्छि<sup>१</sup>भणित्ता<sup>२</sup>॥तंचेव<sup>३</sup>निसेवए<sup>४</sup>पुणो<sup>५</sup>पावं<sup>६</sup>॥

पञ्चख्वमुसावाइ<sup>७</sup>मायानियडिपसंगो<sup>८</sup>य<sup>९</sup>॥५०७॥

हेस्वामिन् तेने अनंत संसारीपणुं केम कहयुं?

आशंकानो गुरु उत्तर कहेछे:-

अर्थ॥१॥जे पुरुप सावद्य जोग प्रते नही

करावुं,अने करता प्रते रुडो नही जाणुं ए

व कोटी सहित पापना व्यापारना त्याग प्रते

णिने एटले कहीने पण॥३॥फरीने॥४॥तेज प्रते

जे पाप व्यापारनुंपचखाण कयुंछे तेज॥५॥५॥

पार प्रतं॥६॥अतीशे करीने शेवेछे तें पुरुप

मृखावादी जाणवो केमके जेवुं बोले छे तेवुं न

ए कारण माटे॥८॥वली॥९॥

ते जेने एटले माया शब्दे

णुं अने निकृति शब्दे

बे प्रकारना असत्यपणानो छे प्रसंग तेजे-  
जाणवो एटले बे प्रकारे जुठो जाणवो ए कार  
माटे हे शिष्य जे जुठुं वोलवुं ते अनंत संसारमां  
करवानुं कारण जाणवुं. हे स्वामिनाथ आ  
उपर फरमावुं के जे पाप त्यागीने फरी शेवेछे ते  
दीछे ते सांचलतां महारा मनमां संशय उत्प  
पायछे केमके सिद्धांतोने विशे एवं सांचलवामां आ  
जे साधु तथा श्रावके जे वृत अंगीकार करेलां  
तेमां जे दूषण लागे ते गुरुमहाराज आगल आ  
नि तेनुं प्रायश्चित अंगीकार करीने शुद्ध थायछे अ  
रखी फरीने कोइ वखत तेज पाप शेववामां आवेछे  
तेज प्रमाणे प्रायश्चितादीक अंगीकार करेछे अने  
श्चितादीक अंगीकार करीने साधु श्रावकना पद  
रहेछे अने इहां तो मृखावादी कह्यो तेनुं शीरीते  
त्यारे गुरु महाराजे कहचुं के हे शीष्य तने तर्क  
घणो सारो उत्पन्न थयो पण तेनो उत्तर थीर चि  
शक्तीने सांभल के जे पूरुशे प्रथम जे वस्तुनो त्या  
होय अने फरीथी ते पाप शेवन करवानी इछा  
। अने चित्तमां घणी दाझ वरतेछे के आकाम मा

नथी तेवा पुरुषने एटले पूर्वे कह  
 रुपने॥७॥अनंतो॥८॥संसार होय  
 रीपणु जाणवुं॥९॥नीश्वे ए कारण  
 ज्ञानुं पालवुं एज चरित्र धर्म  
 नु सदहवुं ए समकीत धर्म ज  
 नकरेमिच्छिभणित्ता२ चैव नि  
 पद्यख्वमुसावाइ३माचानिय  
 हेस्वामिन् तेने अनंत

आशंकानो गुरु

अर्थ॥१॥जे पुरुष सावद्य ज  
 करावुं,अने करता प्रते रुडो  
 व कोटी सहित पापना  
 णिने एटले कहीने पणा॥३॥  
 जे पाप व्यापारनुंपचखाण  
 पार प्रते॥६॥अतीशे करीने  
 मृखावादी जाणवो केमके जेवुं  
 ए कारण माटे॥८॥वली

ते जेने एटले माया

पुं अने निकृति

आवत्रे प्रकारना असत्यपणानो छे प्रसंग तेजे-  
 णवो एटले वे प्रकारे जुठो जाणवो ए कार  
 हे शिष्य जे जुठुं बोलवुं ते अनंत संसारमां  
 ए करवानुं कारण जाणवुं. हे स्वामिनाथ आ  
 फरमावुं के जे पाप त्यागीने फरी शेवळे ते  
 णेहे ते सांभलतां महारा मनमां संशय उत्प  
 छे केमके सिद्धांतोने विज्ञे एवुं सांभलवामां आ  
 साधु तथा श्रावके जे वृत्त अंगीकार करेलां  
 तां जे दूषण लागे ते गुरुमहाराज आगल आ  
 तेनुं प्रायश्चित्त अंगीकार करीने शुद्ध थायछे अ  
 फरीने कोइ वखत तेज पाप शेववामां आवेछे  
 प्रमाणे प्रायश्चितादीक अंगीकार करेछे अने  
 तादीक अंगीकार करीने साधु श्रावकना पद  
 छे अने इहां तो मृखावादी कह्यो तेनुं शीरीति  
 रे गुरु महाराजे कह्युं के हे शिष्य तने तर्क  
 ते सारी उत्पन्न थयो पण तेनो उत्तर धीर चि  
 ति सांभल के जे पूरुणे प्रथम जे वस्तुनो त्या  
 होय अने फरीथी ते पाप शेवन करवानी इच्छा  
 ने चित्तनां घणी दाज वरतेछे के आकान मा

हारे घणु खोटुं थयुं हवेथी फरी आवुं काम कदी  
करुं एवी रीते जेना प्रणाम थायछे ते प्रायश्चित्त  
गिकार करेछे एम करतां वली फरी कोइ वखत  
पापनुं शेवन थइ गयुं तो फरी प्रायश्चित्त अंग  
करवाने अवसरे तेना तेवाज प्रणाम रहेछे के आ  
फरीथी हवे कदी नही करुं एवी रीते आलोवण  
वसरे जेने वीरती प्रणाम थायछे तो तेने मृखा  
ना कहिए पण इहांतो प्रथमथी पचखाणतो कर्णुं  
ने ते पाप सेववामां आवुं अने तेथी वीरती प्र  
तो थया नथी एटले फरीथी हू शेवन नही करुं  
अध्यवसाय थयो नथी अने जे आलोवण करेछे  
मृखावादी जाणवो. तो प्रथमथी पचखाण तो क  
नथी अने आश्रवथी वीराम पाम्योज नथी अने ते  
लोवण लेइ वेसेछे तेनुं तो शुं कहेवुं. ते तो माया  
खावादीज होय एटले मीथ्या द्रष्टी जाणवो  
म्यग् द्रष्टी जे पुरुशोछे ते नींदा गृहातो करेछे प  
श्रवथी वीराम पाम्या वीना तेनां पचखाण करत  
थी अने जुठी वार चृतनी आलोवण करता नथी  
श्रेणीक माहाराजा वली जेम आणंद कामदे





क्षीत एवो सतो पण एटले ग्रहण कर्नुंछे चारित्र ते  
 ए एवो सतो पण॥११॥ असत्य प्रते॥१२॥ बोलेछे  
 ले चारित्रीओ थइने पण जुठुं बोलेछे॥१३॥ चारे  
 दीक्षाए करीने॥१५॥ शुं॥१६॥ अपीतुं कांड नही एट  
 जे चापा समीती नथी जाणतो तेनी दीक्षा नी  
 जाणवी एटले कायक्केशरुप जाणवी ए कारण  
 भव्यजीवो जो धर्मना अर्थि होतो प्रथमथी सदगु  
 नी पासें चापा समीतीनुं जाणपणुं करवुं चापा सं  
 ती श्राव्या विना धर्म अनुष्ठान लेखे लागे नही॥५॥

महव्यअणुव्याहं१॥ छंडेउं१ जो तवं चरइ१॥

अत्रं सो अत्राणो भुदो१॥ नावा१ बुडो१ मुणेयवो११॥२॥

जे पुरुष पोतानां लीधिलां व्रत तेने विशे दूषण

लगाडीने बीजा तपादिक करेछे तेनुं मूर्खपणुं

देखाडता सता कहेछे:-

अर्थ॥१॥ जे पुरुष॥२॥ माहावृत अणुवृत प्रते एट

साधुनां माहवृत अने श्रावकनां अणुवृत ते प्रते॥३॥

छांडीने एटले त्याग करीने॥४॥ ते॥५॥ अजाण एवो

ने॥६॥ मूर्ख एटले सीद्दांतनो अजाण अने न्याय

हीत एवो सतो॥७॥ बीजो॥८॥ तप प्रते॥९॥ आचरेछे

ले प्राणातीपात वीरमणादिक पांच महावृते करीने हीत अने स्थुल प्राणातीपात वीरमणादिक पांच अवृते करीने रहीत एवा तप कष्टादिक प्रते करेछे ए ले अज्ञान, कष्टकारी जाणवो. अने वली केवो जाणवो कहेछे ॥१०॥ नावे करीने एटले हाथमां आवेलुं नावेक ले पण ॥११॥ बुडयो एटले संसार समुद्रमां पडयो हवो ॥१२॥ जाणवो एटले जेम कोइ मूरख पुरुष हा मां आवेलुं एवुंय पण नाव ते प्रते भागीने तेना लो ढाना खीलाए करीने समुद्र प्रते तरवानी वांछा क छे तैम आ पुरुष पण संसार समुद्र तारवाने नाव स खां महावृत अणुवृतादीक, ते प्रते जागीने एटले वृतोमां दुशण लगाडीने एटले आर्तध्यान रुद्रध्याना क करीने वाह्य तपे करीने संसार समुद्र तरवानी छि करेछे ते मूरख जाणवो. कह्युं छे के:-

“तद्वेवहितपः कार्ये-दुर्ध्यानं यत्र नो जवेत्-

येन योगान्हीयन्ते-क्षीयन्ते नैन्द्रियाणि च”

अर्थ. तेज तप करवा जोग्य छे जे तप करे सते रध्यान एटले माठुं ध्यान न थाय अने जे तप करवे रीने संजमना व्यापार हानी न पामे अने वली जे

तप करवे करीने इंद्रिओ क्षय न पामे एटले इयां  
मीत्यादीक पाळवाने विशे सीथळ न थाय तेज  
आत्माने हीतकारी जाणवो ए कारण माटे हे ज  
जीवों जेम जाव तप हानी न पामे तेम द्रव्य त  
शे उद्यम करवा जोग्य छे ए जावा॥५०९॥

सुबहुं<sup>१</sup>पासथजणं<sup>२</sup>नाउणं<sup>३</sup>जो<sup>४</sup>न<sup>५</sup>होइ<sup>६</sup>मभ्यथो<sup>७</sup>॥नय<sup>८</sup>  
साहेइ<sup>९</sup>सकब्जं<sup>१०</sup>कागं<sup>११</sup>च<sup>१२</sup>करेइ<sup>१३</sup>अण्णं<sup>१४</sup>॥५१॥

जे पुरुष पारकी नींघा करे ते आत्मकारज  
साधी न शके ते देखाडे छे:-

अर्थ॥१॥जे पुरुष॥२॥अतीशे बहु प्रकारे॥३॥पार  
स्थ जन प्रते एटले ज्ञान दर्शन चारीत्र रहीत पुरुष  
सीथीलपणा प्रते॥४॥जाणीने॥५॥मध्यस्थ एटले  
द्वेश रहीत॥६॥ना॥७॥होय ते पुरुष ॥पोताना क.  
प्रते॥९॥नहीज॥१०॥साधे एटले मोक्ष रुप पोताना  
रज प्रते न करीशके॥११॥वली॥१२॥पोताना आ  
प्रते॥१३॥कागडातुल्य॥१४॥करेछे एटले पारको दू  
देखीने जे राग द्वेशमां पडेछे ते पुरुष कागडा तुल्य  
णवो जेम कागडानो स्वभाव उत्तम चिज मुकीने  
फेंदवानोछे तेम उत्तम पुरुशोना गुणनी स्तवना

मेध्याद्रष्टीनो स्वप्नाव पारका दुशण देखवानोछे ते माटे  
 गडा तुल्य कह्योः ए कारण माटे हे भव्य जीव  
 पारका दुशणमां पडवुं नही ए तत्व बोधनुं लक्षणछे.

पतिचिचिउणं अनिउणं ॥ जय नियमभरो अन तीरण ॥

वेदुं पराचिचरं जणेणं ॥ न वेसनिचिणं चाहारो ॥ २१ ॥

जे पुरुषे वृत्त अंगीकार करीं होय अने तेथी न पली  
 शकतां होय अने लोकने रीझववाने अर्थे ते वृत्ती  
 नाम घरावेछे अने वृत्तनो फटाटोप मूकतो नथी  
 तेनुं नीप्फलपणुं जणावता सता कहेछे:-

अर्थे ॥ १ ॥ निपुणपणे एटले सुद्वम बुद्धीए करीने एटले

मीणी बुद्धीए करीने ॥ २ ॥ समस्त प्रकारे चिंतवन करी

ने एटले जेन आत्महीसा न थाय तेम विचारीने ॥ ३ ॥

मो ॥ ४ ॥ नामनो समुह एटले मुल उतर गुणोना समुह

प्रतो ॥ ५ ॥ वहन करवाने एटले धारण करवाने ॥ ६ ॥ न

मो ॥ ७ ॥ तमर्थ थइए एटले जावजिव सुधी ग्रहण करेलां

न पाली न शकीए त्यारो ॥ ८ ॥ लोकोना चीतने रंजन

रनार एवो एटले मुग्ध लोकोना चीतने प्रीती उपजा

नार एवा ॥ ९ ॥ केवल शाधुना वेशे करीने एटले गुण

हीत वेशे करीने ॥ १० ॥ नही ॥ ११ ॥ आधार एटले परम

वने विशेष जता एटले दुरगतीने विशेष पडता एवा  
 पुरुषो तेमने आधाररूप न थाय एटलेगुण रहीत  
 दुरगतीथी धारण करी शके नही एटले राखी शके  
 ही; ए कारण माटे आत्मार्थि पुरुषोए सारी रीते वि  
 र करवो जोइए के आ वृत माहारार्थी पळेछे के  
 पळतुं ए विशेष नीरंतर उपयोग राखवो जोइए ५  
 ठो फटाटोप राखवो ए श्रेष्ठ नथी ए रहस्य॥५१

निच्छयनयस्स<sup>१</sup> चरस्तुवघाए<sup>२</sup> नाणदंसणवहोवि<sup>३</sup> ॥

ववहारस्स<sup>४</sup> उ<sup>५</sup> चरणे<sup>६</sup> ॥ हयंमि<sup>७</sup> भयणाउ<sup>८</sup> सेसाणं<sup>९</sup> ॥ ५१ ॥

नीश्रयनयमते करीने चारीत्रनो नाश थये सते स

ज्ञानादीक गुणनो नाश थाय ते देखाडेछे:-

अर्थ॥१॥नीश्रयनयमते करीने एटले परमार्थ

ए करीने॥२॥चारीत्रनो उपघात थये सते एटले

त्रनो नाश थये सते ॥ ३ ॥ ज्ञान दर्शननो वीन

पण थाय एटले नीश्रे चारीत्रनो नाश थये सते

श्रव सेवन करवे करीने ज्ञान दर्शननो नाशज

य-नीश्रय चारीत्र ते कोने कहीए जे सशुकप

अंतरंगने विशेष दाज्ञ सहीत पणुं के आ काम

नथी करवा जोग्य अने माहारे त्यागवा जोग्य छे

३-३३४-३३४

कर्म बन्ने करीने हुं त्यागी नयी शकतो एवो जे वीचा  
 र ते दाह्न कहीये अने तेज नीश्वे चारीत्र कहीए एवी  
 बीचारणा रहित आश्रवनुं सेवन करेछे अने वली वो  
 लेछे के आनां अनने शुं पाप जाग्युं एवा पुरुषने स  
 म्यग्ज्ञानदर्शनतो नाशज थायाश्रवणी। १५ व्यवहार नय  
 मते करीने एटले चह्यवृतीए करीने। १६ चारीत्रनो। १७।  
 नामयये सतो। १८ वाकी रहेजां एवां जे ज्ञान दर्शन तेमनो  
 शिजननाए करीने एटले भजनाए करीने नाश थाय ए  
 टले नाश थाय वा अथवा नथाय एटले व्यवहारनां चा  
 रीत्र नयी पाळी शकतो एटले आश्रव नयी टाली श  
 कतो पण चीतने वीशे दाह्न वरतेछे तोते पुरुषने सम्यग्  
 ज्ञानदर्शन होय अने जे पुरुष अंतरंगने वीशे पण दाह्न  
 हांतछे अने उपरयी पण चारीत्र पाळतो नयी तेनेतो  
 सम्यग् ज्ञान दर्शन होय नही एटले तेने तो समकीत  
 न होय केनके नीश्वय सहित व्यवहारनुं बलवान  
 नुं छे अने नीश्वय बीना जे व्यवहार छे ते व्यर्थछे.

१५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥

२६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥

जे द्रव्यनाव बे प्रकारे वीरतीवत होय ते

शुध थाय ते देखाडे छे:-

अर्थ॥१॥ भलुछे चारीत्र तेजेने एटले द्रव्यजाव  
 कारे छे आश्रवनोत्याग तेजेने एवो॥२॥ जती एटले  
 धु॥३॥ शुध थायछे एटले नीरमळ थायछे एटले  
 कलंके करीने रहीत थायछे अने वली॥४॥ ज्ञान  
 गुणे करीने सहीत एवो॥५॥ जलो श्रावक पण एटले  
 तराग आज्ञा सहीत श्रावक पण॥६॥ शुध थायछे  
 ले नीरमळ थायछे अने वली॥७॥ संवीज्ञपक्षनी छे  
 ची ते जेने एवो एटले मोक्षना अजिलाशी अने  
 मारगमां प्रवर्तेला एवा मुनीराजनी क्रियाने वशि  
 ची ते जेनी एटले तेमनी क्रियानी अनुमोदना  
 वो॥८॥ सीथीलळे चरण सीतरी अने करणसीतर  
 जेने एटले मुझ उतर गुण पालवाने सीथील एव  
 तो पण॥९॥ शुद्ध थायछे एटले कर्म रहीत थायछे  
 ने ते पुरुश संवेगपक्षी जाणवो॥१०॥ ३॥

संवेगपक्षीखआणं१लखण२मेअं३समासउ४भणियं॥

उसन्नचरणकरणावि॥जेण१वि०कम्म२विसोहांति१॥५१४॥

संवेग पक्षी शा लक्षण वडे करीने जाणीए एवो त  
 थये सते गुरुमाहाराज सिद्धांतने अनुसारे संवेगप

क्षीनां लक्षण कहेवे करीने तेनुं स्वरूप जणावेछे.  
 अर्थ॥१॥संवेगपक्षी पुरुशोनुं एटले मोक्षना अमि  
 शी एवा मुनीराजनाछे पक्ष ते जेमने एटले तेमनी  
 न्याअनुष्ठानने विशे रक्त तेमनुं॥२॥आ॥३॥लक्षण॥  
 ॥संक्षेपे करीने॥५॥तीर्थकरदेवे कहयुंछे॥६॥जे लक्ष  
 वडे करीने॥७॥सीथीलछे चरण करण ते जेमने ए  
 जे मुल उतर गुण पाळवाने विशे सीथील एवा सता  
 ॥८॥कर्म प्रते एटले ज्ञानावरणादीक कर्म प्रते॥  
 ॥विशेपे करीने शोधेछे एटले क्षण क्षण प्रते स्वपा  
 ॥१०॥नीश्वे फरी संवेग पक्षीनुं लक्षण आगली गा  
 ओमां प्रगट पणे जणावेछे॥१४॥

१ सुसाहुधम्मं २ कहेइ ३ निदइ ४ अ ५ निय ६ मायारं ७

८ तवस्सिआण ९ पुरउ १० होइ ११ सवोमरावणीउ १२ ॥५१५॥

अर्थ॥१॥शुद्ध एटले जीनराजनी आज्ञा सहीत एवा  
 ॥सुसाधुना धर्म प्रते॥३॥कहेछे एटले लोकोनीआ  
 ॥निरवद्य एटले पाप रहीत क्षांत्यादि दश प्रकार  
 जती धर्म ते प्रते परुपेछे एटले जणावेछे॥४॥वली  
 ॥जला तपस्वीओनी एटले सुसाधुओनी॥६॥आ  
 ॥७॥पोताना॥८॥आचार प्रते एटले सिथिल पणा



शुध थाय ते देखाडे छेः--

अर्थ॥१॥ भलुछे चारीत्र तेजेने एटले द्रव्यज  
कारे छे आश्रवनोत्याग तेजेने एवो॥२॥ जती ए  
धु॥३॥ शुध थायछे एटले नीरमळ थायछे एटले  
कलंकें करीने रहींत थायछे अने वली॥४॥ ज्ञा  
गुणे करीने सहीत एवो॥५॥ जलो श्रावक पण ए  
तराग आज्ञा सहीत श्रावक पण॥६॥ सुध थाय  
ले नीरमळ थायछे अने वली॥७॥ संवीज्ञपक्षनी  
ची ते जेने एवो एटले मोक्षना अजिलाशी अने  
मारगमां प्रवर्तला एवा मुनीराजनी क्रियाने वरिं  
घी ते जेनी एटले तेमनी क्रियानी अनुमोदना क  
वो॥८॥ सीधीलळे चरण सीतरी अने करणसीत  
जेने एटले मुञ्ज उतर गुण पालवाने सीधील  
तो पण॥९॥ शुद्ध थायछे एटले कर्म रहींत थाय  
ने ते पुरुश संवेगपक्षी जाणवो॥१०॥

संवेगपक्षीय आणं १ लक्ष्यवण २ मे ए अं ३ समास उ ४ भागियं ॥

उमत्र चरणकरणावि ॥ जेग १ वि १ कर्म २ विमोहंनि ॥ १० ॥

संवेग पक्षी आ लक्षण वड करीने जाणीए एवो  
थये सते गुरुमाहाराज सीद्दांतने अनुसारे ॥

क्षीनां लक्षण कहेवे करीने तेनुं स्वरूप जणावेछे.

अर्थ॥१॥संवेगपक्षी पुरुशोनुं एटले मोक्षना अभि  
लाशी एवा मुनीराजनोछे पक्ष ते जेमने एटले तेमनी  
क्रियाअनुष्ठानने विशे रक्त तेमनुं॥२॥आ॥३॥लक्षण॥  
॥४॥संक्षेपे करीने॥५॥तीर्थकरदेवे कहयुंछे॥६॥जे लक्ष  
ण वडे करीने॥७॥सीथीलछे चरण करण ते जेमने ए  
टले मुल उतर गुण पाजवाने विशे सीथील एवा सता  
पण॥८॥कर्म प्रते एटले ज्ञानावरणादीक कर्म प्रते॥  
॥९॥विशेषे करीने शोधेछे एटले क्षण क्षण प्रते खपा  
वेछे॥१०॥नीश्चे फरी संवेग पक्षीनुं लक्षण आगली गा  
थात्रोमां प्रगट पणे जणावेछे॥११॥

सुदं<sup>१</sup> सुसाहुधम्मं<sup>२</sup>॥कहेइ<sup>३</sup> निदइ<sup>४</sup> अ<sup>५</sup>निय<sup>६</sup>मायारं<sup>७</sup>॥

सुतवत्सिआण<sup>८</sup> पुरउ<sup>९</sup>॥होइ<sup>१०</sup> सव्वोमरावणीउ<sup>११</sup>॥५१५॥

अर्थ॥१॥शुद्ध एटले जीनराजनी आज्ञा सहीत एवा

२॥सुसाधुना धर्म प्रते॥३॥कहेछे एटले लोकोनीआ

ल निरवद्य एटले पाप रहीत क्षांत्यादि दश प्रकार

को जती धर्म ते प्रते परुपेछे एटले जणावेछे॥४॥वली

५॥जला तपस्वीओनी एटले सुसाधुओनी॥६॥आ

ला॥७॥पोताना॥८॥आचार प्रते एटले सिथिल पणा

दिक प्रते॥९॥नींदेछे एटले साधु मुनीराजनी.  
 एवं बोलेछे के धन्यछे आपने जे आप शुद्ध  
 ने विषे वरतोछो अने हूंतो चारित्र पालवाने  
 छुं माहारथी पली शकतुं नथी ते माटे हुं  
 एवी रीते कहे छे अने वली॥१०॥सर्व मुनिओ  
 लवू॥११॥थायछे एटले एक दिवसना दिक्षित  
 थकी पण पोताना आत्माने नानो मानेछे एटले  
 नुं नीचत्वपणुं जावेछे॥५१५॥

वंदइ<sup>१</sup>न<sup>२</sup>वंदावइ<sup>३</sup>॥किइ<sup>४</sup>कम्मं<sup>५</sup>कुणइ<sup>६</sup>कारवे<sup>७</sup>णेयं<sup>८</sup>॥

अत्तए<sup>९</sup>नवि<sup>१०</sup>दिखिवइ<sup>११</sup>॥देइ<sup>१२</sup>मुसाहुण<sup>१३</sup>बोहेउं<sup>१४</sup>॥

अर्थ॥१॥वंदन करेछे एटले मोक्षाभिलाशी ए

थी नाहाना साधु प्रते पण वंदन करेछे २७

॥३॥वंदन करावे एटले ते साधु मुनीराजनी पा

ताने वंदन करावे नही अने वली॥४॥कृती कर्म

एटले संवीज साधुओनी पोते वीथामणादी एट

आवचादीक प्रते॥५॥करे॥६॥नहीजा॥७॥करावे

ते साधुओ पासैयी पोते वीआवचादिक करावे

अने वली॥८॥पोताना अर्थ॥९॥नहीजा॥१०॥दीक्ष

पे एटले कोइ वैराग्य पामीने दिक्षा लेवा आवे

तेने पोतानो शिष्य करवाने अर्थे पोते दीक्षा आपे न  
ही त्यारे शुं करे ते कहेछे॥११॥बोध पमाडीने एटले  
शुद्ध उपदेशदेइने सम्यक्त्वादीक धर्म पमाडीने॥१२॥  
जला मुनीआनी समीपे॥१३॥दिक्षा लेवरावे पण पो  
ते तेने दिक्षा आपे नही केमके चेला करवाथी शुद्धप  
रूपणा रहे नही ए कारण माटे॥५१६॥

उसन्नो<sup>१</sup>अत्तठा<sup>२</sup>पर<sup>३</sup>मष्पाणं<sup>४</sup>च<sup>५</sup>हणइ<sup>६</sup>दिख्खंतो<sup>७</sup>॥  
नं<sup>८</sup>च्छंइ<sup>९</sup>दुग्गइए<sup>१०</sup>॥अहिअयरं<sup>११</sup>बुडइ<sup>१२</sup>सयं<sup>१३</sup>च<sup>१४</sup>॥५१७॥  
पोताने अर्थे चेलो करवाथी शुं थाय तेनु फळ गुरुमाहा  
राज आ नीचेनी गाथाए करीने जणावे छे:-  
अर्थे॥१॥अवसन्नो एटले चारित्र पालवाने सीथील ए  
सतो॥२॥पोताने अर्थे एटले पोताने नीमत्ते॥३॥वी  
ना॥४॥आत्मा प्रते एटले बीजा पुरुप प्रते॥५॥दीक्षाआ  
तो एटले पोतानो शिष्य करतो सतो॥६॥हणे छे ए  
ले जाव थकी पोतना आत्मानो नाश करेछे॥७॥वली  
शुं करेछे ते कहेछे॥ ८ ॥ते शिष्य प्रते॥९॥दुरगतीने  
शे॥१०॥नाखेछे अने॥११॥वली॥ १२॥पोते॥१३॥अ  
शे अधिका॥१४ ॥बुडे छे एटले पूर्व अवस्था थकी वि  
प्रकारे संसार समुद्र मध्ये बुडे छे.केमके पोतानी

पासेतो महावृत्त नथी अने बीजाने महावृत्त  
 छे तेमां मृखावाद आवेछे ते कारण माटे बने  
 डे छे. त्यारे शिष्येर्क कर्षो के देनारतो मृखा  
 यो माटे बुडे पण लेनारे श्यो अपराध कर्षो के  
 बुडे? हे शिष्य तर्कतो घणी समजणनो कर्षो पण  
 उतर सांजल, जेम कोइ पुरुष समुद्र तरवाने श  
 गाने करीने सहीत एवी लोढानी नावने .  
 णीने माही वेठो अने तेना प्रणाम पण  
 छे तो ते पुरुष समुद्र तरी शके नही तेम ज्ञानाव  
 करीने रहीत पांच आश्रवतो सेवनार अने आ  
 हीत जुठी कीरीआनो फटाटोप करनार तेने रु  
 धु जाणीने संसार समुद्र तरवाने अर्थ अंगीकार  
 पण संसार समुद्रमां बुडेज वली जेम कोइ पुरुष  
 ल अने गोळ ते वेडनी परीक्षा कर्षो वीना सोम  
 गोळ जाणीने खाय तोते पुरुष नीश्रे मरेज तेम  
 तनेअनुसारं गुरुकु गुरुनी परीक्षा कर्षो वीना कुमु  
 जाणीनेज दीक्षा अंगीकार करे अथवा  
 गीकार करे अथवा सम्यक्त्व अंगीकार क  
 ते बुडेज केमके पोताना प्रणामतो रुद्र अंग

र करवाना छे पण जेवो पुरुष मीले तेवुं आपे.  
ते माटे प्राये खोटाना संसर्गे तरी शकेजनही ए चाव.

बहस्रणं मुवगयाणं ॥ जीवाणधनिकंत ए सिरं जोउ ॥

एवं आयरिउविहु ॥ उस्मुत्तं पन्नवित्तो १० य १॥ ५१ ८ ॥

उत्सूत्र प्ररुपक उपर द्रष्टांत आ नीचेनी गा-  
थामां जणावे छेः--

अर्थ ॥ १ ॥ जेमा ॥ २ ॥ सरण प्रते ॥ ३ ॥ आवेला एवा ॥ ४ ॥ जी  
व तेमनुं ॥ ५ ॥ मस्तक प्रते ॥ ६ ॥ जे पुरुष ॥ ७ ॥ छेदेछे एटले  
जे पुरुष पोताना शरणे आवेला एवा प्राणीओना मा  
थां प्रतेकापेछे ॥ ८ ॥ ए प्रकारे ॥ ९ ॥ उत्सूत्रप्रते एटले सू  
त्रथी विरुद्ध प्रते ॥ १० ॥ प्ररुपणा करतो एटले भव्य प्रा  
णीओने कुमारगने विशे प्रवर्तावतो एवो ॥ ११ ॥ आचार  
जजे ते पण शरणे आवेला एवा भव्य जीवोनुं माथुं का  
पेछे ॥ १२ ॥ नीश्वे एटले नीश्वे वीश्वासघात करेछे. आ गा  
थामां एटलो शब्द वाक्य शोचावाने अर्थेछे. जेम ते  
जुठुं सुभट नाम धरावनारो पुरुष पोताने आश्रीने रहे  
ला प्राणीओने पोताने वीशे वचने करीने वीश्वास उप  
जावीने तेमनुं माथुं कापी नाखे छे जेम नाम मात्र ए  
टले गुण रहित एवो आचारज जे ते पण पोताने आ

श्रीने रह्या एवां भव्य प्राणीत्रोने नाम मात्र धर्म  
 डवे करीने वीश्वास उपजाववे करीने जुठा धरमने  
 एटले कपायादि सहीत धर्मने विशे प्रवर्तवीने  
 थी मांथु कापेछे एटले दुरगतीने विशे परीभ्रमण  
 वे छे एं कारण माटे आत्मार्थी पुरुपोए तेवा  
 संसर्ग करवो नही ए उपदेश ॥५१८॥

सावज्जजोगपरिवज्जणाउ १॥ सव्वुतमो २ जइधम्मो ३॥

वीउसावगधम्मो ४॥ तइउसंविग्गपख्खपहो ५॥ ५१९॥

॥मोक्षना त्रण मारगछे ते देखाडेछे॥

अर्थ ॥१॥ सावद्ययोग एटले पाप सहीत व्यापार  
 मनुं परीवर्जन एटले समस्त प्रकारे त्याग करवे  
 ने एटले पाप सहीत व्यापार मुकवे करीने ॥२॥  
 नी मध्ये उत्तम एटले सर्व धर्मनी मध्ये श्रेष्ठा २  
 धर्म एटले साधुनो धर्म होय ए पहेलो मोक्षनो  
 ग ॥४॥ बीजो श्रावकनो धर्म ए बीजो मोक्षनो म  
 ॥५॥ अने त्रीजो संवेग पक्षीनो मारग ए त्रीजो म  
 नो मारग ए त्रणे कर्म रहीत थवाना मारग जा  
 त्यारे शिष्य बोल्यो के स्वामीनाथ वे मारगतो म  
 जवाना समजायछे पण त्रीजो संवेग पक्षीनो

ते मोक्ष मारग शी रीते कहेवाय केमके पोते तो सीथ-  
ला चारीछे अने एक शुद्ध उपदेश करवे करीने पोताने  
शुं गुण थाय ए मारा मनमां संशयछे त्यारे गुरु मा-  
हाराज बोलया के हे शिष्य तर्क तो घणो सारो कर्षो  
पण तेनो उत्तर सांभल? शिद्दांतने विशे कहयुंछे:-

उसन्नोविविहारे॥कम्मंसोहेइसुलहवोहिअ॥

चरणकरणविसुद्धं॥उवबुहितोपरुखवितो॥

अर्थ:-साधु मारगने विशे सीथलछे एटले मुनी मा  
र्ग पाली शकतो नथी एवो सती पण कर्म प्रते सोधे  
छे एटले क्षण क्षण प्रते कर्मनो नाश करेछे ते शुं कर  
तो सतो कहेछे के चरण सीतरी अने करण सीतरीनी  
विशुद्धी प्रते एटले शुद्ध मुल उत्तर गुणो प्रते अनुमो  
दना करतो सतो अने नव्यजीवोनी आगल प्ररुपणा  
करतो सतो एटले नव्यजीवोनी आगल एवंु कहेछे  
के मुनीराजनो मार्ग ए आसीद्दांतमां कहयो ए प्रकारे  
छे अने हूंतो ते मारग पालवाने असमर्थछुं एवी रीते  
बोलीने शुद्ध मारगने विशे अधा करावतो सतो पोता  
ना पूर्व करेला ज्ञाना वरणादी कर्म प्रते टालेछे एका  
रण नाटे हे शिष्य जे शुद्ध प्ररुपणा करवी ए पण ए



क मोहोंटो गुणछे तेनुं लक्षण आगळ ॥५॥  
ने सारी रीते समजण पडशे एजावा ॥५१९॥

सेसामिच्छहिंद्री ॥ गिहेलिंगिकुलिंगद्वलिंगेहिं ॥

बह ३ तिन्नेड ५ मुखपहा ४ ॥ संसारपहा ८ तहा ५ तिन्नि ॥ ५ ॥

हवे संसारना त्रण मारग देखाडेछे:-

अर्थ ॥ १ ॥ तेथी न्यारा उटले आ पुर्वे कह्या जे

मारग तेथी जुदा शेश एटले बीजा पण मीथ्या

जाणवा ते कीया ॥ २ ॥ गहीलींगना धरवा वाला

ग्रहस्थ लोको अने कुलींग एटले द्रव्य थकी जर्त

ना धारवावाला ए त्रणे मीथ्या द्रष्टी जाणवा ॥ ३ ॥

॥ ४ ॥ मोक्षना मारग ॥ ५ ॥ त्रण कह्या ॥ ६ ॥ तेमा ॥ ७ ॥

॥ ८ ॥ संसारना मारग जाणवा एटले पूर्वे कह्या ए

हस्थ लींगादीक त्रण ए संसारमां परीभ्रमण कर

मारग जाणवा ॥ ५२० ॥

संसारसागर २ मिणं २ परिभमंतेहिं २ सबजीवेहिं ४ ॥

गहियाणि ० अ ८ मुक्काणि ९ य १ ॥ अणंतसो ६ द्वलिंगाई ५ ॥ ५ ॥

अर्थ ॥ १ ॥ आ ॥ २ ॥ संसाररूप समुद्र प्रते ॥ ३ ॥ रि

करता एटले जन्मजरा मरणकरता एहवा ॥ ४ ॥ सर्व

जे तेमणे एटले सर्व प्राणियोए ॥ ५ ॥ अनंतिवार ॥

लिंग एटले रजोहरण मुखवस्त्रिका रूप गुण र  
 केवल वेशमात्रा॥७॥ग्रहण करयां एटले धारण क  
 ॥८॥वलि॥९॥मूक्यां एटले ग्रहण करि करिने मू  
 तोये पण कांइ सिद्धि न धइ एटले आत्मानि ग  
 न्तरि नहि॥१०॥निश्चे॥११॥एकारण माटे हे नव्य  
 प्रथम समकितनो उद्यम करो केमके समकित  
 त द्रव्यलिंग आत्माने हितकारिछे एभावा॥५२१  
 द्गुरत्ते॥जो॥पुग॥॥न॥मुअइ॥वहुत्तो॥वि॥पत्राविब्वंतो॥  
 ॥५॥लिखअत्त॥॥कारिअ॥॥त्तभिभहति॥॥तेण॥॥५॥॥१६॥२२

लिंग प्रते नथि॥८॥मूकतो ते पुरुष प्रते आ  
 हाराज पोतेहिज उपदेश करेछे के जो तुं वे  
 शेडतो त्यारो॥९॥संविज्ञ पक्षिपणा प्रते एटले  
 अभिलापी एहया जे मुनीराज तेमना पत्रा

तिपणा प्रते॥१०॥करय एटले साधु मुनिराज  
 क थइनें निर्देभपणें करिने विशुद्ध एवि जे चर  
 तरि करण सितरितेहनिजथारय प्ररूपणा करय  
 ते संविग्न पाक्षिकपणाए करिने एटले जेवो छे  
 वीतरागनो बतावेजो मारग परूपवे करिने१२  
 मि भवने विशे मोक्ष मार्ग प्रते॥१३॥पामिश ए  
 माटे जो सम्यक् प्रकारे साधुपणुं नहि पालि  
 सुद्ध प्ररूपणा करवि घटीत छेपण साधुपणानो  
 खिने चेला चेलि करवा ते घटित नथि ए उपदेश  
 कंतारोहमद्वाणउम<sup>१</sup> गेलत्तमाइकज्जेसुसवायरेण<sup>२</sup>  
 जयणा<sup>३</sup>॥कुणइ<sup>४</sup>जं<sup>५</sup>साहुकरणीजं<sup>६</sup> ॥ ५२३ ॥

हवे साधुनुं लक्षण कहिए छीए.

अर्थ ॥१॥ माहा अटवि एटले पाणि छाया  
 मोटि अटवि, रोध एटले राजादिकनि लढाइने  
 कोटे करिने रोकावुं विपम मार्गने विशे चाल  
 निक्ष काल एटले दुकाल ग्लानिपणुं ए अ  
 एटले पुर्वे कह्युं ते आदिक कार्योने विशे ५०  
 कह्यां एहवां कारण पडे सते ॥२॥ सर्व आदरे  
 एटले जेटलि पोतानि शक्ति होय तेटलि फोरववे

॥३॥ जत्नाए करिने एटले पूर्वे कहेलि एवि जत्ना स  
 हिता॥१॥जे॥५॥साधुओने करवा जोग्य होय ते प्रते६।  
 करे एटले साधुनिराज कारण पडे सते पण साधुओ  
 ने जे करवाने उचित होय ते जतना सहित करे॥५२३।

आपरतरसंमाणं ॥ तुदुकरं ॥ माणसंकडे ॥ लोए ॥

संवेगपक्षपणं ॥ उत्तमं ॥ फूडं ॥ काउ ॥ ५२४ ॥

हवे संवेगपक्षपणानुं दूर्लभपणुं देखाडेछे.

अर्था॥१॥माने करिने एटले अहंकारे करिने सांकडो  
 एटले भरेलो एहवोजे॥२॥लोक एटले संसार तेने वि  
 ॥३॥अतिशे आदरे करिने उत्तम साधुओनुं सन्मान  
 करवुं एटले उत्तम साधु आवे सते उच्चा थवुं सामा ज  
 तेमना गुणनी प्रसंस्या करवी इत्यादिका॥४॥अति  
 दुष्करछे एटले अतिशे करिने दुर्लभछे॥५॥शिथी  
 लाचारि जे तेने॥६॥संवेग पक्षपणुं॥७॥प्रगट एटलेनि  
 दूर्लभपणे॥८॥करवाने दुर्लभछे एटले पोते शिथीलाचा  
 रे थइने मुनीराजनुं वहु मान करवुं अने कपट रहि  
 पणे शुद्ध प्ररुपणा करवि ए कठणछे ए कारण माटे  
 संवेग पक्षि पुरुष जे ते पण आत्मार्थि पुरुषोने मा  
 वा ज्योगछे ए भाव॥ ५२४ ॥

सारणचेइया<sup>१</sup>जे<sup>१</sup>गच्छनिगया<sup>३</sup>पविहंति<sup>४</sup>पासथा<sup>५</sup>॥  
 जिणवयणवाहिरा<sup>६</sup>वि<sup>७</sup>य<sup>८</sup>ते<sup>९</sup>अपमाणं<sup>१०</sup>न<sup>११</sup>कायवा<sup>१२</sup>॥  
 अर्थ॥१॥जे पुरुषा॥२॥सारणा एटले भुलि गये.  
 संनारवुं एटले आ काम आ रिते करो आ काम  
 रिते करो ए प्रकारे वारवार शिखामण देवे करिते  
 दवेग पाम्या एहवा अने॥३॥गछ थकि निकलेल  
 टले उत्तम साधुओना समुदायथकिवाहार निकलेल  
 हवा॥४॥विचरेछे एटले पोतानि इछाए करिने फरत  
 हवा॥५॥पासध्यादिक एटले ज्ञान दर्शन चारित्र  
 त एहवा॥६॥जिनराजना वचन थकि वाहिर थएल  
 टले प्रथम शुद्ध चारित्र पालिने पछि प्रमादि थए  
 एहवा॥७॥ते पुरुषो॥८॥पण॥९॥निश्चो॥१०॥अप्रम  
 ॥११॥नहि॥१२॥करवा एटले पूर्वे कहेला एहवा  
 रुप ते साधुपणाने विशे गणवा जोग्य नाथि॥५२॥  
 हीणस्सवि<sup>१</sup>सुद्धपरुवगस्स<sup>२</sup>॥संविग्गपख्खवायस्स<sup>३</sup>॥जा<sup>४</sup>जा<sup>५</sup>  
 विज्ज<sup>६</sup>जइणा<sup>७</sup>॥सा<sup>८</sup>सा<sup>९</sup>०से<sup>१</sup>निज्जरा<sup>११</sup>होइ<sup>१२</sup>॥५२६॥

हवे सुद्ध परुपकपणानो गुण केहछे.

अर्थ॥१॥हींन एहवो पण एटले कांडिक उत्तर गुण  
 रिते शिथिल एवो पण॥२॥शुद्ध .रु .जानो .॥

हो एटले शुद्ध वीतराग देवनो मार्ग देखाडनार॥३॥  
 भवेगी मुनियोनो पक्षपात करनार एटले मोक्षना अ  
 भेलापि मुनियोनि साहाज्य करनारो एहवो जे पुरु  
 प तेनि॥४॥जे॥जे॥६॥जतना एटले बहु दोषवालि व  
 स्तुनु वर्जवुं अने अल्प दोष वालि वस्तुनुं लेवुं ते रुप  
 ॥५॥जतना॥८॥होया॥९॥ते॥१०॥ते पुरुपनो॥११॥कर्म  
 नोक्षय करनारि एटले कर्मनो नाश करनारि॥१२॥धा  
 यछे ए कारणमाटे जयार्थ चारित्र पालि शके नहि तो  
 पण शुद्ध प्ररुपणा करवि ए उपदेश॥५२६॥

सुहाइयपरिचुद्धे ॥ चइ ॥ लाभे ॥ कुणइ ॥ वाणिउ ॥ चिहं ॥  
 एमेइ ॥ प ॥ गीवथो ॥ आयं ॥ दंडुं ॥ रचनावरइ ॥ ॥५२७॥  
 आत्मार्थि पुरुप लाज खराजातनो विचार करे ते कहेः  
 अर्या॥१॥वणिक् एटले व्यापारि॥२॥शुल्कादिके करिने  
 एटले राजाने आपवा जोग्य द्रव्यादिके करिने परिशु  
 द्द एटले समस्त प्रकारे शुद्ध एटले राजाने दाण भर  
 रिने पछी॥३॥लाज॥४॥सते एटले लाज रहे सते  
 चेष्टा प्रते एटले वेपार प्रते॥६॥करे छे॥७॥वलि  
 एज प्रकारे॥९॥गीतार्थ एटले सम्यक् प्रकारे शास्त्र  
 गाण एहवो पुरुप पणा॥१०॥लाज प्रते॥११॥देखि  
 टले विचारिने॥१२॥ सम्यक् प्रकारे आचरे छे ए

सारणचेइया<sup>१</sup>जे<sup>२</sup>गच्छनिग्गया<sup>३</sup>पविहरंति<sup>४</sup>पास<sup>५</sup>था<sup>६</sup>॥

जिणवयणवाहिरा<sup>१</sup>वि<sup>२</sup>य<sup>३</sup>ते<sup>४</sup>अपमाणं<sup>५</sup>न<sup>६</sup>कायवा<sup>१</sup>२५

अर्थ॥१॥जे पुरुषा॥२॥सारणा एटले भुलि गे.

संनारवुं एटले आ काम आ रिते करो आ काम

रिते करो ए प्रकारे वारवार शिखामण देवे करिने

दवेग पाम्या एहवा अने॥३॥गछ थकि निकलेला

टले उत्तम साधुओना समुदाय थकि वाहार निकलेला

हवा॥४॥विचरेछे एटले पोतानि इछाए करिने फरत

हवा॥५॥पासध्यादिक एटले ज्ञान दर्शन चारित्र

त एहवा॥६॥जिनराजना वचन थकि वाहिर थएल

टले प्रथम शुद्ध चारित्र पालिने पछि प्रमादि

एहवा॥७॥ते पुरुषो॥८॥पण॥९॥निश्चो॥१०॥अत्र

॥११॥नहि॥१२॥करवा एटले पूर्वे कहेला एहवा

रुप ते साधुपणाने विशे गणवा जोग्य नाथि॥५२॥

हीणस्सवि<sup>१</sup>सुद्धपरुपकपणानो<sup>२</sup>गुणकेहछे॥

विज्ज<sup>३</sup>मइणा<sup>४</sup>सा<sup>५</sup>सा<sup>६</sup>से<sup>७</sup>निज्जरा<sup>८</sup>होइ<sup>९</sup>॥५२६॥

हवे सुद्ध परुपकपणानो गुण केहछे.

अर्थ॥१॥हींन एहवो पण एटले कांडक उत्तर गुणे

रिने शिथिल एवो पण॥२॥शुद्ध परुपणानो करना

वो एटले शुद्ध वीतराग देवनो मार्ग देखाडनार॥३॥  
वेगी मुनियोनो पक्षपात करनार एटले मोक्षना अ  
मेलापि मुनियोनि साहाज्य करनारो एहवो जे पुरु  
तेनि॥१॥जे॥जे॥६॥जतना एटले बहु दोषवालि व  
तुनु वर्जवुं अने अल्प दोष वालि वस्तुनुं लेवुं ते रुप  
अजतना॥८॥होया॥९॥ते॥१०॥ते पुरुपनो॥११॥कर्म  
मोक्षय करनारि एटले कर्मनो नाश करनारि॥१२॥था  
छे ए कारणमाटे जयार्थ चारित्र पलि शके नहि तो  
एण शुद्ध प्ररुपणा करवि ए उपदेशा॥५२६॥

मुक्ताइयपरिचुद्धे॥॥सइ धलमे कुणइ वाणिउ चिहं॥  
एनेइय गीयथो॥आयं॥दहुं॥समायरइ॥॥५२७॥

आत्मार्थि पुरुष लाज खराजातनो विचार करे ते कहेः  
अर्थ॥१॥वाणिक् एटले व्यापारि॥२॥शुल्कादिके करिने  
एटले राजाने आपवा जोग्य द्रव्यादिके करिने परिशु  
इ एटले समस्त प्रकारे शुद्ध एटले राजाने दाण भर  
ने करिने पछी॥३॥लाज॥४॥सते एटले लाज रहे सते  
५॥वेष्टा प्रते एटले वेपार प्रते॥६॥करे छे॥७॥वालि  
८॥एज प्रकारे॥९॥गीतार्थ एटले सम्यक् प्रकारे शास्त्र  
नो जाण एहवो पुरुष पण॥१०॥लाज प्रते॥११॥देखि  
एटले विचारिने॥१२॥सम्यक् प्रकारे आचरे छे ए



टले जे वस्तुमां दोष थोडो होय अने लाभ घए  
 य एहवुं काम जतनाए करिने करे ए कारण मां  
 त्मार्थि पुरुषोने लाभ टोटानो विचार करिने जे  
 न वधारे होय ते काम जतनाये करिं कएवा जो  
 आमुक्वजोगिणु<sup>१</sup> घिय<sup>२</sup> ॥ हवइ<sup>३</sup> थोवा<sup>४</sup> वि<sup>५</sup> तस्स<sup>६</sup> जीवदया<sup>७</sup>  
 संविगपखखयणा<sup>११</sup> ॥ तो<sup>१०</sup> दिट्टा<sup>१०</sup> साहुवगस्स<sup>११</sup> ॥ ५२ ॥

संवेगपक्षिनि जतनानुं प्रमाण पणुं कहेछे.

अर्थ ॥ १ ॥ समस्त प्रकारे मूक्याछे संजमना जो  
 ले व्यापार ते जेणे एवो जे पुरुष ॥ २ ॥ तेना मनं  
 शो ॥ ३ ॥ निश्चे करिने जो ॥ ४ ॥ थोडि ॥ ५ ॥ पण ॥ ६ ॥ ज  
 दया एटले जीवनि दया ॥ ७ ॥ छे ॥ ८ ॥ ते जीव दया  
 साधु वर्गसमंधिनि एटले साधुना समुह मध्येनि  
 तीर्थकर माहाराजे दिठिछे एटले कहीछे एकारण  
 टो ॥ १ ॥ संवेग पक्षिनी जतना प्रमाणछे केमके ते  
 क्षनु अनिलापिपणुछे माटे; ए कारण माटे कोइ या  
 वर्णीना उदयवडे करिने संजम पालिशके नहीतोचि  
 विशेष संजम निजतनानो भाव राखवो ते पणुणका  
 किं<sup>१</sup> मुसगाण<sup>१</sup> अध्येणं<sup>२</sup> किं<sup>३</sup> वा<sup>४</sup> कागाण<sup>५</sup> कणगमालाए<sup>६</sup> ॥  
 मोहमळखविलिआणं<sup>८</sup> ॥ किं<sup>१०</sup> कइज<sup>११</sup> मुवएसमालाए<sup>१२</sup> ॥ ५३ ॥

आ उपदेशमाला अजोग्य पुरुषने आपवि

अजोग्यछे ते कहेछे:-

अर्थ॥१॥उंदराओने॥२॥अर्थे करिने एटले सुवर्णादि  
 क अर्थे करिने ॥३॥ गुं एटले गुं प्रयोजनछे आपितुं  
 कांड प्रयोजन नथि॥४॥वलि ॥५॥ कागडाओने॥६॥  
 नोनानि मालाए करिने ॥७॥ शुं आपितु कांड नहि  
 ए द्रष्टांते करिने ॥८॥ मिथ्यात्वादि कर्म रुप नजे क  
 रिने लेपाएजा एहवा जे पुरुषो तेनने॥९॥उपदेशना  
 लाए करिने एटले उपदेशनी परंपराए करिने॥१०॥  
 शुं॥११॥कारज धाय एटले नारे कर्मि जीवने आ उ  
 पदेशनाला पण कांड कारजनि करनारि नथि॥५२१॥

वरणकरणात्तत्पं॥अविपयवहुलानं सयययोगं निम्नं ॥

रत्ननी सयसहस्तो अविज्ञइ कुच्छूनास्त्व ॥५३०॥

जोग्य पुरुषने आ उपदेश माला आपवा

जोग्य छे ते कहेछे:-

अर्थ॥१॥वरणासितरि करणासितरि ने विपे एटले पं  
 नहा व्रतादिकने विज्ञे अने पिंड विपुध्या दिकने विज्ञे  
 नालस वाजा एहवा अने॥२॥विनये करिने भरेजा एट  
 ले विनय गुणे करिने रहित एहवा जे पुरुषो तेनने॥३॥  
 आ उपदेशनाला रुप प्रकर्षा॥४॥निरंतर अजोग्य छे  
 एटले तनने आपवा जोग्य नथि॥५॥खोटि छे ज्ञाना ते

जेनि एहवा जानवरने एटले कागडाने॥६॥  
 नुं॥७॥रत्न॥८॥नथि॥९॥पेहेरावा जोग्य नथि एटले  
 ग कागडाने रत्न पेहेराववा जोग्य नथि तेम  
 तने पण उपदेशमाला आपवा जोग्य नथि ए  
 माटे विनितने जशास्त्र जणाववुं केमके अविनितने श  
 जणावतां घणा दोषनुं कारण छे माटे; ए उपदेश  
 नाउण करत लगया मलं व सभानउ पहं सवं ॥

धर्ममिनामसीद्ब्रह्म गतिः कर्माद्गुरुभ्राह्म ॥५३१

हवे नारे कर्मिपणानी स्वरूप कहु छे:-

अर्थ॥३॥करतलने विपे एटले हाथेलिने विपे  
 लानि पटमा २।सदभावथकि एटले सत्यबुद्धि करिने  
 सवे ज्ञानादि रूप एहवो॥४॥मार्ग एटले मोक्ष मार्ग  
 ते॥५॥जाणिने पण आजीवा॥६॥धर्मने विपे॥७॥सि  
 य छे एटले शुद्ध धर्म करवाने विपे प्रमादि थायछे॥  
 निश्चो॥८॥होयां शुं कारण छे एहवि रिते शिष्य  
 करे सने गुरुमहाराज उत्तर कहंछे ते प्राणिने॥९॥कि  
 एटले ज्ञाना यणादि कर्म॥११॥गुरु वर्त छे एटले  
 जीव जाणतो सतो पण नारे कर्मा पणे करिने शुद्ध  
 मनो उद्यम नथि करता॥५३१॥

धर्मश्चकामनुव्यवेमु ॥ तस्मै भावो महि महि रमद ॥

गोगंतरसं०॥न<sup>१</sup>०इमं८सहं<sup>९</sup>सुहावेइ<sup>११</sup>॥५३२॥

र्थ॥१॥धर्म अर्थ काम मोक्ष ए चार पुरुषार्थोनि म  
२॥जे प्राणिनो॥३॥मननो अनिप्राया॥४॥जे॥५॥जे  
र्थोने विशे एटले जुदाजुदा पदार्थोने विशे॥६॥र  
एटले वरतेछे ते प्राणिने॥७॥वैराग्यनो एकांत र  
जेने विशे एवं एटले एकांत वैराग्य रसमयएवं  
॥आ ॥९॥ सर्व उपदेशमाला प्रकरण॥१०॥ नहि॥  
१॥सुखकारि थाय ए कारण माटे आ उपदेशमा  
रुप प्रकरण सर्व प्राणियोने सुखने उपजावनार न  
केमके समकित हित वैरागवंत प्राणियोने सुखने  
ज व : छे ए भाव॥५३२॥

यमतवालसाणं<sup>१</sup>॥विरगकहा<sup>२</sup>न<sup>४</sup>होइ<sup>६</sup>कन्नसुहा<sup>३</sup>॥

विगपखिखयाणं<sup>७</sup>॥हुड्ज<sup>८</sup>व<sup>९</sup>कोसि<sup>१०</sup>च<sup>११</sup>नाणिणं<sup>१२</sup>॥५३३॥  
ग्यनी वार्ता सर्वने सारी नथि लागति ते कहेछे॥  
र्थ॥१॥सत्रे प्रकारना संजमने विशे अने तप विशे  
लसवाला एटले प्रमादि एवा जे पुरुषो तेमने॥२॥  
ग्यनि वारता एटले मिथ्यात्वादि भाव दूर करवा  
वारता॥३॥कानने सुखकारि॥४॥ना॥५॥होय एटले  
गादिलोकोने समकित सहित वीतिपणानि वारता

पण रुचे नहि।६।निश्चो।७।संवेग पक्षि पुरुषोने एटले  
 क्षना अभिलाशी पुरुषोने वैराग्यनि वारता कान  
 खकारि।८।होय।९।बलि।१०।केटलाएक।११।  
 पुरुषोने एटले सम्यग् ज्ञानवंत पुरुषोने वैराग्या  
 रता एटले समाकितसहित वीरतिपणानि वारता  
 कारि होय एटले सारी लागे।५३३॥

सोडण<sup>१</sup>पगरण<sup>२</sup>मिणं<sup>३</sup>॥धम्मे<sup>४</sup>जाउ<sup>५</sup>न<sup>६</sup>हुइमो<sup>७</sup>जरम<sup>८</sup>॥  
 न<sup>९</sup>य<sup>१०</sup>ज्ञणियं<sup>११</sup>वेरगं<sup>१२</sup>॥ज्ञाणिज्ज<sup>१३</sup>अणंतसंसारि<sup>१४</sup>  
 अर्थ<sup>१५</sup>॥१॥आ<sup>१६</sup>॥२॥उपदेशमालारुप प्रकरण प्रते<sup>१७</sup>॥  
 भलिने<sup>१८</sup>॥१॥जे पुरुषने<sup>१९</sup>॥५॥शुद्ध धर्मने विशेषे एटले  
 कित पूर्वक वस्तुधर्मने विशेषे<sup>२०</sup>॥६॥उद्यम एटले  
 ॥७॥नथिजा<sup>२१</sup>॥८॥थयो एटले नथि उत्पन्न थयो<sup>२२</sup>॥९  
 ॥१०॥वैराग्य एटले संसारथी उदासि जावा<sup>२३</sup>११।न  
 उत्पन्न थयो एटले पांचइंद्रिना विषयना त्याग  
 राग्य न आव्यो त्यारे<sup>२४</sup>१३।जाणवुंके आजीवा<sup>२५</sup>१४।  
 संसारिक अनंतसंसारि वंतछे केमके अनंतसंसा  
 वोने बहू उपदेश देवे करिने पण वैराग्य न थाय

कम्माण<sup>१</sup>मुवहुत्राणुव<sup>२</sup>॥ममेणउवगच्छड<sup>३</sup>इमं<sup>४</sup>सं<sup>५</sup>॥

कम्ममत्तं चिक्खिमाणं<sup>१</sup>॥वद्यद<sup>२</sup>पामेण<sup>३</sup>भन्नं<sup>४</sup>॥२३५॥

अर्थ॥१॥कर्मना॥२॥अतिशै वहु उपसमे करिने एटले  
 ज्ञानावर्णादि कर्मना क्षयोपसमवडे करिने॥३॥ आ  
 प्रत्यक्षा॥४॥सर्व उपदेशमालारूप तत्व अर्थना समुह प्र  
 ते॥५॥पामेछे एटले जे प्राणिने ज्ञानावर्णादि कर्मना  
 क्षय उपसम थायछे ते प्राणि तत्व वस्तु प्रते जाणेछे  
 ॥६॥कर्मरूप मले करिने अतिशै लेपायेला एहवा जे  
 पुरुषो तेमनि आगला॥७॥केहेवामाड्युं एहवुं आ उप  
 देशनाला प्रक्रणा॥८॥पडखे थडने॥९॥जायछे एटले  
 चारेकर्मिजीवोना हृदयने विशेषे नथि प्रवेश करतुं॥१३॥  
 उपसमालने ३५॥ज्ञो १पदइ २तुणइ ३कुणइ ४वा ५हियए ५॥  
 सो ६जाणइ ७अप्यहियं ८॥नाउण ९सुहं १०समाइरइ ११५ ३६  
 अर्थ॥१॥जे पुरुषा॥२॥आ॥३॥उपदेशमाला प्रते॥४॥  
 जाणेछे॥५॥अथवा॥६॥सांभलेछे॥७॥हृदयने विशेषे॥८॥  
 करेछे एटले ते उपदेशमालाना अर्थ प्रते हृदयने वि  
 शे विचारेछे॥९॥ते पुरुषा॥१०॥आत्माना हित प्रते ते ए  
 टले इहलोक परलोकना साधन प्रते ॥११॥जाणेछे॥  
 १२॥आत्माना हित प्रते जाणिने॥१३॥शुभ प्रते एट  
 ले सम्यक् प्रकारे आत्माना कल्याण प्रते॥१४॥आच  
 रणे एटले करेछे॥१५॥३६॥

धंतमणिदामससिगणिणिहिपयपढमख्वराभिहाणेणं१॥

उवएसमालपकरण२॥मिणिमो२रईअं६हिअट्टाए१॥५३७॥

आ उपदेशमाला करनार पुरुशनुं नाम गर्जित  
शुचव्युं छे ते केहेछे:-

अर्थ॥१॥धंतशब्दमणिशब्द दामशब्द ससिशब्द  
णिशब्दणिहिशब्द एटला पदोना जे पेहेला अक्षर  
कार मकार दकार सकार गकार णिकाररुपते अक्षर  
करिने छे नाम ते जेनुं एहवो जे पुरुष तेणे एटले  
दास गणिजे तेमणे॥२॥आ॥३॥उपदेशमाला  
४॥पोताना आत्माने अर्थे॥५॥रच्युं छे एटलेपोताने  
र्थे तथा भव्य जीवोने अर्थे सूत्ररुप समुद्र मध्येधि  
र भूत लेइने आ प्रकरण बनाव्युं छे॥५३७॥

निणवयणकप्परुख्वो१॥अणेगसुतथसालिबिच्छिन्नो१॥

तवनियमकुसुमगुच्छो२॥सुगदफलवंधणो३नयइ॥५३८॥

जीनराजना वचननुं माहात्म्य पणुं केहेछे:-

अर्थ॥१॥अनेक सूत्र अर्थ रुप शाखा एटले डाला  
णे करिने विस्तीर्ण एटले विस्तारवंत एहवो॥२॥तप  
यम रुप कुसुमना गुच्छा एटले फुलना समुह छे  
विशे एहवो॥३॥सद्गति देव मनुष रुप ते रुपफल

तेनुं बंधन एटले निष्पत्ति छे जेने विशे एहवो॥ ४॥ जि  
न वचन एटले द्वादशांगरुप तेज कल्पत्रक्ष एटले मन  
बंधीतपूर्ण करनार॥५॥ जयवंतो छे एटले सर्वानि मध्ये  
उत्कृष्ट पणे वतें छे॥५३८॥

जुगा<sup>१</sup>सुसाहुवेरागिआण<sup>२</sup>॥ परलोगपथिआणं<sup>३</sup>च<sup>४</sup>॥

संवेगपखिखयाणं<sup>५</sup>॥ दायवा<sup>६</sup>बहुसुआणं<sup>७</sup>च<sup>८</sup>॥५३९॥

अर्थ॥१॥ भला साधुओने अने वैराग्यवंत एहवा श्रा  
वकोने॥२॥ वलि॥३॥ परलोक साधनने विशे उद्यमवंत  
एहवा पुरुषोने॥४॥ आ उपदेशमाला आपवा जोग्यछे  
एटले भणावा जोग्यछे॥५॥ वलि॥६॥ संवेगपक्षि पुरु  
षोने॥७॥ बहु श्रुति पुरुषोने॥८॥ आपवा जोग्यछे केम  
के आ उपदेशमाला पंडित पुरुषोने आनंदनि उपजा  
वनारीछे पण मूर्ख पुरुषोने आनंदनि उपजानारीनथि.

इदं<sup>१</sup>धम्मदासगणिणा<sup>२</sup>॥ जिणवयणूवएसकड्जमालाए<sup>३</sup>॥

मालञ्च<sup>४</sup>विविहकुसुमा<sup>५</sup>॥ कहिआ<sup>६</sup>उ<sup>७</sup>सुसिसवगस्स<sup>८</sup>॥५४०॥

उपदेशमालानुं माहात्म्य केहेछे:-

अर्थ॥१॥ ए प्रकारे॥२॥ धर्मदास गणि जे तेमणे ॥३॥

जिनराजना वचननो उपदेश तेनुं जे कार्ज तेनि माला  
एटले श्रेणि तेणे करिने॥४॥ फुलनि मालाना जेवि॥५॥



जला शिष्यनासमुहनी आगला॥६॥ कहि एटले शि  
 ने भणवाने अर्थे आ उपदेशमाला कहिछे ते उप  
 माला केहवि छे॥७॥ नाना प्रकारना उपदेश रुप  
 र ते रुपछे फुल ते जेने विशे एटले फुलनी माल  
 विशे नांना प्रकारना फुल होय अने उपदेशमा  
 रुपमालाने विशे नांना प्रकारना उपदेश रुप अ  
 ते रुप फुल होया॥८॥ पादपुर्ण करवाने विशे॥९॥  
 मंति करी १ बुद्धि करी २ ॥ कलाण करी ३ मुमंगल कारि ४ ॥

होइ ५ कहगस्स ६ परिसाए ७ ॥ तहय ८ निर्वाण फलदाइ ९ ॥ १० ॥

अर्थे॥१॥ केहेनार पुरुपने एटले उपदेशक पुरुपने २

॥३॥ परखदाने विशे सांचलनार पुरुपने॥३॥ आ उ

शमाला शांतिनि करनारि एटले क्रोधादिकनि दूर

रनारि छे॥४॥ अने ज्ञानादिक गुणानि वृद्धि करनारि

॥५॥ अने कलाणनि करनारि छे एटले इहलोक पर

कने विशे मृखनी आपनारि॥६॥ बलि॥७॥ जलामंगा

कनी करनारि॥८॥ छे॥९॥ अने तिमज ॥१०॥ परलोक

विशे निर्वाण फलने एटले मोक्षरुप फलने आपना

छे एटले आ उपदेशमाला केहेवा थकि अने मांज

वा थकि मोटुं फल यायछे॥५॥१॥

इत्थं<sup>४</sup>समप्पइ<sup>३</sup>इणमो<sup>१</sup>॥मालाउवएसपगरणं<sup>२</sup>पगयं<sup>३</sup>॥

गाहाणं<sup>५</sup>सज्ञाणं<sup>६</sup>॥पंचसया<sup>७</sup>चेव<sup>८</sup>०द्यालिसा<sup>९</sup>॥५४२॥

आ उपदेशमालानी गाथानि संख्या केहेछे:-

अर्थ॥ १ ॥ आ॥ २ ॥ आ उपदेशमाला प्रकरण ॥ ३ ॥

कह्युं ते ॥ ४ ॥ हियां एटले आ स्थलने विशे ॥ ५ ॥ संपूर

ण करिए छीए एटले प्रथमयकि आरंजिने हियां सु

धि पूरि करिछे ज्यारे आ उपदेशमालानि संख्या ग

णिए छीए त्यारे ॥ ६ ॥ सर्व ॥ ७ ॥ गाथाओनुं ॥ ८ ॥ पांचसे

॥ ९ ॥ चांलिस अधिक ॥ १० ॥ निश्चे एटले आ उपदेश

मालाने विशे सर्व गाथाओ मलिने पांचसेने चांलिस

छे अने उपरली चार गाथा विजा शास्त्रनिछे ॥ ५४२ ॥

जावय<sup>१</sup>लवणसमुद्रो<sup>२</sup>॥जावय<sup>३</sup>नख्वत्तमंडिउ<sup>४</sup>मेरु<sup>५</sup>

तावय<sup>६</sup>रइया<sup>७</sup>माला<sup>८</sup>जयंमि<sup>९</sup>धिरथावरा<sup>१०</sup>होइ<sup>११</sup>॥५४३॥

अर्थ ॥ १ ॥ ज्यां सुधि ॥ २ ॥ लवणसमुद्र शास्वतो वर्ते छे

॥ ३ ॥ ज्यां सुधी ॥ ४ ॥ नक्षत्रे करिने सोभायमान एहवो ॥ ५ ॥


मेरुपर्वत वर्ते छे ॥ ६ ॥ त्यां सुधि ॥ ७ ॥ जगतने विशे ॥ ८ ॥ रचे

लि एहवि आ ॥ ९ ॥ उपदेशमाला ॥ १० ॥ थिर द्रव्यनि पे

ठे एटले शास्वता द्रव्यनि पेठे स्थिर ॥ ११ ॥ थाओ एटले

सदाकाल अविचलपणे वर्तो ॥ ५४३ ॥

अखखरमत्ताहीणं० ॥ जं० चिय० पटियं० अप्पाणमाणेणं० ॥  
 तं० स्वमउ० म० भ० सुवं० ॥ जिणवयणविणिग्गया० वाणी० ॥  
 अर्थ॥ १ ॥ जिनराजना वचनथकि एटले जिनराज  
 मुखथकि विपेपे करि निकलि एहवि॥ २ ॥ श्रुतदेवि  
 ते॥ ३ ॥ अजाण एहयो हुं जे तेणे॥ ४ ॥ जे॥ ५ ॥ अक्षर  
 रिने अथवा मात्राए करिने हीन उपलक्षणथी अ  
 क एटले ओछुं वतुं॥ ६ ॥ कहयुं एटले आ ग्रंथने वि  
 जे कांड में ओछुं वधारे जण्युं होय॥ ७ ॥ निश्चे ॥ ८ ॥  
 एटलेहीन अधिकपणानो दूपण॥ ९ ॥ मारासंबंधि॥ १० ॥  
 सर्व एटले समग्र॥ ११ ॥ स्वम एटले स्वमजो ए प्र  
 थि धर्मदास गणि विरचित उपदेशमाला प्रकरण  
 चालावबोध संपूर्ण.





अखरमत्ताहीणं१॥जं४चियं५पदियं६अष्णणमाणेणं३॥

तं८खमउ११मभ९सवं१०॥जिणवयणाविणिग्गया१वाणी१५

अर्थ॥१॥जिनराजना वचनथकि एटले जिनरा

मुखथकि विपेपे करि निकलि एहवि॥२॥श्रुतदे

ते॥३॥अजाण एहवो हुं जे तेणे॥४॥जे॥५॥अक्ष

रिने अथवा मात्राए करिने हीन उपलक्षणथी

क एटले ओछुं वतुं॥६॥कहयुं एटले आ ग्रंथने

जे कांड में ओछुं वधारे-जण्युं होय॥७॥निश्चे ॥

एटलेहीन अधिकपणानोदूपण॥९॥मारासंबंधि॥

सर्व एटले समग्र॥११॥खमं एटले खमजो ए ५

श्रि धर्मदास गाणि विरचित उपदेशमाला प्रकर

वालावबोध संपूर्ण.

